

# राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधान संपादक-पुरातत्त्वाचार्य, जिनविजय मुनि

[ सम्मान्य संचालक, राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर ]

\*

साधुसुन्दर गणी विरचित

## उक्ति रत्नाकर

ॐ

\*\*\*\*\* प्रकाशक \*\*\*\*\*

राजस्थान राज्य संस्थापित

राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर

जयपुर (राजस्थान)

राजस्थान राज्य संस्थापित  
राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर  
( राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट )  
द्वारा प्रकाशित

राजस्थान पुरातत्त्व शिल्पमाला

प्रधान संपादक  
पुरातत्त्वाचार्य, मुनि जिनविजय  
[ सम्मान्य संचालक – राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर ]

प्रकाशनकर्ता  
संचालक – राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर  
जयपुर ( राजस्थान )

# राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर

\*

राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्थापित

## राजस्थानमें प्राचीन साहित्यके संग्रह, संरक्षण, संशोधन और प्रकाशन कार्यका महत् प्रतिष्ठान

\*

राजस्थानका सुविशाल प्रदेश, अनेकानेक शताब्दियोंमें भारतका एक हृदयस्वरूप स्थान बना हुआ होनेसे विभिन्न जनपदीय संस्कृतियोंका यह एक केन्द्रीय एवं समन्वय भूमि सा संस्थान बना हुआ है। प्राचीनतम आदिशालीन वनवासी भिल्लादि जातियोंके साथ, इतिहासयुगीन आर्य जातिके भिन्न भिन्न जनसमूहोंका यह प्रिय प्रदेश बना हुआ है। वैदिक, जैन, बौद्ध, शैव, भागवत एवं शाक्त आदि नाना प्रकारके धार्मिक तथा दार्शनिक संप्रदायोंके अनुयायी जनोंका यहां स्वस्थ और सहिष्णुतापूर्ण सन्निवेश हुआ है। कालक्रमानुसार सौर्य, शक, क्षत्रप, गुप्त, हूण, प्रतिहार, गुहिल्योत, परमार, चाळुक्य, चाहमान, राष्ट्रकूट आदि भिन्न भिन्न राजवंशोंकी राज्यव्यवस्थाएं इस प्रदेशमें स्थापित होती गईं और उनके शासनकालमें यहांकी जनसंस्कृति और राष्ट्रव्यपत्ति यथेष्ट रूपमें विकसित और समुन्नत बनती रही। लोगोंकी सुख-समृद्धिके साथ विद्यावानोंकी विद्योपासना भी वैसी ही प्रगतिशील बनी रही, जिसके परिणाममें, समयानुसार, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और देश्य भाषाओंमें असंख्य ग्रन्थोंकी रचनारूप साहित्यिक समृद्धि भी इस प्रदेशमें विपुल प्रमाणमें निर्मित होती गई।

इस प्रदेशमें रहनेवाली जनताका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनुराग अद्विभूत रहा है, और इसके कारण राजस्थानके गांव-गांवमें आज भी नाना प्रकारके पुरातन देवस्थानों और धर्मस्थानोंका गौरवोत्सादक अस्तित्व हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। राजस्थानीय जनताके इस प्रकारके उत्तम सांस्कृतिक-आध्यात्मिक अनुरागके कारण विद्योपासक वर्गद्वारा स्थान-स्थान पर विद्यामठों, उपाश्रयों, आश्रमों और देवमन्दिरोंमें वाङ्मयात्मक साहित्यके संग्रहरूप ज्ञानभण्डार-सरस्वतीभण्डार भी यथेष्ट परिमाणमें स्थापित थे। ऐतिहासिक उद्देश्योंके आधारसे ज्ञात होता है कि राजस्थानके अनेकानेक प्राचीन नगर-जैसे आधाट, भिरुमाल, जावालिपुर, सव्यपुर, सीरोही, बाहडमेर, नागौर, मेडता, जैसलमेर, सोजत, पाली फलोरी, जोधपुर, सीकमेर, मुजानगढ, भटिंडा, रणथंभौर, मांडल, चितौड, अजमेर, नराना, आभेर, सांगानेर, किशनगढ, चूह, फतेहपुर, सीकर आदि संकड़ों स्थानोंमें, अनेके अनेके ग्रन्थभण्डार विद्यमान थे। इन भण्डारोंमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और देश्य भाषाओंमें रचे गये हजारों ग्रन्थोंकी हस्तलिखित, मूल्यवान, पोथियां संग्रहीत थीं। इनमें से अब केवल जैसलमेर जैसे कुछ-एक स्थानोंके ग्रन्थभण्डार ही किसी प्रकार सुरक्षित रह पाये हैं। मुसलमानों और इंग्रेजों जैसे विदेशीय राज्योल्लोषकोंके संहारात्मक आक्रमणोंके कारण, हमारी वह प्राचीन साहित्य-व्यपत्ति बहुत कुछ नष्ट हो गई। जो कुछ बची-खुची थी वह भी पिछले १००-१५० वर्षोंके अन्दर, राजस्थानसे बहार-काशी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलोर, पूना, बडौदा, अहमदाबाद आदि स्थानोंमें स्थापित नूतन साहित्यिक संस्थाओंके संग्रहोंमें बड़ी तादादमें जाती रही है। और तदुपरान्त युरोप एवं अमेरिकाके भिन्न भिन्न ग्रन्थालयोंमें भी हजारों ग्रन्थ राजस्थानसे पहुंचते रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि राजस्थानका प्राचीन साहित्य भण्डार एक प्रकारसे अब खाली हो गया है; तथापि, खोज करने पर, अब भी हजारों ग्रन्थ यत्रतत्र उपलब्ध हो रहे हैं जो राजस्थानके लिये नितान्त अमूल्य निधि स्वरूप हो कर अत्यन्त ही सुरक्षणीय एवं संग्रहणीय हैं।

\*

२ ]

हृष और सन्तोषका विषय है कि राजस्थान सरकारने हमारी विनम्र प्रेरणासे प्रेरित हो कर, इस राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर ( राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ) की स्थापना की है और इसके द्वारा राजस्थानके अवशिष्ट प्राचीन ज्ञानभण्डारकी सुरक्षा करनेका समुचित कार्य प्रारंभ किया है। इस कार्यालय द्वारा राजस्थानके गांव-गांवमें ज्ञात होने वाले ग्रंथोंकी खोज की जा रही है और जहां कहींसे एवं जिस किसीके पास उपयोगी ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं उनको खरीद कर सुरक्षित रखनेका प्रबन्ध किया जा रहा है। सन् १९५० में इस प्रतिष्ठानकी प्रायोगिक स्थापना की गई थी, और अब पिछले वर्ष, १९५६ के प्रारंभसे, सरकारने इसको स्थायी रूप दे दिया है और इसका कार्यक्षेत्र भी कुछ विस्तृत बनाया गया है। अब तकके प्रायोगिक कार्यके परिणाममें भी इस प्रतिष्ठानमें प्रायः १०००० जितने पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थोंका एक अच्छा मूल्यवान् संग्रह संवित हो चुका है। आशा है कि भविष्यमें यह कार्य और भी अधिक वेग धारण करता जायगा और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक उन्नति करता जायगा।

\*

जिस प्रकार उक्त रूपसे इस प्रतिष्ठानके प्रस्थापित करनेका एक उद्देश्य राजस्थानकी प्राचीन साहित्यिक संपत्तिका संरक्षण करनेका है वैसा ही अन्य उद्देश्य इस साहित्यनिधिसे बहुमूल्य रत्नस्वरूप ग्रन्थोंकी प्रकाशमें लानेका भी है। राजस्थानमें उक्त रूपमें जो प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें संकड़ों ग्रन्थ तो ऐसे हैं जो अभी तक प्रकाशमें नहीं आये हैं; और संकड़ों ही ऐसे हैं जिनके नाम तक भी अभी तक विद्वानोंकी ज्ञात नहीं है। यह सब कोई जानते हैं कि इन ग्रन्थोंमें हमारे राष्ट्रके प्राचीन सांस्कृतिक इतिहासकी विपुल साधन-सामग्री छिपी पड़ी है। हमारे पूर्वज हजारों वर्षों तक जो ज्ञानार्जन करते रहे उसका निष्कर्ष और नवनीत नीकाल नीकाल कर, वे अपनी भावी सन्ततिके उपयोगके लिये इन ग्रन्थात्मक कृतियोंमें संचित करते गये। व्याकरण, कोष, काव्य, नाटक, अलंकार, छन्द, ज्योतिष, वैद्यक, कामविज्ञान, अर्थशास्त्र, शिल्पकला आदि लौकिक विद्याओंके ज्ञानके साथ श्रुति, स्मृति, पुराण, धर्मसूत्र, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, जैन, बौद्ध, शाक्त, तंत्र, मंत्र आदि धार्मिक, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विद्याओंके रहस्य भी इन ग्रन्थोंमें नाना स्वरूपोंमें प्रथित किये हुए हैं। इसी प्रकार, युग युगमें होने वाले अनेक शूर-वीर, दानी-ज्ञानी, सन्त-महन्त, त्यागी-वैरागी, भक्त-विरक्त आदि गुण-विशिष्ट नर-नारी जनोंके जीवन और कार्योंके विविध वर्णन - चित्रण भी इन्हीं ग्रन्थोंमें अन्तर्निहित हैं। अर्थात् हमारे राष्ट्रकी सर्व प्रकारकी गौरव-गरिमाविषयक कथा-गाथाकी रक्षा करने वाला हमारा यही एकमात्र प्राचीन साहित्यसंग्रह है। इसीके प्रकाशसे संसारमें भारतका गुरुपद ज्ञात हुआ और स्थापित हुआ है। यद्यपि आज तक इनमेंसे हजारों ही प्राचीन ग्रन्थ, प्रकाशमें आ चुके हैं, फिर भी हजारों ही ऐसे ग्रन्थ और बाकी हैं जो अन्धकारके तलवरमें दूटे पड़े हैं। इनका उद्धार करना और इन्हें प्रकाशमें रखना यह अब इस नूतन जीवन प्राप्त नव्य भारतके प्रत्येक व्यक्ति और संस्थाका परम कर्तव्य है। इसी कर्तव्यको लक्ष्य कर, इस संस्था द्वारा 'राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला' के प्रकाशनका आयोजन भी किया गया है। इसके द्वारा संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और देश्य भाषाओंमें निबद्ध विविध विषयोंके प्राचीन ग्रन्थ, तज्ज्ञ एवं सुयोग्य विद्वानोंसे संशोधित और संपादित हो कर प्रकाशित किये जा रहे हैं। अब तक कोई छोटे बड़े २० ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और प्रायः ३० से अधिक ग्रन्थ प्रेषोंमें छप रहे हैं। राजस्थान सरकार वर्तमानमें, इस कार्यके लिये प्रतिवर्ष २०००० रुपये खर्च कर रही है-पर हमारी कामना है कि भविष्यमें यह रकम बढाई जाय और तदनुसार अधिक संख्यामें इन प्राचीन ग्रन्थोंका समुद्धार और प्रकाशन कार्य किया जाय।

साहित्यका प्रकाश ही प्रजाके अज्ञानान्धकारको नष्ट कर, उसे दिव्यताका दर्शन कराता है।

माघ शुक्ला १४, वि० सं० २०१३. {  
( जीवनके ७० वें वर्षका प्रथम दिन ) }

मु नि जि न वि ज य

प्रकाशित ग्रन्थ

संस्कृत

१. प्रमाण मञ्जरी - नाटिके चूडामणि सर्वदेवान्याय प्रणीत। तीन व्याख्याओंसे सम्लंकृत।
२. यन्त्रराजरचना - जयपुर नरेश महाराज सवाई जयसिंह समारचित।
३. महर्षिकुलवैभवम् - विद्यावानस्पति स्व० श्रीमधुसूदन ओझाविरचित।
४. तर्कसंग्रह-फकििका - पं० श्यामकरायणकृत
५. कारकसंबन्धोद्योत - पं० रमयनन्दिकृत
६. वृत्तिदीपिका - पं० मोलिकृष्णभद्र कृत।
७. शब्दरत्नप्रदीप - संक्षिप्त संस्कृत शब्दकोष
८. कृष्णगीति - कवि सोमनाथकृत गीतिकाव्य।
९. शृंगारहासवलि - दर्पकवि विरचित।
१०. चक्रपाणिविजयमहाकाव्य - पं० लक्ष्मी-धरभद्र रचित।
११. राजविनोद काव्य - कवि उदयराज रचित।
१२. वृत्तसंग्रह - नाट्यविषयक पठनीय ग्रन्थ।
१३. नृत्यरत्नकोश - महाराणा कुम्भकर्ण प्रणीत।
१४. उक्तिरत्नाकर - पण्डित साधुसुन्दरगणी कृत।
१५. कविदर्पण - प्राकृत छन्दोरचनात्मक ग्रन्थ।
१६. वृत्तजातिमसुञ्चय - विरहाङ्ग कवि कृत।
१७. ईश्वरविलास महाकाव्य - पं० कृष्णभद्र-कविकृत।

राजस्थानी भाषा ग्रन्थ

१. कान्हड दे प्रवन्ध - कवि पद्मनाभ रचित।
२. क्यामखां राग्ना - मुग्लम कवि जानकृत।
३. लावारग्ना - चारणकविगया गोपालदानकृत।

प्रेसोमें छप रहे ग्रन्थ

(क) संस्कृत ग्रन्थ

१. त्रिपुराभारती - लक्ष्मण्डित
२. शकुनप्रदीप - लोचण्य जगो

३. करुणामृतप्रपा - ठकुर सोमेश्वर
४. बालशिक्षाव्याकरण - ठकुर संग्रामसिंह
५. पदार्थरत्नमञ्जुषा - पं० कृष्णमिश्र
६. काव्यप्रकाश, संकेत - भद्र सोमेश्वर
७. वसन्तविलास - फागु काव्य
८. नृत्यरत्नकोश - राजाधिराज कुम्भकर्ण देव
९. नन्दोपाख्यान - संस्कृत और राजस्थानी
१०. रत्नकोश - विविधवस्तुसंग्रह विचारात्मक
११. चान्द्रव्याकरणम् - आचार्य चन्द्रगोमि
१२. स्वयंभू छंद - स्वयंभू कवि
१३. प्राकृतानन्द - कवि रघुनाथ
१४. मुग्धाववोध आदि औक्तिक संग्रह
१५. कविकौस्तुभ - पं० रघुनाथ मनोहर
१६. दुर्गापुष्पांजलि - पं० दुर्गाप्रसादजी
१७. दशकण्ठवधम् -
१८. कर्णकुन्तल नाटक
१९. कृष्णलीलामृत काव्य

राजस्थानी भाषाग्रन्थ

१. बांकीदासरी वातां - चारणकवि बांकीदास
२. मुंहता नैणसीरी ख्यात - जोधपुरके मुंहता नेणसी लिखित
३. गोरा वादल-पदमिणी चउपई - जैन यति कवि देवमगतन कृत
४. राठोड वंशगी विगत - राठोडोंके इतिहासकी कथाएँ।
५. राजस्थानी साहित्य संग्रह - राजस्थानी भाषा में लिखित विविध उक्तान्त।
६. दाहाला एकल गिडरी वात - राजस्थानी भाषाकी एक मरग प्रहयनात्मक रचना।
७. सुजान संघत - कवि उदयराम रचित
८. चन्द्रवंशावलि - कवि मतिराम कृत
९. राजस्थानी वृहा संग्रह

इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त अनेकानेके संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी - हिन्दी भाषामें रचे गये ग्रन्थोंका संशोधन-संपादन आदि कार्य किया जा रहा है।

\*

इसी तरह राष्ट्र - भाषा हिन्दीमें भी उच्च कोटिके ग्रन्थोंके प्रकाशनका आयोजन चल रहा है।



# राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधान संपादक-पुरातत्त्वाचार्य, जिनविजय मुनि

[ सम्मान्य संचालक, राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर ]

\*

साधुसुन्दर गणी विरचित

## उक्ति रत्नाकर

❁

\*\*\*\*\* प्रकाशक \*\*\*\*\*

राजस्थान राज्य संस्थापित

राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर

जयपुर (राजस्थान)

# राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

राजस्थान राज्यद्वारा प्रकाशित

सामान्यतः अखिलभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातन कालीन  
संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषानिबद्ध  
विविधवाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थावलि

\*

प्रधान संपादक

पुरातत्त्वाचार्य, जिनविजय मुनि

[ ऑनररि मेंबर ऑफ जर्मन ओरिएण्टल सोसाइटी, जर्मनी ]

सम्मान्य सदस्य


भाग्यकारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, पूना; गुजरात साहित्य सभा, अहमदाबाद;  
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोधप्रतिष्ठान होसियारपुर; निवृत्त सम्मान्य नियामक-  
( ऑनररि डायरेक्टर ) - भारतीय विद्याभवन, बंबई.



==== ग्रन्थाङ्क २१ =====

साधुसुन्दर गणी विरचित

उक्तिरत्नाकर



प्रकाशक

राजस्थान राज्याज्ञानुसार

संचालक, राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर

जयपुर ( राजस्थान )

\*

माघ  
विक्रमाब्द २०१३ }

राज्यनियमानुसार - सर्वाधिकार सुरक्षित

{ फरवरी  
ख्रिस्ताब्द १९५७

साधुसुन्दर गणी विरचित  
**उक्तिरत्नाकर**

[ उक्तीयक-औक्तिकपदानि-शब्दानुक्रमादिसमवेत प्रथमवार प्रकाशित ]

संपादक

आचार्य, जिनविजय मुनि

[ प्रधान संपादक-राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला तथा सिंधी जैन ग्रन्थमाला ]

प्रकाशक

राजस्थान राज्याज्ञानुर

संचालक, राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्दिर

जयपुर (राजस्थान)

माघ  
वि. सं. २०१३ }

राजनियमानुसार - सर्वाधिकार सुरक्षित

{ फरवरी  
इ. सं. १९५७



## उक्तिरत्नाकर – अनुक्रम

१ उक्तिरत्नाकर	पृ. १-४५
२ अज्ञात विद्वत्कर्तृक उक्तीयक	„ ४६-५८
३ अज्ञात विद्वत्संगृहीतानि पुरातन औक्तिक पदानि	„ ५९-८२
४ उक्तिरत्नाकरादि अन्तर्गत शब्दानुक्रम	„ ८३-११८

## प्रस्तावना

स्व-संपादित 'सिंधी जैन ग्रन्थमाला' में हमने एक 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण' नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसकी भूमिकामें निम्न प्रकारका उल्लेख किया है— "महात्मा गांधीजीके मुख्य नेतृत्वमें स्थापित अहमदाबादके राष्ट्रीय गुजरात विद्यापीठके 'पुरातत्त्व मन्दिर' नामक विशिष्ट विभागके आचार्यपद पर, सर्व प्रथम, जब मेरी विशिष्ट नियुक्ति हुई, तभीसे मैंने औक्तिक प्रकारके साहित्यका संकलन करना निश्चित किया था और यथाशक्य उसको प्रकाशमें लानेका प्रयत्न चलाया था। ई. स. १९२३-२४ के अरसेमें, मैं एक बार पाटण गया और वहाँसे कुछ अन्यान्य औक्तिक प्रकरणोंके प्राचीन आदर्श प्राप्त किये। उक्त गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर के तत्त्वावधानमें संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भारतीय प्राचीन भाषाओंके, उच्चकोटीय अध्ययनके साथ, गुजराती भाषाके प्राचीन इतिहास और साहित्यके अध्ययनकी भी विशेष व्यवस्था की गई थी। उसके पाठ्यक्रममें आवश्यक ऐसे एक सन्दर्भ ग्रन्थका संकलन करनेकी दृष्टिसे 'प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ' के नामसे एक संप्रहात्मक ग्रन्थ मैंने तैयार करना प्रारंभ किया, जिसमें वि. सं. १३०० से ले कर १६०० तकके ३०० वर्षोंमें लिखे गये, प्राचीन गुजराती ( अर्थात् पश्चिमी-राजस्थानी ) भाषाके चुने हुए उद्धरणोंका एक अच्छा प्रमाणभूत संग्रह संकलित करनेका उद्देश्य रखा था। इसके लिये मैंने बहुत कुछ आधारभूत सामग्री एकत्र करनी शुरू की। पाटण, अहमदाबाद आदिके भण्डारोंमें प्राप्त प्राचीन ताडपत्रीय एवं वैसी ही प्राचीन कागजीय पुस्तकोंमें, यत्र तत्र उपलब्ध फुटकल गद्य उद्धरणोंके साथ, कुछ स्वतंत्र प्रकरणरूप कृतियोंका भी मैंने संग्रह किया।"—इत्यादि।

इन प्रकरणरूप कृतियोंमें, प्रस्तुत 'उक्ति रत्नाकर' भी एक थी, जो अब इस प्रकार, 'राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला' द्वारा प्रकाशित हो रही है।

इस ग्रन्थकी सर्वप्रथम प्रतिलिपि पाटणके भण्डारमेंसे प्राप्त प्राचीन पोथी परसे उसी समय कराई गई थी<sup>1</sup>। इसका सुदृण कार्य प्रारंभ करनेका निश्चय होने पर वीकानेरके जैन भण्डारमेंसे भी एक अन्य प्रति, श्रीयुत अगर चन्द्रजी नाहटा द्वारा प्राप्त हुई। अन्यान्य ग्रन्थसंग्रहोंमें भी इस ग्रन्थकी प्रतियां उपलब्ध होती हैं, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक प्रसिद्ध एवं पठनोपयोगी ग्रन्थ रहा है।

इस ग्रन्थके कर्ता साधुसुन्दर नामक जैन यतिजन हैं जो बहुत करके राजस्थान निवासी थे। इनके गुरु साधुकीर्ति पाठक-पदधारी यतिवर्य्य थे जो बहुत बड़े पण्डित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। प्रस्तुत ग्रन्थकारने अपने गुरुके विषयमें, ग्रन्थान्तकी प्रशस्तिमें कहा है कि 'इनने यवनपति ( बादशाह अकबर ) की सभामें, अन्यान्य पन्थोंके पंडितोंके

1 इस प्रतिके अन्तमें निम्न प्रकार लिपिकारका परिचयक उल्लेख किया हुआ है— 'संवत् १७५० वर्षे आषाढ सुदि ८ दिने बुधवारे पं. कनकवल्लभ लिपीकृतम्। शिष्य अमीचन्द्र शिष्य कृष्णानै लिपिकृत दत्तम्। श्रीरस्तु लेखकपाठकयोः।'

साथ वाद-विवाद करनेमें खूब ख्याति प्राप्त की थी; इस लिये बादशाहने इनको 'वादि सिंह'-का इस्काब प्रदान किया था। ये हजारों शास्त्रोंका सार जानने वाले असाधारण विद्वान् थे—इत्यादि। ग्रन्थकार साधुसुन्दरका बनाया हुआ 'धातुरत्नाकर' नामका एक अन्य बहुत बड़ा संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध होता है जिसमें संस्कृतके प्रायः सब धातुओंका संग्रह किया गया है और उनके रूपाख्यानोंका विशद आलेखन किया गया है। वह धातुरत्नाकर वि० सं० १६८० में बन कर पूर्ण हुआ था। इनकी बनाई हुई एक संस्कृत स्तुति भी प्राप्त होती है जिसमें जैसलमेरके किलेमें प्रतिष्ठित पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकरकी स्तवना की गई है। यह स्तुति वि० सं० १६८३ में बनी है। इससे साधुसुन्दर गणिका जीवन-समय विक्रमकी १७ वीं शताब्दीकी अन्तिम पचीसी निश्चित होता है।

इन्हीं साधुसुन्दरके एक शिष्य उदयकीर्ति नामक यति थे जिनने विमल-कीर्तिकी बनाई हुई 'पदव्यवस्था' नामक ग्रन्थकृति पर वि. सं. १६८१ में, व्याख्या की है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि ग्रन्थकर्ताकी गुरु-परंपरा एवं शिष्य-परंपरा दोनों ही विद्याकी उपासनामें दत्तचित्त थीं।

\*

ग्रन्थगत विषयका अवलोकन करनेसे विद्वानोंको ज्ञात होगा कि ग्रन्थकारने, अपनी देश-भाषामें प्रचलित, देश-स्वरूपवाले शब्दोंके संस्कृत प्रतिरूपोंका ज्ञान करानेकी दृष्टिसे इसका संकलन किया है। भारत महाराष्ट्रीक सर्व काल एवं सर्व देश व्यापिनी प्रधान साहित्यिक भाषा संस्कृत रही है। भारतीय वाङ्मयके इतिहासके आदि युगसे ले कर वर्तमान समय तक, संस्कृतकी प्रतिष्ठा और प्रभुता अक्षुण्ण रही है। बीच-बीचमें कालक्रमानुसार, संस्कृतके सन्तत प्रवाहके साथ साथ, उससे उत्पन्न एवं उससे सहकारप्राप्त मागधी, शौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री आदि अनेक प्राकृत भाषाओंका प्रादुर्भाव हो कर धीरे धीरे उनका विकास होता गया। फिर बादमें उनका स्वरूपान्तर हो कर, उनके स्थानमें तत्तद् देशीय अपभ्रंश भाषाओंका - जिनको मध्यकालीन वैयाकरणोंने 'दिश्यभाषा'के सर्व-सामान्य नामसे उल्लिखित किया है—आविर्भाव हुआ। भारतके समग्र उत्तरापथकी वर्तमान प्रादेशिक भाषाएं—हिन्दी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, सिंधी, राजस्थानी (—गुजराती, मारवाडी, मालवी) आदि लोकभाषाएं उसी अपभ्रंशके नूतनस्वरूपप्राप्त—विकसित भाषा विभाग हैं। इन भाषाओंमें, सेंकड़ों ही संस्कृत मूल शब्द, भिन्न भिन्न देश और जातिके लोगोंके पारस्परिक संपर्कके कारण, उच्चारण-भेद एवं व्यवहार-भेद द्वारा, अन्याकार स्वरूपको प्राप्त होते गये। खास करके संस्कृतके जिन मूल शब्दोंमें संयुक्ताक्षर अधिक होते हैं उन शब्दोंके प्राकृत—अपभ्रष्ट रूप विशेष रूपमें परिवर्तित होते रहे। स्वयं 'संस्कृत' शब्दका रूपान्तर 'संखय' 'सकय' 'संगड' आदि और प्राकृत शब्दका रूपान्तर 'पागय' 'पाइय' 'पायड' आदिके रूपमें परिवर्तित हो गया। 'उपाध्याय' शब्दका अपभ्रष्ट रूप, 'ओझा' 'झा' 'वझे' आदि बन गया। संस्कृत शब्दोंके ये प्राकृत—अपभ्रष्ट रूप, किस प्रक्रिया द्वारा बनते गये, इसका विचार प्राकृत—अपभ्रंशके व्याकरण ग्रन्थोंमें बहुत कुछ किया गया

है। जिन व्यक्तियोंको संस्कृत एवं प्राकृत भाषा-साहित्यका विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना अपेक्षित होता है वे तो इन भाषाओंके व्याकरण ग्रंथोंका यथायोग्य अध्ययन द्वारा ही उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करते रहते हैं। पर जो व्यक्ति सामान्य रूपसे, देश्य भाषा और संस्कृत भाषाका, व्याकरणकी दृष्टिसे परस्पर कितना साम्य है और कितना विभेद है; तथा जो शब्द देश्य रूपमें लोकप्रचलित हो कर, संस्कृत रूपसे भिन्नाकार दिखाई देते हैं, उनका संस्कृत प्रतिरूप कैसा होता है—यह बात जानना चाहते हैं उनके लिये, संक्षेपमें कुछ अवबोध करने करानेकी दृष्टिसे, पूर्व कालीन विद्वानोंने औक्तिक संज्ञावाले ग्रन्थों—प्रकरणोंकी फुटकर रचनाएं की हैं।

इन रचनाओंमें सबसे प्राचीन कृति जो हमें उपलब्ध हुई है, वह उक्त सिंघी जैन ग्रन्थमालामें प्रकाशित 'उक्तिव्यक्ति प्रकरण' है। हमारे मतानुसार विक्रमकी १२ वीं शताब्दीके अन्त भागमें उसकी रचना हुई होगी। उस ग्रन्थका कर्ता दामोदर पण्डित उत्तर प्रदेशके बनारस नगरका रहने वाला था। उसने बनारसके बाल विद्यार्थियोंको, अपने समयमें प्रचलित बनारसकी देश्य भाषाका अर्थात् तत्कालीन जनपदीय भाषाका, व्याकरणकी दृष्टिसे संस्कृत भाषाके साथ कैसा संबन्ध है और किस प्रकार देश्य शब्दोंका संस्कार करनेसे संस्कृतका शुद्ध रूप बनता है—यह बतानेके लिये, उस ग्रन्थकी रचना की है। बनारसकी गणना उस समय कोशल देशकी राजधानीके रूपमें होती थी; अतः विद्वानोंने वहांकी लोकभाषाका नाम कोशली रखना उचित समझा है। उस ग्रन्थकी प्रस्तावनामें इस विषयके बारेमें हमने जो उल्लेख किया है, उसे यहां संबन्धित समझ कर, उद्धृत किया जाता है—

“इस ग्रन्थमें इस प्रकार केवल प्राचीन कोशली भाषाका नमूना ही हमें नहीं मिल रहा है—परंतु उसके साथ, व्याकरण शास्त्र विषयक कई अन्य महत्त्वकी बातोंका भी इसमें उल्लेख है। ग्रन्थकार इसमें प्रयुक्त देश भाषाका कोई विशिष्ट नाम निर्देश नहीं करता है। वह इसे केवल, सामान्य रूपसे 'अपभ्रंश' के नामसे उल्लिखित करता है। उस समय, संस्कृत एवं प्रौढ प्राकृतके सिवा लोकव्यवहारकी प्रचलित देशभाषाके लिये विद्वान् जन अपभ्रंश नामका व्यवहार करते थे। अपने समयमें—अपने देशमें प्रचलित, लोकव्यवहृत अपभ्रंश भाषाका, संस्कृत व्याकरणकी पद्धतिसे किस प्रकारका संबन्ध है और किस प्रकार लोकभाषाके लोकरूढ उक्तियों=शब्दप्रयोगों द्वारा संस्कृतके व्याकरणका आधारभूत स्थूल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है—इसका विचार पण्डित दामोदरने इस ग्रन्थमें निबद्ध किया है। इसमें प्रयुक्त 'उक्ति' शब्दका अर्थ है 'लोकोक्ति' अर्थात् लोकव्यवहारमें प्रयुक्त भाषापद्धति; जिसे हम हिन्दीमें 'बोली' कह सकते हैं। लोकभाषात्मक 'उक्ति'की जो 'व्यक्ति' अर्थात् व्यक्तता=स्पष्टीकरण—तत्संबन्धी विचारका विवेचन—इस ग्रन्थमें किया गया है अतः इसका नाम 'उक्तिव्यक्तिशास्त्र' रखा गया है।”

“लोकभाषामें प्रचलित अधिक शब्द, वास्तवमें तो प्रायः संस्कृत भाषाके ही मूल शब्द हैं, परंतु पामरजन अर्थात् अपठित एवं अशिक्षित जनोंके अशुद्ध वाग्‌व्यापारके कारणसे, उन शब्दोंके वर्णों, अक्षरों आदिमें परिवर्तन हो हो कर, उनके मूल स्वरूपका भ्रंश हो गया अर्थात् वे शब्द अपने असली रूपसे भ्रष्ट हो गये। इसलिये इस लोक-व्यवहारमें प्रचलित शब्दस्वरूपवाली भाषाको पण्डित दामोदरने अपभ्रंश या अपभ्रष्ट नामसे उल्लिखित किया है; और किस तरह इन अपभ्रष्ट शब्दप्रयोगोंका, संस्कृतके व्याकरणनिबद्ध क्रिया, कारक, कर्म आदि उक्ति प्रकारोंके साथ, संबन्ध रहा है, उसका स्वरूपप्रदर्शन, इस ग्रन्थमें किया है। इसीलिये इसका दूसरा नाम ‘प्रयोग प्रकाश’ ऐसा भी रखा गया है।”

“ग्रन्थमें प्रतिपादित इस महत्त्वके विषय पर यहाँ अधिक लिखनेका अवकाश नहीं है। सद्भाग्यसे इस विषयके प्रतिपादक, इसी शैलिमें लिखे गये, अनेक छोटे बड़े ग्रन्थ, हमें राजस्थान एवं गुजरातके प्राचीन ग्रन्थमण्डारोंमें से प्राप्त हुए हैं और उनके संग्रहात्मक ऐसे दो-तीन संग्रह—ग्रन्थ हम और प्रकाशित करना चाहते हैं। इनमेंसे, ‘उत्तिरत्नाकर’ आदि, ऐसी ही ४-५ कृतियोंका संग्रहस्वरूप, एक ग्रन्थ तो, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्थापित एवं प्रकाशित तथा हमारे द्वारा संचालित एवं संपादित ‘राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला’में शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है।”

“इस प्रकारकी उक्तिव्यक्ति विषयक भिन्न भिन्न कृतियोंका और उनमें प्रथित भाषा विषयक सामग्रीका विस्तृत विचार, हम किसी अन्यतम ग्रन्थमें करना चाहते हैं। हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि भारतीय-आर्यकुलीन-देशभाषाओंके विकास-क्रमके अध्ययनकी दृष्टिसे यह औक्तिक-साहित्य-संग्रह बहुत उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करेगा।” – इत्यादि

उपर दिये गये उद्धरणमें जिन ४-५ कृतियोंका निर्देश सूचित किया गया है उनमें से प्रस्तुत संग्रहमें तो मुख्यतया साधुसुन्दर रचित ‘उत्तिरत्नाकर’ ही मुद्रित है। अन्य मुख्य रचनाएं, इसके द्वितीय भागके रूपमें छप रही हैं, जिनमें कुलमण्डन सूरिका बनाया हुआ ‘सुग्धावबोध-औक्तिक’ आदि संगृहीत हैं।

साधुसुन्दर गणीने अपनी प्रस्तुत रचनामें, प्रारंभमें संस्कृत व्याकरणके षट्कारक विषयक प्रकरणका निरूपण किया है। संस्कृत भाषाका प्रारंभिक परिचय प्राप्त करने-वालेके लिये यह जानकारी प्रथम आवश्यक होती है कि कौन सी विभक्तिका प्रयोग किस अर्थमें किया जाता है। अतः प्राथमिक विद्यार्थियोंको विभक्तिके ज्ञानके साथ ही कारक अर्थोंका ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक रहता है। इस लिये इस प्रकारके जो औक्तिक प्रकरण रचे गये हैं उनमें प्रायः प्रथम कारक अर्थोंका निरूपण किया हुआ होता है। प्रस्तुत उत्तिरत्नाकरमें भी उसी शैली अनुसार प्रारंभमें कारक प्रकरण लिखा

गया है। बादमें प्रायः २४०० जितने देश्य शब्द और उनके संस्कृत प्रतिरूप बतलाने वाले शब्दोंका विशाल शब्दसंग्रह दिया गया है।

प्रस्तुत संग्रहमें उक्तिरत्नाकरके बाद दो अन्य ऐसी ही पुरातन रचनाएं दी गई हैं। इनमें पहली रचनाका नाम सामान्य रूपसे 'उत्कीयक' ऐसा लिखा मिला है और दूसरी रचनाका नाम 'औक्तिकपदानि' ऐसा लिखा मिला है। इन रचनाओंके कर्ता या संग्राहकके नाम नहीं उपलब्ध हुए। जिन प्राचीन प्रतियों परसे इनका मुद्रण किया गया है वे प्रतियां विशेष प्राचीन हैं। अर्थात् उक्तिरत्नाकरके कर्ताके समयसे भी पूर्व लिखी गई ज्ञात होती हैं। इस प्रकारके और भी अनेक फुटकर संग्रह हमें प्राप्त हुए हैं जिनका प्रकाशन द्वितीय भागमें करना सोचा गया है। इन रचनाओंमें प्रतिपाद्य विषय तो एक ही प्रकारका होता है पर संकलन करनेकी शैली पृथक् पृथक् होती है।

इसमें दी गई 'उत्कीयक'नामक रचनामें प्रारंभमें 'वर्तमानकालिक' धातुरूप दिये हैं। उसके बाद कृदन्तसाधित शब्द दिये हैं। तदनन्तर 'तव्य' प्रत्ययान्त शब्दरूप दिये गये हैं। बादमें सर्वनाम आदि शब्दोंका संग्रह दिया गया है। इसमें 'कारकविचार' प्रकरण नहीं दिया गया।

'औक्तिकपदानि' नामक रचनामें, प्रारंभमें 'कारकविचार' आलेखित किया गया है। साधुसुन्दर गणीने अपनी रचनामें 'कारकविचार' शुद्ध संस्कृतमें लिखा है तब इस रचनामें यह प्रकरण अपनी देश्य भाषामें लिखा गया है। कारकविचारके बाद, इसमें वर्तमान, भूत, भविष्य आदि 'कालविचार' दिया गया है। बादमें शब्दसंग्रह है। तदनन्तर 'क्रियावचन' दिये गये हैं। फिर 'कर्मणिवाक्य' प्रयोग हैं। इसके अनन्तर विभक्ति-अर्थ और उनके वाक्य-प्रयोग दिये हैं। फिर 'समासप्रकरण' दिया गया है और इसके बाद तद्धित शब्दोंका विचार किया गया है। अन्तमें क्रियाओंके प्रेरक रूप और सन्तत रूपोंका दिग्दर्शन कराया गया है। इस प्रकार इस रचनामें व्याकरणके मुख्य मुख्य सभी विषयोंका विवेचन दिया गया है।

\*

हमारे राष्ट्रके किसी भी प्रदेशकी मातृभाषा संस्कृत नहीं है। मातृभाषाएं तो तत्तत् प्रादेशिक भाषाएं हैं, जिनका स्वरूप वर्तमानमें संस्कृतसे बहुत कुछ भिन्न मालूम होता है। मनुष्यके ज्ञानके विकासका क्रम सर्व प्रथम मातृभाषा द्वारा शुरू होता है। मातृभाषा द्वारा ही प्राप्त शब्दज्ञानके आधार पर, मनुष्य अन्यान्य भाषाओंका ज्ञान प्राप्त करता रहता है, और उनके द्वारा वह अपनी ज्ञानसमृद्धि बढ़ाता जाता है। हमारे देशकी सर्व प्रकारकी प्राचीन ज्ञानसमृद्धि, संस्कृत वाङ्मयरूप भण्डारमें निहित है। हजारों वर्षोंसे हमारे पूर्वज अपने अनुभव और बुद्धिबलसे प्राप्त समग्र ज्ञानसमृद्धिको, इसी संस्कृत वाङ्मयके भण्डारमें अर्पण करते रहे हैं और इस लिये हमारा यह वाङ्मय भण्डार, संसारके अन्यान्य भाषाकीय प्राचीन ज्ञानभण्डारोंकी अपेक्षा, सबसे

अधिक समृद्ध रहा है। आज भी इस भण्डारकी महत्ता और प्रतिष्ठा कम नहीं हुई है। अतः भारतके प्रत्येक विकासोन्मुख और संस्काराभिलाषी मनुष्यके लिये संस्कृत भाषाका ज्ञान प्राप्त करना परापूर्व कालसे, परम कर्तव्यरूप माना गया है। अन्य किसी प्रकारके विशेष ज्ञानके लिये न सही, पर, केवल वाणीकी शुद्धिके लिये— जिह्वाके सुसंस्कारके लिये— सुशब्द और कुशब्दका भेद समझनेके लिये ही, संस्कृत भाषाका अल्पस्वल्प भी परिचय प्राप्त करना परम आवश्यक माना गया है। इसी लिये हमारे पूर्वज यह एक अमूल्य शिक्षासूत्र बना गये हैं कि—

यद्यपि बहु नाधीपे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् ।

मा भूत् स्वजनः श्वजनः, स्वराज्यमपि च श्वराज्यं यत् ॥

हमारे पूर्वज हमें कह रहे हैं कि—हे पुत्रो ! यदि तुम कुछ अधिक न पढ़ सको, तो खैर, पर थोड़ा सा व्याकरण तो अवश्य ही पढ़ना, जिससे तुम 'स्वजन'को 'श्वजन' और 'स्वराज्य'को 'श्वराज्य' कह कर अपशब्दभाषी मूर्ख न बनने से बच सको।' जिनको थोड़ा सा भी शुद्ध भाषा ज्ञानका परिचय होगा, वे इस कथनके मर्मको ठीक समझ ही गये होंगे।

इस प्रकार वाणीकी शुद्धि एवं ज्ञानकी वृद्धिके निमित्त संस्कृत भाषाका स्वल्पज्ञान प्राप्त करना भी परम हितावह है। इसी हितको उद्देश्य करके पूर्वकालीन विद्वानोंने प्रस्तुत कृतिके समान सामान्य मुग्धजनोंके बोधके लिये अपनी रचनाएं की हैं—

‘उत्तीनां संग्रहं वक्ष्ये स्वान्ययोर्हितहेतवे ।’

उपर हमने सूचित किया है कि हमारी देश्य भाषाओंमें हजारों ही मूल संस्कृत शब्दोंके, देश एवं काल आदिकी भिन्न भिन्न परिस्थितियोंके कारण, विचित्र रूपान्तर हो गये हैं। कुलके अक्षर बदल गये, कुलके अर्थ बदल गये और कुलके उच्चार ध्वनि ही बदल गये हैं। ऐसे रूपान्तरित देश्य शब्दोंके संस्कृत प्रतिरूप क्या हैं, मुख्य तथा यही प्रदर्शित करनेके लिये साधुसुन्दर गणीने इस रचनामें प्रयत्न किया है। जैसा कि हमने उपर सूचित किया है ग्रन्थकार प्रायः राजस्थान निवासी हैं अतः इन शब्दोंमें राजस्थान एवं उसके समीपवर्ति गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, सिंध, पंजाव आदि प्रदेशोंमें प्रचलित देश्य शब्दोंका अधिक संग्रह होना स्वाभाविक ही है। पर इनमें सैंकड़ों शब्द ऐसे भी मिलेंगे जो सुदूर पूर्वके एवं दक्षिणके देशोंमें भी प्रचलित होंगे। अतः हम आशा करते हैं कि यह संग्रह, भारतकी प्रादेशिक भाषाओंके तुलनात्मक अध्ययन करने वालोंकी दृष्टिसे, तथा राष्ट्र भाषाके पद पर प्रतिष्ठित नूतन भारतकी राष्ट्र-भारती हिन्दीके विकास एवं विस्तारके ज्ञानकी दृष्टिसे भी उपयोगी सिद्ध होगा।

भारतीय विद्याभवन, ध्वंई }  
ता. १-२-५७ }

मु नि जि न वि ज य

साधुसुन्दर गणी कृत  
उक्तिरत्नाकर  
— ० —





पण्डितप्रवर-श्रीसाधुसुन्दरगणि-कृत

## उक्तिरत्नाकर

\*

ॐ ष्टौ नमः ॐ

स्मृत्वा श्रीभारतीं देवीं गुरुपादांश्च भक्तितः ।

उक्तीनां सङ्ग्रहं वक्ष्ये स्वान्ययोर्हितहेतवे ॥ १ ॥

तावत् तदुपयोगिविभक्तिस्वरूपं निरूप्यते । तत्र कर्तृकर्मकरण-सम्प्रदानापादानाधाररूपाणि षट् कारकाणि । सप्तमः सम्बन्धः । उक्ता-नुक्तभेदेन द्विधा षट् कारकाणि । तत्रोक्तेषु प्रथमैव विभक्तिः । अनुक्ते-ष्वनुक्रमेणैताः स्युः । कर्मणि द्वितीया । कर्तृ-करणयोस्तृतीया । सम्प्रदाने चतुर्थी । अपादाने पञ्चमी । आधारे सप्तमी । सम्बन्धे षष्ठी । इति संक्षेपेण विभक्तयः कथिताः । विस्तरोऽग्रेऽभिधास्यते ।

करोतीति कर्ता । स त्रिविधः - स्वतन्त्रः, हेतुकर्ता, कर्मकर्ता च । यो न परैः प्रेर्यते स स्वतन्त्रकर्ता । यथा गौर्गच्छति । योऽन्यं कारयति स हेतु-कर्ताच्यते । अनेककर्तृके मुख्यं कर्तारं प्रत्ययो वक्ति । यथा - राजा सूपकारे-णौदनं पाचयति । यो नापरैः प्रयुक्तः परान् प्रेरयति स मुख्यः । यथा - राजा चैत्रेण श्रियं पोषयति । हेतुकर्ता त्रिधा - प्रेषकः, अध्येषकः, आनुकूल्य-भागी च । यः प्रभुत्वेन प्रेरयति स प्रेषकः । यथा - राजा सेवकैः संग्रामं कारयति । यः सत्कारपूर्वकं प्रेरयति सोऽध्येषकः । यथा - श्रद्धावान् पुमान् गुरुं भोजयति । यो न प्रेषते नाध्येषते सोऽनुकूलभागी । चेतनाचेतन-त्वेनानुकूलभागी द्विधा । चेतनो यथा - पुत्रो जनकं हर्षयति । अचेतनो यथा - कारीषोऽग्निर्ब्राह्मणमध्यापयति । यदा कर्ता स्वध्यापारं कर्मण्या-रोपयति तदा कर्मकर्ता । यथा - पच्यते शालयः स्वयमेव । अत्र प्रस्तावाद-नुक्तभेदोऽपि कथ्यते । यथा - छात्रवृन्देन सरस्वती वन्द्यते ।

यत् क्रियते तत् कर्म । एतदनेकधा । निर्बल्य-विकार्य-प्राप्यभेदेन त्रिधा । इष्टानिष्टानुभयभेदात् पुनस्त्रिधा । तथा अकथितं कर्म कर्तृकर्म च । यत्पूर्वमसज्जायते जन्मना वा प्रकाश्यते तन्निरबल्यम् । असज्जायते यथा कारुः कटं करोति । जन्मना प्रकाश्यते यथा - माता सुतं सूते । यत् सतो गुणान्तराधानात् प्रकृत्युच्छेदतो वा विकारं प्रतिपद्यते तद्विकार्यम् ।

गुणान्तराधानात् यथा - स्वर्णकारः स्वर्णं कुण्डलीं कुरुते । प्रकृत्युच्छेदतो यथा - अग्निः काष्ठं दहति । यत्र क्रियाकृतौ विशेषो नास्ति तत् प्राप्यम् । यथा - चाक्षुषः सूर्यं पश्यति । यदीप्सितं तदिष्टम् । यथा - बालो मृष्टान्नमत्ति । यद् द्विष्टं सत् प्राप्यते तदनिष्टम् । यथा - अन्धः सर्वं लङ्घयति । यद्वा कण्टकान् मृद्राति । यत्रेच्छाद्वेषौ न स्तस्तदनुभयम् । यथा - पान्थो ग्रामं गच्छंस्तरोर्मूलान्युपसर्पति । दुहादीनां धातूनां प्रयोगे यद् द्वितीयं कर्म तदकथितम् । तच्च यथा - गोपो गां पयो दोगिध । मुख्य-गौणकर्मभेदमाह - यच्चोपज्युयमानं पयःप्रभृति तन्मुख्यं कर्म । यत्र निमित्तमपरं तदौषं कर्म । तच्च गोप्रभृति नीयमानं भारादि । नीवह्यादेर्धातुगणस्य प्रधानं कर्म । तत् तव्यादौ प्रत्यये उक्तसञ्ज्ञम् । यथा - देवदत्तेन भारो ग्रामं नेयः । दुहियाचि रुधि प्रच्छि भिक्षि ब्रुवि शासि चित्रथाः, नी वहि जि मोषि दण्डि मोदि कृषि मन्थि हृञ् प्रभृतयश्च धातवोऽपादानादिविधिं बाधित्वा द्विकर्मका भवन्ति । यथा - मुनिः कृतकोपं शमं याचति । अविनीतं विनयं याचति । अत्र याचिरनुनयार्थो ग्राह्यस्तेनास्य भिक्ष्यर्थो भेदः । सत्ता शुद्धि समृद्धि वृद्धि शयन स्थानासन दीप्ति लज्जा जीवन रोदन हृदन नृत्य प्रलाप क्रोध सन्तोष रुचि शोक दोष मरण स्पर्धा विहार भय मदोन्माद प्रमादाद्यर्था अकर्मका धातवः । यदुक्तम्

सत्ताशुद्धिसमृद्धिवृद्धिशयनस्थानासने भासने,  
लज्जा जीवरोदने च हृदने नृत्ये प्रलापे क्रुधि ।  
सन्तुष्टौ रुचिशोकदोषमरणस्पर्धाविहारेषु च,  
ज्ञेयो धातुरकर्मको भयमदोन्मादप्रमादेषु च ॥ १ ॥

सकर्मकाकर्मकयोर्लक्षणमिदम् - यदा कर्तृक्रियारूपपदद्वन्द्वात् पृथक् किमपेक्षा स्यात् तदा सकर्मको धातुरन्यथा अकर्मकः । यदुक्तम्-

कर्तृक्रियापदद्वन्द्वात् किमपेक्षा यदा पृथक् ।

तदा सकर्मको धातुर्विपरीतस्त्वकर्मकः ॥ १ ॥

अप्यन्तकर्ता प्यन्तेषु कर्म स्यात् तत् कर्तृकर्म ज्ञेयम् । पुनरेष्वेव नीखाद्यदिहाशब्दायक्रन्दिवर्जितेषु बोधाहारगतिशब्दकर्मनित्याकर्मकधातुष्वेतद् भवति । यथा - आचार्यः शिष्यं तत्त्वं बोधयति । बोधार्थाः सामान्येन ज्ञानार्थाः । इन्द्रियगम्यार्था अपि हृश् घ्रा स्पृश् ध्यै स्मृ तुल्याश्च । मैत्रो

भतारं रमणीं गमयति । अत्र गमिर्भजनार्थस्तेन न कर्तृकर्मत्वम् । विष्णुः पार्थ समरं गमयति । अत्र गत्यर्थ एव । नयत्यादिवर्जनम् । नयतेः प्राप्-  
 णोपसर्जनप्राप्त्यर्थत्वेन गत्यर्थत्वात्, खाद्यघोराहारार्थत्वात्, हाशब्दा-  
 यक्रन्दां च शब्दकर्मकत्वात् प्राप्ते कर्तृकर्मत्वे प्रतिषेधार्थम् । नयति भारं  
 चैत्रः । नाययति भारं चैत्रेण मैत्रः । खादयति पिता पुत्रेण खाद्यम् ।  
 आदयत्यन्नं चैत्रेण मैत्रः । हाययति चैत्रं मैत्रेण देवदत्तः । शब्दाययति  
 चैत्रं मैत्रेण देवदत्तः । क्रन्दयति चैत्रं मैत्रेण देवदत्तः । कर्मसंज्ञाप्रति-  
 षेधात् खव्यापाराश्रयं कर्तृत्वमेव । बहेरसारथिकर्तृत्वे तथा भक्षेरहिं-  
 सायां च न कर्तृकर्मत्वम् । यथा—भूपतिर्भृत्येन भारं ग्रामं वाहयति ।  
 सारथिकर्तृत्वे तु कर्तृकर्मत्वमेव । यथा—सारथिरुक्षाणं सस्यं ग्रामं वाह-  
 यति । चैत्रौ मैत्रेण मोदकान् भक्षयति । हिंसायां तु कर्तृकर्मत्वमेव ।  
 यथा—व्याधो गृहकुक्कुटं कीटकान् भक्षयते । ह्रकोः कर्ता णिगि वा कर्म  
 भवति । यथा—स्वामी भृत्यं भृत्येन वा भारं ग्रामं हारयते । वणिक् कारुं  
 कारुणा वा कटं कारयते । दृश्यभिवाद्योः कर्ता आत्मनेपदे वा कर्म भवति ।  
 यथा—राजा लोकं लोकेन वाऽऽत्मानं दर्शयते । पिता पुत्रं पुत्रेण वा पूज्य-  
 मभिवादयते । केचिच्चौरादिकस्याप्यभिवादेः कर्म वेच्छन्ति । अविवक्षि-  
 तकर्मधातोरणि कर्तुणो वा कर्मत्वम् । यथा—मैत्रेयश्चैत्रं चैत्रेण वा पाच-  
 यते । पिता पुत्रेण पाचयति । आख्यात-समास-तद्धित-कृद्भिः कर्मण  
 उक्तत्वं स्यात् । आख्यातेन यथा—कुम्भकारेण कुम्भः क्रियते । समा-  
 सेन यथा—आरूढवानरो वृक्षः । तद्धितेन यथा—शल्यः शतिकश्च पटः ।  
 शतेन क्रीतः शल्यः शतिकश्च । कृता यथा—तैः कटः कृतः । अथवा एकस्य  
 द्विकर्मणो धातोरुभयत्राप्युक्तत्वम् । बोधाहारार्थशब्दकर्मवतां णिगि  
 सति पर्यायेणोभयत्राप्युक्तत्वम् । बोधार्थादीनां यथा—गुरुणा शिष्यो  
 धर्मं बोध्यते, शिष्यं वा धर्मो बोध्यते । दात्रा अतिथिः ओदनं भोज्यते,  
 अतिथिं वा ओदनो भोज्यते । गुरुणा शिष्यो ग्रन्थं पाठ्यते, शिष्यं वा  
 ग्रन्थः पाठ्यते । गत्यर्थकर्मणां णिगि मुख्यं कर्म उक्तं स्यात् । यथा—तैर्मैत्रो  
 ग्रामं गम्यः, तैर्मैत्रो मासमास्यते । षट् कारके तु णिगि प्रोक्तमन्यद्वा  
 कर्म कर्मजः प्रत्ययो वक्ति । यथा—स तैर्मैत्रं ग्रामो गम्यः । तैर्मैत्रं मास  
 आस्यते । क्रियाविशेषणस्यापि सकर्मकधातुषु नपुंसकत्वमेकत्वं कर्मत्वं  
 च प्रयुज्यते । यथा—एषा ब्राह्मणी स्तोत्रं पठति सर्वं खादयति च । कुम्भः  
 शीघ्रमुत्पद्यते । गलिगोः सुखं जीवति । कर्मोपसंहारः कथ्यते । इत्येतत्  
 प्राप्यं निर्वर्त्य विकार्यं चेति त्रिधा इष्टानिष्टानुभयभेदैर्नवधा स्यात् ।  
 तत्पुनः प्रधानेतरभेदाभ्यामष्टादशधा । इति संक्षेपेण कर्मप्रपञ्चो दर्शितः ।

अथ करणम् । येन क्रियते तत् करणम् । तद् द्विधा - बाह्यमाभ्यन्तरं च । बाह्यं यथा - दात्रेण व्रीहीन् लुनाति । आभ्यन्तरं यथा - मनसा मेरुं गच्छति । अस्य करणस्य कारकान्तरतः स्वकाङ्क्षया प्रकर्षो न । यथा - दात्रैः शस्त्रैर्नखैर्वह्यो लूनाः । तद् बहुधाऽपि । एष रुद्राय पशुं ददातीत्यर्थं कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानं च कर्म स्यात् । एष पशुना रुद्रं यजति । तथा समविषमयोः कर्मत्वे करणं भवति । यथा समेन धावत्यश्वः । विषमेण धावत्यश्वः ।

अथ संप्रदानम् । तत् संप्रदानं यस्मै पूजानुग्रहकाम्यया दित्सा । संप्रदानं त्रिधा - अनुमन्तु प्रेरकं अनिराकर्तुं चेति । ददामीति वचनं श्रुत्वा एवं कुर्वित्यनुमन्यते तदनुमन्तु । यथा - यजमानो गुरवे गां ददाति । यच्च देहीत्युक्त्वा दातारं प्रेरयति तत् प्रेरकम् । यथा - द्विजाय गां देहि । यन्नानुमन्यते नापि प्रेरयति किन्तु सूकवदास्ते तद् अनिराकर्तुं । यथा - देवाय हेम दत्ते, राज्ञो दण्डं दत्ते, व्रतः पृष्टिं दत्ते । अत्र दित्सा नास्ति । भद्रस्य शतं दत्ते । अत्र च नार्चानुग्रहकाम्यया दानं तेन न सम्प्रदानम् । तदेव संप्रदानं यत् त्यागभावयुक्तं स्यात् । दीयमानेन संयोगाद् यदि स्वामित्वं लभते । रजकस्य वस्त्रं दत्ते । अत्र त्यागाभावस्तेन न सम्प्रदानम् । द्विजस्य भाटकेन गृहं दत्ते । अत्र स्वामिता न । गृहस्य स्वामी द्विजो न भवतीति न सम्प्रदानम् ।

अथापादानम् । यस्मादपायस्तदपादानम् । तदचलं चलं च । अचलं यथा - वृक्षात् पर्णं पतति । चलं यथा - धावतोऽश्वदपतदश्ववारः ।

अथाधिकरणम् । आधारोऽधिकरणम् । तत् षट्प्रकारम् । वैषयिकम् १, औपश्लेषिकम् २, आभिव्ययापकम् ३, नैमित्तिकम् ४ सामीप्यकम् ५, औपचारिकम् ६, चेति । विषयो नान्यत्र भावः । यथा - दिवि देवाः सन्ति । यत्रैकदेशसंयोगः स उपश्लेषः । यथा - चैत्रः कटे आस्ते; गृही गृहे तिष्ठति । यत्र सर्वाङ्गसंयोगस्तदभिव्ययापकम् । यथा - तिलेषु तैलम्, दधि घृतम् । यस्य यन्निमित्तं तन्नैमित्तिकम् । यथा - शूरो युद्धे संनह्यते, व्याधो दन्तयोः कुञ्जरं हन्ति । समीपमेव सामीप्यम् । यथा - गङ्गायां घोषः, गङ्गासमीपे घोष इत्यर्थः । शकुनिराकाशे याति, भक्तिमान् गुरौ नमति । यदुपचाराद्भवेत्तदौपचारिकम् । यथा - अङ्गुल्यग्रे करिशतमास्ते ।

अस्यायमिति सम्बन्धः । षष्ठ्युत्पत्तिस्तु मुख्यात् । तस्माद्विवक्षया सर्वाणि कारकाणि भवन्ति । स्वस्वामित्वादिभेदेन षष्ठ्यधिकशतमर्थाः

सन्ति । स्वस्वामित्वे यथा—राजा भूमेः पतिः, अयं गवां स्वामी ।  
जन्यजनकसम्बन्धे यथा—पार्वतीपरमेश्वरौ जगतः पितरौ ।  
वध्यवधकभावे यथा—हरिः कंसस्य हिंसकः ।  
भोज्यभोजकभावे यथा—मयूरोऽहेर्भोक्ता ।  
धार्यधारकभावे यथा—भृत्यश्छत्रस्य धारकः ।

उक्ता अनुक्तविभक्तयः ।

अथोक्तविभक्तीराह । तत्रोक्तः कर्त्ता यथा—जिनो जयति । कारको  
देवदत्तः । वैयाकरणः पुरुषः । कृतप्रणामो जनः । एवमादिष्वारूपात्-  
कृत्-तद्धितप्रत्ययानां समासस्य च कर्त्तरि विहितत्वादुक्तः कर्त्तृत्युच्यते ।  
उक्ते कर्त्तरि प्रथमैवेति न्यायात्, प्रथमा । १ ।

‘जैनेन जीवदया क्रियते’ इत्युक्तं कर्म । २ ।

‘स्नात्यनेनेति स्नानीयं चूर्णम्’ इत्युक्तं करणम् । ३ ।

‘दीयतेऽस्मै इति दानीयो ब्राह्मणः, एवं दक्षिणीयो ब्राह्मणः’ इह  
संप्रदाने ईयप्रत्ययः, एवं ‘दत्तभोजनोऽतिथिः’ समासोऽत्र संप्रदाने । एव-  
मादिषूक्तत्वात् संप्रदाने प्रथमा । ४ ।

उक्तमपादानं यथा—‘विभेत्यस्मादसौ भीमो राक्षसः’, एवं ‘उच्छिन्न-  
जनपदो देशः’ समासोऽत्रापादाने । एवमादिषूक्तत्वादपादाने प्रथमा । ५ ।

उक्तमधिकरणं यथा—‘आस्यतेऽस्मिन् तदासनम्’ करणाधिकरण-  
योश्चैत्यधिकरणे युट् । एवं ‘वटकिनी पौर्णमासी’ प्रायेण वटकानि  
भुज्यन्तेऽस्यामित्यधिकरणे तद्धितेऽन् प्रत्ययः । एवं ‘मत्तबहुमातङ्गं वनम्’  
समासोऽत्राधिकरणे । एवमादिषूक्तत्वादधिकरणे प्रथमा । ६ ।

उक्तसम्बन्धो यथा—गावो विद्यन्तेऽस्य गोमान् देवदत्तः, एवं चित्र-  
गुर्देवदत्तः । समासोऽत्र सम्बन्धे । एवमादिषूक्तत्वात्सम्बन्धे प्रथमा । ७ ।

इत्युक्तविभक्तयः ।

अथोक्तयुपयोगिनस्तदक्षरशब्दसंस्काराः केचित्तदर्थशब्दसंस्कारा  
अपि दर्शयन्ते—

[ देश्यशब्दाः तेषां संस्कृतरूपाणि च । ]

अरिहंत अर्हन् ।

सुहगुरु शुभगुरुः ।

ओझ्ज उपाध्यायः ।

आचारिज आचार्यः ।

ठवणारी स्थापनाचार्यः ।

साध साधुः ।

सूरिज सूर्यः ।

मगसिरनषत्र मृगशिरोनक्षत्रम् ।

आदरा आर्द्रा ।

असलेस अश्लेषा ।

सनीचर शनैश्वरः ।

राह राहुः ।

केत केतुः ।  
 सुषमाअरउ सुषमारकः ।  
 दुषमाअरउ दुःषमारकः ।  
 मुहूरत मुहूर्तः ।  
 अंधारउ अन्धकारम् ।  
 अमावस अमावास्या ।  
 पौस पौषः ।  
 माह माघः ।  
 फागुण फाल्गुनः ।  
 चैत चैत्रः ।  
 वैशाख वैशाखः ।  
 ज्येष्ठ ज्येष्ठः ।  
 आषाढ आषाढः ।  
 श्रावण श्रावणः ।  
 भाद्रपद भाद्रपदः ।  
 आश्विन आश्विनः ।  
 कार्तिक कार्तिकः ।  
 ऋतु ऋतुः ।  
 शरत्काल शरत्कालः ।  
 वर्षाकाल वर्षाकालः ।  
 वर्ष वर्षम् ।  
 अहोरात्र अहोरात्रः ।  
 तत्काल तत्कालम् ।  
 आकाश आकाशम् ।  
 मेघ मेघः ।  
 करक करकः ।  
 पूर्व दिक् पूर्वा दिक् ।  
 दक्षिण दक्षिणा ।  
 पश्चिम पश्चिमा ।  
 उत्तर उत्तरा ।  
 विदिक् विदिक् ।  
 अपसर अपसरः ।  
 यमराज यमराजः ।

भइरव भैरवः ।  
 गोरी गौरी ।  
 चाण्डा चामुण्डा ।  
 श्रीवच्छ श्रीवत्सः ।  
 लक्ष्मी लक्ष्मीः ।  
 सरसती सरस्वती ।  
 शारद शारदा ।  
 सूगडांग सूत्रकृताङ्गम् ।  
 ठाणांग स्थानाङ्गम् ।  
 सज्जाय स्वाध्याय ।  
 पहेली प्रहेलिका ।  
 वातचीत वार्त्ताचिन्ता ।  
 ऊतर उत्तरम् ।  
 असोई उपश्रुतिः ।  
 चाटुकारिया चाटुकारिकाणि  
 वचन वचनानि ।  
 साच सत्यम् ।  
 कूड कूटम् ।  
 ओलंभउ उपालम्भः ।  
 आण आज्ञा ।  
 वाजित्र वादित्रम् ।  
 वाजउ वाद्यम् ।  
 अवाज आतोद्यम् ।  
 पडहउ पटहः ।  
 आशंक आशङ्का ।  
 चोज चोद्यम् ।  
 अचरिज आश्चर्यम् ।  
 आंसू अश्रुः ।  
 नींद निद्रा ।  
 स्वस्थपणउ स्वास्थ्यम् ।  
 उच्छुकपणउ औत्सुक्यम् ।  
 आलस आलस्यम् ।  
 जिणचंद्रभट्टारक जिनचन्द्रभट्टारकाः ।  
 छावडउ शावकः ।

कुंअर कुमारः ।  
 जोवन यौवनम् ।  
 बृढउ वृद्धः ।  
 वडपण वार्द्धकम् ।  
 सीख्यउ शिक्षितः ।  
 विन्यानी वैज्ञानिकः ।  
 कुच्छित कुत्सितः ।  
 कायर कातरः ।  
 घातकू घातुकः ।  
 चोरी चौरिका ।  
 वणीमग वनीपकः ।  
 रीसाल् ईर्ष्यालुः ।  
 भूखियउ बुभुक्षितः ।  
 भूख बुभुक्षा ।  
 त्रिसियउ तृषितः ।  
 भात भक्तम् ।  
 मांड मण्डः ।  
 तीमण तेमनम् ।  
 घेवर घृतवरः ।  
 दूध दुग्धम् ।  
 दही दधि ।  
 खीरि क्षैरेयी ।  
 मांखण म्रक्षणम् ।  
 रांध्यउ राद्धम् ।  
 सीधउ सिद्धम् ।  
 कांजी काञ्जिकम् ।  
 वेसवार वेषवारः ।  
 चूक चुक्रम् ।  
 आमलवेतस आम्लवेतसः ।  
 राई राजिका ।  
 धाणा धान्यकम् ।  
 पीपलि पिप्पली ।  
 त्रिगडू त्रिकटु ।

जीरउ जीरकः ।  
 हींग हिङ्गु ।  
 चावण चर्बणम् ।  
 कलेवउ कल्यवर्त्तः ।  
 धायउ धातः ।  
 आपणी धायउ आत्मीयधातः ।  
 ध्रेठउ धृष्टः ।  
 विलखउ विलक्षः ।  
 खास कासः ।  
 खाज खर्जूः ।  
 गड गडुः ।  
 कोढ कुष्ठः ।  
 हिडकी हिक्का ।  
 फोडउ स्फोटकः ।  
 व्याऊ विपादिका ।  
 लेहउ लेखकः ।  
 मसि मषी मसी वा ।  
 सेठि श्रेष्ठी ।  
 जूआरउ द्यूतकारकः ।  
 पासउ पाशकः ।  
 सुआसणी सुवासिनी ।  
 वहू वधू ।  
 जानी जन्याः ।  
 पणीहारि पानीयहारिका ।  
 डोहलउ दोहदम् ।  
 पूत पुत्रः ।  
 भात्रीजउ भ्रात्रीयः ।  
 भाणेजउ भागिनेयः ।  
 पोत्रउ पौत्रः ।  
 दोहीत्रउ दौहित्रः ।  
 गोलउ गोलकः ।  
 भाई भ्राता ।  
 पीतरियउ पितृव्यः ।



सालउ श्यालः ।	तालुयउ ताडुकम् ।
साली श्याली ।	घांटी घण्टिका ।
माउलउ मातुलः ।	गावडि ग्रीवा ।
बहिणि भगिनी ।	खांधउ स्कन्धः ।
नणंद ननान्दा ।	काख कक्षा ।
बाप बप्पः ।	पासउ पार्श्वम् ।
माइ माता ।	कुहणी कफणिः ।
धाई धात्री ।	कलाई कलाचिका ।
सासू श्वश्रूः ।	हाथ हस्तः ।
सुसरउ श्वशुरः ।	आंगुली अङ्गुलिः ।
पितर पितरः ।	अंगूठउ अङ्गुष्ठः ।
सयणाचार खजनाचारः ।	बिहथि बितस्तिः ।
आपणउ आत्मीयः ।	ताली तालिका ।
सगउ खकः ।	मूठि मुष्टिः ।
सथर शरीरम् ।	चलू चलुकः ।
मडउ मृतकः ।	धाम व्यामः ।
मुंड मुण्डः ।	पुरस पौरुषम् ।
माथइ भमरउ मस्तके भ्रमरकः ।	पूठउ पृष्ठम् ।
सिमथउ सीमंतः ।	उच्छंग उत्सङ्गः ।
पली पलितम् ।	कालिजउ कालेयम् ।
मुहडउ मुखकम् ।	तिली तिलकः ।
निलाड ललाटः ।	हीह हीहा ।
कान कर्णः ।	आंत्र अन्नणि ।
आंखि अक्षि ।	कडि कटिः ।
कीकी कीका ।	पूंद पुतौ ।
भिउडी भृकुटिः ।	चूति च्युतिः ।
नाक नकम् ।	आंड अण्डम् ।
होठ ओष्ठः ।	साथलि सक्थि ।
गाल गल्लः ।	जांध जङ्घा ।
मूँळ श्मश्रु ।	पींडी पिण्डिका ।
दाढी दाढिका ।	घूंटी घुण्टकः ।
दाढ दाढा ।	पान्ही पार्णिणः ।
जीभ जिह्वा ।	लोही लोहितम् ।

हाड हड्डम् ।	आथर आस्तरः ।
पांसुली पर्शुका ।	चंद्रयुज चन्द्रोदयः ।
मींजी मज्जा ।	गुलणी गुणलयनिका ।
चांमडी चर्मिका ।	मांचउ मञ्चकः ।
नस ससा ।	खाटि खट्टा ।
लाल लाला ।	उसीसउ उच्छीर्षकम् ।
वीठ विघ्ना ।	आरीसउ आदर्शः ।
गूह गूयम् ।	अलतउ अलक्तकः ।
वेस वेषः ।	लाख लाक्षा ।
मांडणउ मण्डनम् ।	काजल कज्जलम् ।
पडवास पटवासकः ।	दीवउ दीपः ।
कपूर कर्पूरः ।	दसी दशा ।
अगर अगुरु ।	वीक्षणउ व्यजनकम् ।
जाइफल जातिफलम् ।	कांकसी कङ्कतिका ।
कुंकू कुङ्कुमम् ।	तंबोलरी थई ताम्बूलस्य स्थगी ।
लउंग लवङ्गम् ।	महतउ महामालः ।
मउड मुकुटम् ।	सुंक शुल्कः ।
गुंधिवउ ग्रन्थनम् ।	अंतेउर अन्तःपुरम् ।
सेहरउ शेखरः ।	बइरी वैरी ।
वाली वालिका ।	मित्राई मैत्री ।
कडउ कटकः ।	हेरू हैरिकः ।
नेउर नूपुरम् ।	लांच लज्जा ।
तंत्र तन्नकम् ।	गूझ गुह्यम् ।
चलणी चलनी ।	असवार अश्ववारः ।
कांचली कञ्जुलिका ।	अंगरखी अङ्गरक्षी ।
साडी शाटी ।	धनुष धनुः ।
कच्छोटउ कच्छापटः ।	वेझ वेध्यम् ।
कालडी कच्छाटिका ।	खयडउ खेटकः ।
नातणउ नक्तकः ।	मोगर मुद्गरः ।
पछेवडउ प्रच्छदपटः ।	प्रयाणउ प्रयाणकम् ।
गूणि गोणी ।	राडि राटिः ।
पालथी पर्यस्तिका ।	धाडि धाटी ।
नउद नवतः ।	सराध श्राद्धम् ।

दीख दीक्षा ।  
 ईधण इन्धनम् ।  
 राख रक्षा ।  
 छार क्षारः ।  
 जनोई यज्ञोपवीतम् ।  
 वाणिज वाणिज्यम् ।  
 मूल मूल्यम् ।  
 संचकार सल्लङ्कारः ।  
 नाव नौः ।  
 बेडी बेडा ।  
 उधार उद्धारः ।  
 पडहू प्रतिभूः ।  
 साखी साक्षी ।  
 गाउ गन्वृतम् ।  
 कोस क्रोशः ।  
 जोअण योजनम् ।  
 गोवाल गौपालः ।  
 आहीर आभीरः ।  
 करसउ कर्षकः ।  
 खेती क्षेत्री ।  
 हलरी ईस हलस्य ईषा ।  
 मई मल्लम् ।  
 कोदालउ कुदालः ।  
 खणेन्नउ खनित्रम् ।  
 पराणी प्राजनम् ।  
 जोत्र योत्रम् ।  
 मेढी मेधी ।  
 कारू कारुः ।  
 माली मालिकः ।  
 कलाल कर्यपालः ।  
 मद मद्यम् ।  
 सूई सूची ।  
 सूईउ सौचिकः ।

कातरि कर्त्तरी ।  
 कातरणी कर्त्तनिका ।  
 त्राकलउ तर्कुः ।  
 पीजणउ पिञ्जनम् ।  
 वरता वरत्रा ।  
 आर आरी ।  
 सूत्रहार (सूथार) सूत्रधारः ।  
 वांसोली वासी ।  
 करवत करपन्नकम् ।  
 टांकुलउ टङ्कः ।  
 लोहार लोहकारः ।  
 कंदोई कान्दविकः ।  
 नावी नापितः ।  
 आहेडउ आखेटकः ।  
 आहेडी आखेटिकः ।  
 वागुर वागुरा ।  
 वागुरी वागुरिकः ।  
 पासी पाशिका ।  
 भील भिल्लः ।  
 भूइ भूः ।  
 धरती धरित्री ।  
 सींधव सैन्धवम् ।  
 विडलूण विडलवणम् ।  
 जवखार यवक्षारः ।  
 साजी खर्जिका ।  
 खलहाण खलधानम् ।  
 खलउ खलम् ।  
 खेड खेटम् ।  
 खंधार स्कन्धावारः ।  
 कोट कोट्टः ।  
 वाणारसी वाराणसी ।  
 अउज अयोध्या ।  
 ऊजयणी उज्जयिनी ।

हथिणाडर हस्तिनापुरम् ।  
 आगरड अर्गलापुरम् ।  
 लाहडर लाभपुरम् ।  
 सरसडपाटण सरस्वतीपत्तनम् ।  
 वीकानडर विक्रमनगरम् ।  
 जालडर जाबालपुरम् ।  
 साचडर सत्यपुरम् ।  
 भरुअच्छ भृगुकच्छपुरम् ।  
 सुरंग सुरङ्गा ।  
 मसाण श्मशानम् ।  
 सीहदार सिंहद्वारम् ।  
 मह मठः ।  
 परव प्रपा ।  
 वार द्वारम् ।  
 घर गृहम् ।  
 आगल अर्गला ।  
 कुंची कुञ्चिका ।  
 तालड तालकम् ।  
 कवाड कपाटम् ।  
 छावति छदिः ।  
 मतवारणड मत्तवारणम् ।  
 पूतली पुत्रिका पुत्रिला वा ।  
 सडगडड समुद्रकः ।  
 मंजूस मञ्जूषा ।  
 बुहारी बहुकरी ।  
 ऊखलड उदूखलः ।  
 किडड कटः ।  
 मूसल मुशलः ।  
 चूल्ही चुलिः ।  
 घडड घटः ।  
 अंगारसगडी अङ्गारशकटी ।  
 भाठ भ्राष्ट्रः ।  
 कडाहड कटाहः ।

मडणि मणिकः ।  
 गागरी गर्गरी ।  
 मंथाणड मन्थानकः ।  
 हिमालड हिमालयः ।  
 सेत्रुंजड शत्रुञ्जयः ।  
 सोवनगिरि सुवर्णगिरिः ।  
 पाहाण पाषाणः ।  
 पाथर प्रस्तरः ।  
 आगर आकरः ।  
 खाणि खानिः ।  
 गेरू गैरिकम् ।  
 सोनागेरू सुवर्णगैरिकम् ।  
 खडी खटी ।  
 सिंघाण सिंघानः ।  
 काटी काटिका ।  
 काट कटः ।  
 तांबड ताम्रम् ।  
 त्रडअड त्रपुकम् ।  
 कथीर कत्तीरम् ।  
 रूपड रूप्यम् ।  
 पीतल पित्तलम् ।  
 कांसड कांस्यम् ।  
 पारड पारतः (दः) ।  
 सोरटी सौराष्ट्री ।  
 तूरी तुवरी ।  
 हरियाल हरितालम् ।  
 हींगलू हींगुलः ।  
 रावटड राजावर्तः ।  
 परवाली = प्रवाली प्रवालम् ।  
 मोती मौक्तिकम् ।  
 अथाह अस्थाघम् ।  
 आछड अच्छम् ।  
 ओस अवश्यायः ।

पालउ प्रालेयम् ।  
 हीम हिमम् ।  
 धूअरि धूमरी ।  
 फीण फेनः ।  
 घाट घट्टः ।  
 वेरा विदारकाः ।  
 परनालि प्रणाली ।  
 कूल्ह कुल्या ।  
 कादम कर्दमः ।  
 उमाड उरमुकम् ।  
 धूअउ धूमः ।  
 बीजली विद्युत् ।  
 वाउ वायुः ।  
 वाडी वाटी ।  
 वेलि वल्ली ।  
 जड जटा ।  
 छालि छल्ली ।  
 काठ काष्ठम् ।  
 मांजरि मञ्जरिः ।  
 पान पर्णम् ।  
 कली कलिका ।  
 गोछउ गुच्छः ।  
 विकस्यउ विकसितम् ।  
 गांठि प्रन्थिः ।  
 पीपल पिप्पलः ।  
 वड वटः ।  
 उंवर उदुम्बरः ।  
 आंबउ आम्रः ।  
 बील बिल्वः ।  
 केसू किंशुकः ।  
 कपास कर्पासः ।  
 बोरि बदरी ।  
 महुअउ मधूकः ।

बहेडउ बिभीतकः ।  
 हरडइ हरीतकी ।  
 चांपउ चंपकः ।  
 जाइ जातिः ।  
 बीजोरउ बीजपूरकः ।  
 कयर करीरः ।  
 घाहडी धातकी ।  
 कउछ कपिकच्छूः ।  
 धत्तूरउ धत्तूरकः ।  
 कउठ कपिथः ।  
 नालेर नालिकेरः ।  
 वांस वँशः ।  
 नागरवेलि नागवल्ली ।  
 द्राख द्राक्षा ।  
 बालउ बालकम् ।  
 साठी षष्टिकः ।  
 चणउ चणकः ।  
 मूंग मुद्गः ।  
 मउठ मकुष्ठः ।  
 गोहू गोधूमः ।  
 वाल वल्लः ।  
 कुलथ कुलथः ।  
 कुलथी कुलथिका ।  
 तूअरि तुंबरी ।  
 सामउ श्यामकः ।  
 कांग कङ्गुः ।  
 चीणउ चीनकः ।  
 सरिसव सर्षपः ।  
 वथूअउ वास्तुकम् ।  
 कारेलउ कारवेल्लः ।  
 कोहलउ कूष्माण्डः ।  
 चीभडी चीर्भिटी ।  
 कंकोडउ कर्कोटकः ।

मूलउ मूलकम् ।  
 रोहीस रोहिषः ।  
 डाभ दर्भः ।  
 ध्रोव दूर्वा ।  
 मोथ मुस्ता ।  
 त्रिणउ तृणम् ।  
 खड खटः ।  
 विस विषः ।  
 वच्छनाग वत्सनागः ।  
 कीडउ कीटः ।  
 जलो जलौकाः ।  
 कवडउ कपर्दः ।  
 कडडी कपर्दिका ।  
 वांभणी ब्राह्मणी ।  
 घीवेलि घृतेली ।  
 उदेही उपदेहिका ।  
 लीख लिखा ।  
 जू यूका ।  
 छप्पई षट्पदी ।  
 माकण मत्कुणः ।  
 वीलू वृश्चिकः ।  
 भमरउ भ्रमरः ।  
 खजूअउ खद्योतः ।  
 मयण मदनम् ।  
 माखी मक्षिका ।  
 तिर्यच तिर्यङ् ।  
 हाथी हस्ती ।  
 सँड शुण्डा ।  
 आंकुस अङ्कुशः ।  
 घोडउ घोटकः ।  
 पूछ पुच्छम् ।  
 दामण दामाश्चनम् ।  
 पाखर प्रक्षरः ।

वाग बल्गा ।  
 पलाण पत्न्ययनम्, पर्याण वा ।  
 ऊंट उष्ट्रः ।  
 करहउ करभः ।  
 गदहउ गर्दभः ।  
 बलद बलीवर्दः ।  
 सांड षण्डः, षण्डः ।  
 धोरी धौरेयः ।  
 पोठीयउ पृथ्वी ।  
 सींग शृङ्गम् ।  
 वांझ गाइ वन्ध्या गौः ।  
 ऊहाडउ ऊधः ।  
 छाणउ छगणम् ।  
 गोउल गोकुलम् ।  
 खीलउ कीलकः ।  
 ञालउ छगलः ।  
 बाकरउ बर्करः ।  
 मीढउ मेण्डकः ।  
 कूकर कुकुरः ।  
 सीह सिंहः ।  
 वाघ व्याघ्रः ।  
 सादूल शार्दूलः ।  
 चीत्रउ चित्रकः ।  
 गइंडउ गण्डकः ।  
 सूअर सूकरः ।  
 रीछ ऋच्छः, ऋक्षो वा ।  
 स्याल शृगालः ।  
 लउंकडी लोमटिका ।  
 सिसलउ शशः ।  
 गोह गोधा ।  
 गोहीरउ गोघेरः ।  
 मूसउ मूषकः ।  
 ऊंदिरउ उन्दुरः ।

जाहउ जाहकः ।  
 नउल नकुलः ।  
 विसहर विषधरः ।  
 सउण शकुनः ।  
 पंखी पक्षी ।  
 चांच चञ्चुः ।  
 पींछ पिच्छम् ।  
 पांख पक्षः ।  
 मोर मयूरः, मोरो वा ।  
 चांदलउ चन्द्रकः ।  
 कोइल कोकिलः ।  
 कोइली कोकिला ।  
 घूघू घूकः ।  
 कूकडउ कुक्कुटः ।  
 चास चापः ।  
 बाबीहउ बप्पीहः ।  
 टांटोहडी टिट्टिमः ।  
 चिडउ चटकः ।  
 चिडी चटका ।  
 बगलउ बकः ।  
 चील्ह चिल्लः ।  
 सूडउ शुक्रः ।  
 सारी शारिका ।  
 चामाचेड चर्मचटका ।  
 वागुलि बल्लुलिका ।  
 आडि आटिः ।  
 पारेवउ पारापतः ।  
 तीतिर तिक्तिरिः ।  
 माछलउ मत्स्यः ।  
 तन्तुअउ तन्तुः ।  
 काछवउ कच्छपः ।  
 दादुर दर्दुरः ।  
 जनम जन्म ।

सास आसः ।  
 आउषउ आयुः ।  
 कुंअलउ कोमलः ।  
 सुंआलउ सुकुमालः ।  
 नीटुर निष्ठुरः ।  
 महुरउ मधुरः ।  
 मीठउ मृष्टम् ( मिष्टम् ) ।  
 पांडरउ पाण्डुरः ।  
 कविलउ कपिलः ।  
 सामलउ श्यामलः ।  
 कावरउ कर्बुरम् ।  
 पांति पङ्क्तिः ।  
 थोडउ स्तोकम् ।  
 ऊजलउ उज्ज्वलम् ।  
 चोखउ चोक्षम् ।  
 नयडउ निकटम् ।  
 सासतउ शाश्वतम् ।  
 माझ मध्यम् ।  
 विचालउ विचालम् ।  
 सारीखउ सदृक्षम्  
 झांप झम्पा ।  
 भखउ भरितम् ( भृतम् ) ।  
 वींथ्यउ वेष्टितम् ।  
 दाधउ दग्धम् ।  
 वीधयउ विद्धम् ।  
 फाडियउ पाटितम् ।  
 छेदियउ छेदितम् ।  
 लाधउ लब्धम् ।  
 पठावियउ प्रस्थापितम् ।  
 कामण कर्मणम् ।  
 सांकडउ संकटम् ।  
 उच्छव उत्सवः ।  
 मेलउ मेलकः ।

विघ्न विघ्नः ।  
 परिचउ परिचयः ।  
 काज कार्यम् ।  
 ऊपरि उपरि ।  
 आगइ अप्रतः ।  
 सांप्रत सांप्रतम् ।  
 अरिहंतभणी नमो अहंते नमः ।  
 सहहियउ श्रद्धितम् ।  
 वांकउ वक्रम् ।  
 कूपल कुड्मलम् ।  
 मणसिल मनःशिला ।  
 सुमिणउ स्वप्नः ।  
 पीहर पितृगृहम् ।  
 आलउ आर्द्रम् ।  
 सिढिल शिथिलम् ।  
 करीस करीषः ।  
 गुहिरउ गम्भीरम् ।  
 विहूणउ विहीनः ।  
 पीठ पीठम् ।  
 मउर मुकुरम् ।  
 गरुयउ गुरुकम् ।  
 भिंगार शृङ्गारः ।  
 वींट वृन्तम् ।  
 सिंगार शृङ्गारः ।  
 रिणउ ऋणम् ।  
 गारवउ गौरवम् ।  
 गउरवान गौरं गौरवर्णं च ।  
 सांकलउ शृङ्खलम् ।  
 छांह छाया ।  
 नीमी नीवी ।  
 झीणउ क्षीणम् ।  
 खोडउ क्षो(क्षौ?) टकः ।  
 जट्ट जर्तः ।

भसम भस्म ।  
 दाहिणउ दक्षिणः ।  
 कोहली कूष्माण्डी ।  
 सलाह श्लाघा ।  
 हलुअउ लघुकः ।  
 सीप शुक्तिः ।  
 मइलउ मलिनम् ।  
 छोति छुप्तिः ।  
 अल्लूतउ अल्लुप्तः ।  
 हेठइ अधः ।  
 तुम्ह केरउ युष्मदीयः ।  
 अम्ह केरउ अस्मदीयः ।  
 एकलउ एकः (एककः) ।  
 नवलउ नवः ।  
 पीलउ पीतम् ।  
 काठउ गाढम् ।  
 जेवडउ यावान् ।  
 तेवडउ तावान् ।  
 वीच वर्त्म ।  
 वहिलउ शीघ्रम् ।  
 झगडउ झगटकः ।  
 कोड कौतुकम् ।  
 जुआ जुआ पृथक् पृथक् ।  
 समधात समधातुः ।  
 गीत धातइ गायउ गीतं धातुना गीतम् ।  
 आगइ वाघ अप्रे व्याघ्रः ।  
 पाछइ दोतडि पश्चाद्दुस्तटी ।  
 वरतरकाटिवउ वरत्राकर्त्तनम् ।  
 सळ्यउ शटितम् ।  
 मांडी मण्डिका ।  
 लापसी लपनश्रीः ।  
 गुलमंडा गुडमण्डका ।  
 वीनती विज्ञप्तिः ।



कच्चोलउ कच्चोलकः ।  
 डोइलउ दारुहस्तकः ।  
 कुघाट कुघाटः ।  
 कावडि कावाकृतिः ।  
 चूकउ चुकितः ।  
 आरती आरात्रिकम् ।  
 मंगलेवउ मङ्गलदीपकः ।  
 धत्तूरियउ धत्तूरितः ।  
 बूब बुम्बा ।  
 सार सारा ।  
 गलणउ गलनकम् ।  
 दंतसूकट दन्तशकटः ।  
 खीचडउ क्षिप्रचटः ।  
 राब रब्बा ।  
 कणहतउ कणभक्तम् ।  
 वेगउ वेगवान् ।  
 ऊधारइ उद्धारके ।  
 वाहरू व्याहारकः ।  
 हेडाऊ हेडावित्तः ।  
 धरणइ धरणके ।  
 कूचउ कूर्चकः ।  
 पोटली पोडलिका ।  
 मोटलिया पोडलिकाः ।  
 नीसाण निःखानः ।  
 कांठलउ कण्ठकः ।  
 पाहरू प्राहरिकः ।  
 पीठी पिष्टिका ।  
 अखत्र अक्षत्रम् ।  
 ओलग अवलगा ।  
 संधूस्यउ संयुक्षितः ।  
 पहरइ प्रहरके ।  
 लालि लल्लिः ।  
 किलकिलाट किलकिलायितम् ।

बीह विभीषिका ।  
 तलार तलारक्षः ।  
 सेल शल्यः ।  
 साल शल्यम् ।  
 चूणि चूर्णिः ।  
 फाटउ स्फाटितम् ।  
 गोफणि गोफणी ।  
 ओठी औष्ट्रिकः ।  
 कापडी कार्पाटिकः ।  
 विसोआ विशोपकाः ।  
 सींगडी शृङ्गिका ।  
 चाकी चक्रिका ।  
 चकरडी चक्रिका ।  
 दोहणी दोहिनी ।  
 पूत्रेणउ पुत्रकः ।  
 गूजर गूर्जरः ।  
 गूजरी गूर्जरी ।  
 नाथियउ नस्तितः ।  
 अखाडउ अक्षपाटकः ।  
 दाणमंडही दानमण्डपिका ।  
 मूली मूलिका ।  
 सूली शूलिका ।  
 धुवउ ध्रुवकः ।  
 मढी मठिका ।  
 भमरडउ भ्रमरकः ।  
 गोमूत्री गोमूत्रिका ।  
 पूलउ पूलकः ।  
 पुडउ पुटकः ।  
 दाणउ दानकः ।  
 सींगउ शृङ्गकम् ।  
 किवाडी कपाटिका ।  
 कांबडी कंबाष्टिका ।  
 सउणी शकुनिकः ।

पावटउ पादावर्त्तः ।  
 गर्दहिला गर्दभिच्छाः ।  
 लात लत्ता ।  
 सेरी सेरिका ।  
 सीरवी सीरपतिः ।  
 नाहर नाखरः ।  
 रोझ रोझः ।  
 आखलउ आखलकः ।  
 निसरावउ निश्रावः ।  
 डहर दहरः ।  
 मुजल मुखजलम् ।  
 महुआल मधुजालम् ।  
 शिलावटउ शिलावर्त्तकः ।  
 जाडउ जाड्यम् ।  
 मुखास मुखास्या ।  
 दंतूसल दन्तमुसलः ।  
 रती रक्तिका ।  
 बीयउ बीजकः ।  
 अंकोडउ अंकुटकः ।  
 लडू लट्टा ।  
 वडी वटिः ।  
 धणिया धनीयम् ।  
 कहाणी कथानिका ।  
 खटमल खटामल्लः ।  
 भडिथ भडित्रम् ।  
 डाकर डात्कारः ।  
 लींडी लिण्डिका ।  
 पाणी पानीयम् ।  
 पाण पानम् ।  
 जडी जटी, जटिका ।  
 सीअल शीतलिका ।  
 पाइणि पभिनी ।  
 पमोडी पभककर्टी ।

वही वहिका ।  
 पान्हउ प्रखवः ।  
 आलावउ आलापकः ।  
 अहेसउ उदेशकः ।  
 रतांजणी रक्तचन्दनम् ।  
 खीरणी क्षीरिका ।  
 पतंग पत्राङ्गं पतङ्गं वा ।  
 कुंभट कुञ्जकण्टकः ।  
 बहेडउ बहेटिकः, विभेदको वा ।  
 धामण धर्मणः ।  
 लेसूडउ लेखशाटकः ।  
 गोखरू गोक्षुरः ।  
 कांडी कण्डी ।  
 भांखडी भक्षटः ।  
 मरूअउ मरुबकः ।  
 एलियउ ऐलेयम् ।  
 बेल बेला ।  
 खरहडी खरकाष्ठिका ।  
 देवालि देवताली ।  
 कासुंदउ कासमर्दः ।  
 संद स्यन्दः ।  
 बीजाबोल बीजकबोलः ।  
 सातपरिया सप्तपर्यायः ।  
 पवित्री पवित्रकम् ।  
 मुहछण मुखक्षणः ।  
 हाक हक्का ।  
 हासी हासिका ।  
 नवारसउ नवायसम् ।  
 चील्हसाग चिल्लीशाकम् ।  
 पाइली पल्ली ।  
 कुंभी कुंभिका ।  
 कंसाल कंसालः ।  
 त्राकडीबेलउ तुलाबेलकः ।

कुंपी कुम्पिका ।  
 कचोलउ कच्चोलकम् ।  
 कांगउ कगः ।  
 ग्वालेर गोपालगिरिः ।  
 घिसि वृष्टिः ।  
 परसु परश्वः ।  
 जमवारउ जन्मवारकः ।  
 गिलगिली गिलद्विलिका  
 बकोर बर्करिका ।  
 खयर वडी खदिरवटिका ।  
 धनागरउ धान्यनागरम् ।  
 काकडीरउ गिर कर्कट्या गिरः ।  
 कोरियउ पात्रउ कोरितं पात्रम् ।  
 कोरिवउ कोरवणम् ।  
 सूंहाली सुकुमारिका ।  
 चीठी चीष्टिका ।  
 दसेआगलउ दशभिरगलः ।  
 गादी गब्दिका ।  
 धीया न पुत्ता धीदा न पुत्रः ।  
 चाथ( प्र० वाघ )रि च(प्र० व )स्तरी ।  
 तूणियउ कापडउ तूणितं कर्पटम् ।  
 अटारइ नात्रा अष्टादशनात्रकाणि ।  
 नहरणी नखहरणी, नखरदनिका वा ।  
 नखारउ समारिवउ नखानां समारणं  
 समारचनं वा ।  
 सांजउ मात्राविना निरोध न करइ  
 संयतो मात्रकं विना निरोधं न करोति ।  
 केलि कदली ।  
 केला कदलीफलयानि ।  
 चवळारी फली चपळकानां फलयः ।  
 धोवणी धावनिका ।  
 जयणा यतना ।

सीलउ आहार वाइलउ हवइ  
 शीतल आहारो वातलो भवति ।  
 वाछडउ गाइ धायउ  
 वत्सको गां धावितवान् ।  
 पात्रारउ काप पात्राणां कल्पः ।  
 मूठउ मुष्टः ।  
 रूठउ रुष्टः ।  
 तूठउ तुष्टः ।  
 राखडी रक्षाटिका ।  
 काकरउ कर्करः ।  
 संदेशउ संदेशकः ।  
 सोनारउ मणियउ सुवर्णस्य मणिकः ।  
 विरूयउ विरूपकम् ।  
 संथारउ संस्तारकः ।  
 पहिलउ आपइ पळइ बापइ  
 प्रथममात्मनः पश्चाद्दृप्पस्य ।  
 वरसोला वर्षोपलः ।  
 तको आयउ तकः आगतः ।  
 तका मुहपती तका मुखपोतिका ।  
 दाम करइ काम द्रम्मः करोति कर्म ।  
 गहिलउ घणुं उतावलउ हवइ  
 ग्रहिलो घनमुत्तालो भवति ।  
 आगी वीझाई अग्निर्विध्यातः ।  
 गुल गुलियउ गुडो गुल्यः ।  
 साकर मीठी शर्करा मिष्टा ।  
 आखा त्रीज अक्षततृतीया ।  
 भाउ बीज आतृद्वितीया ।  
 दीवाली दीपालिका ।  
 होली होलिका ।  
 आंबइरा मडरा आम्रस्य मयूराः ।  
 लेसाल लेखशाला ।  
 पोसाल पोषधशाला ।  
 थांपणि स्थापनिका ।

बाउची बाकुची ।  
 घर गृहं घोरो वा ।  
 ओवउ अपवर कः ।  
 अंतेउरी अन्तःपुरिका ।  
 पातली लोवडी प्रतला लोमपटी ।  
 ऊतारणउ अवतारणकम् ।  
 तंबोली ताम्बूलिकः ।  
 गांधी गान्धिकः ।  
 तेली तैलिकः ।  
 हेवउ हेवाकः ।  
 मिठाई मृष्टादिका ।  
 सुंखडी सुखादिका ।  
 ऊभउ ऊर्द्धः ।  
 वड्डठउ उपविष्टः ।  
 तंबोल बीडउ ताम्बूलबीटकम् ।  
 आलजाल बोलइ आलजालं ब्रवीति ।  
 सीकारा मूकइ सीत्कारान् मुञ्चति ।  
 पोईस पूतिकेशः ।  
 छानउ छन्नः ।  
 परताति परततिः ।  
 राइणि राजादनी ।  
 कुंअरि कुमारी ।  
 गिलो गड्ढुची ।  
 आंबारी कातली आम्रकत्तलिका ।  
 पुहुंक पृथुकम् ।  
 पहाआ पृथुकाः ।  
 टांक टङ्कः ।  
 मासउ माषकः ।  
 आक अर्कः ।  
 नींबू निम्बुकः ।  
 सिरघू शिग्युः ।  
 छीकउ शिक्क्यम् ।  
 थूणी स्थूणी ।

थांभउ स्तम्भः ।  
 सीविवउ सीवनम् ।  
 सांडसउ संदंशः ।  
 मणिआर मणिकारः ।  
 आंबिली आम्बिलकी ।  
 गाडी गन्धी ।  
 डांस दंशः ।  
 मसउ मशकः ।  
 अरड्डसउ अटरूपः ।  
 मोरसिखा मयूरशिखा ।  
 महुलेठी मधुयष्टिः ।  
 अरीठउ अरिष्टः ।  
 लहसण लशुनः ।  
 गाजर गृञ्जनम् ।  
 किरातउ किरातः ।  
 जीवापोता पुत्रजीवकः ।  
 थूथउ तुच्छम् ।  
 दीवडी दितिः ।  
 भांगरउ मृङ्गराजः ।  
 अतिविस अतिविषा ।  
 धाणी धानाः ।  
 सातू सक्तवः ।  
 धररी जाली गृहस्य जालिका ।  
 गउख गवाक्षः ।  
 बाण संधियउ बाणः सन्धितः ।  
 ऊंचउ ऊछालियउ उच्चमुच्छालितः ।  
 फलहउ फलिहकः ।  
 झाड झाटः ।  
 सूआर सूषकारः ।  
 रसोई रसवती ।  
 सोनाररी मूस सुवर्णकारस्य मुषा ।  
 कुंभार हांडी घडइ कुम्भकारो हण्डिकां  
 घटयति ।

सांखडि संखडिः संस्कृतिर्या ।  
 वीवाहपगरण विवाहप्रकरणम् ।  
 पढमाली प्रथमालिका ।  
 कोठार कोष्ठागारम् ।  
 भंडार भाण्डागारम् ।  
 अरहट अरवट्टः ।  
 घरटी घरिष्टिका ।  
 घरट घरट्टः ।  
 चमार चर्मकारः ।  
 वाणही उपानत् ।  
 सूपडउ सूर्पकम् ।  
 चालणी चालनी ।  
 नीसा मिश्रा ।  
 लोढउ लोष्टकः ।  
 ढल दलिः ।  
 नीसरणी निःश्रेणिः ।  
 पोली पोलिका ।  
 पूडा पूपकाः ।  
 वडी वटिका ।  
 वडा वटकाः ।  
 लाडू लडुकाः ।  
 खाजा खाद्यकानि ।  
 ऊकरडी उक्कुरुटिका ।  
 दुक्खइ करालियउ दुःखेन करालितः ।  
 साधुसंधाडउ साधुसंधाटकः ।  
 त्रेगति ( डि ) त्रिकाष्टिका ।  
 तेरइ काठिया त्रयोदश काष्टिकाः ।  
 सूतउ घोरइ सुतो घोरयति ।  
 सीयालउ शीतकालः ।  
 उन्हालउ उष्णकालः ।  
 घडियालउ घटिकालयः ।  
 घडी घटिका ।  
 पहर प्रहरः ।

दीह दिवसः ।  
 राति रात्रिः ।  
 वरसात वर्षारात्रः ।  
 रखवालउ रक्षपालः ।  
 वासउ वासकः ।  
 कोठउ कोष्टकः ।  
 ओही वीट उपधिबेण्टलिका,  
 उपधिबेष्टिका वा ।  
 वेसाघाडउ वेश्यापाटकः ।  
 दंडाउंछणउ दण्डकपुञ्छनम् ।  
 घीरी तरी भृतस्य तरिका ।  
 ऊकुडउ उक्कुटुकः ।  
 ऊकडू ( प्र० ) उक्कुटकः ।  
 गिलोई गिरोलिका ।  
 गोआडइरउ स्वात्र गोवाटकस्य क्षात्रम् ।  
 पडजीभी प्रतिजिह्वा ।  
 फोडी स्फोटिका ।  
 आजिकाल्हि जतियांरउ घण ठाणउ  
 छइ अद्यकरुषे यतीनां घनस्थानकमस्ति ।  
 दयामणउ दयामनकः ।  
 निसूग निःशुकः ।  
 ससूग सशुकः ।  
 निज्जंधस निज्जन्धसः ।  
 भाणउ भाजनम् ।  
 थाल थालम् ।  
 थाली थालिका ।  
 रांधणउ रन्धनम् ।  
 कातती कर्त्तन्ती ।  
 पीजती पिञ्जन्ती ।  
 पीसती पिषन्ती ।  
 मूंदडी मुद्रिका ।  
 सांकली संकलिका ।  
 सरसवेल सर्षपतैलम् ।

अलसिवेल अतसीतैलम् ।  
 जावेल जाल्यतैलम् ।  
 कडुछी कटुच्छकिका ।  
 कडुछउ कटुच्छकः ।  
 उवाणउ ठाण उद्धानं स्थानम् ।  
 चेलउ कहियइ धेणू गाइ चेल्लकः कथ्यते  
 धेनुगैः ।  
 वाउलि वातोली ।  
 लूणकयरा लवणकराणि ।  
 पाउंछणउ पादपुञ्छनकम् ।  
 ओघउ ओषः ।  
 निसेजा निषद्या ।  
 चोलवटउ चोलपट्टः ।  
 पछेवडी प्रच्छादपटी ।  
 पडघउ पतद्गहम् ।  
 वींणउ वेष्टनकम् ।  
 कीटी किट्टिका ।  
 वानी वर्णिका ।  
 वानगी वर्णिका ।  
 पलीवणउ प्रदीपनकम् ।  
 राजवी राजबीजी ।  
 काज नीवडियउ कार्यं निर्वहितम् ।  
 जोगवटउ योगपट्टः ।  
 नवकारवाली नमस्कारमालिका ।  
 जपमाली जपमालिका ।  
 ऊछीनउ उच्छिन्नम् ।  
 खत उपरि खार दीधउ  
 क्षतस्योपरि क्षारो दत्तः ।  
 कडू कटुकम् ।  
 निसोत निःश्रोतः ।  
 वज्र वचा ।  
 तज त्वक् ।  
 राठऊउ राष्ट्रकूटः ।

पमार परमारः ।  
 सोलंकी चौलुक्यः ।  
 पोरवाड प्राग्वाटः ।  
 भाट भट्टः ।  
 ऊड उडुः ।  
 ओड ओडुडुः ।  
 थूम स्तूपम् ।  
 थडउ स्थलकम् ।  
 रूख रुक्षः ( वृक्षः ? )  
 वाडी वाटिका ।  
 देवदत्त अधूरउ पूरिसइ  
 देवदत्तः अर्द्धं पूरयिष्यति ।  
 आठउ अष्टकः ।  
 लेव लेपः ।  
 घूंटउ बृट्टकः ।  
 आंबाफाड आम्रफाली ।  
 पूगीफाड पूगीफलफाली ।  
 गवाणि गवादनी ।  
 रूतउ रुतः ।  
 कुपियउ कुपितः ।  
 ऊग्रहणी उद्ग्रहणिका ।  
 छींडी खण्डी ।  
 पुत्रि जायइ वधामणउ  
 पुत्रे जाते वर्द्धमानकम् ।  
 घूघुरउ घूर्धुरः ।  
 सेई सेतिका ।  
 मुंडउ मुण्डकः ।  
 कूटणउ कुहनम् ।  
 पीटणउ पिट्टनम् ।  
 दीवाकाणउ दीपकाणः ।  
 फरलउ फरलः ।  
 कोटवाल कोटपालः ।  
 ऊघाडिवउ उद्घाटनम् ।

गुलपापडी गुडपर्पटिका ।  
 गुलधाणी गुडधानाः ।  
 वलउ वलकः ।  
 पीढी पीठी ।  
 छाजउ छाद्यकम् ।  
 देहरइ आमलसारउ  
 देवगृहे आमलसारकः ।  
 गजथर गजस्तरः ।  
 साभरमती साभ्रमती नदी ।  
 जउणा यमुना ।  
 पारस पाहाण स्पर्शपाषाणः ।  
 चित्रावेलि चित्रकावल्ली ।  
 गदगदवचन गद्गदवचनम् ।  
 मणमणउ मन्मनः ।  
 दादर दर्दरः ।  
 जाजरउ जर्जरः ।  
 झालरि झल्लरिका ।  
 मरमरसबद् मर्मरशब्दः ।  
 तमक तमकः ।  
 राजान राजानकः ।  
 रोहीडउ रोहीतकः ।  
 नारिंगि रूख नारङ्ग रु( वृ ? )क्षः ।  
 धींगउ धींगः ।  
 अनाड अनाटः ।  
 ऊकरडउ उक्कुरुटः ।  
 अखोड अक्षोटः ।  
 भांड भण्डः ।  
 चोरडउ चोरटः ।  
 लउडउ लकुटः ।  
 चीकणउ चिक्कणः ।  
 मायउ मातः ।  
 गाह गाथा ।  
 सीथ सिक्थः ।

साथ सार्थः ।  
 पह पथः ।  
 माजणउ मजनम् ।  
 जुवान युवानः ।  
 पोथउ पुस्तकम् ।  
 त्रापउ तर्पः ।  
 रांपी रम्पा ।  
 वेढिमी वेष्टिमा ।  
 करंबउ करम्बः ।  
 खेडउ खेटकः ।  
 पाद्र पद्रम् ।  
 सीर सिरा ।  
 पांजरउ पञ्जरः ।  
 दोरउ दवरकः दोरो वा ।  
 छीतर छित्वरः ।  
 चोरइ खात्र पाब्ध्यउ  
 चौरेण खात्रं पातितम् ।  
 मादल मर्दलः ।  
 बाउल बब्बूलः ।  
 हींडि हिण्डिः ।  
 कडणि कटिनिः ।  
 पापड पर्पटः ।  
 कारटउ कारटकम् ।  
 कारटियउ कारटिकः ।  
 धड धटः ।  
 खण क्षणः ।  
 डहरउ दहरः ।  
 पींडार पिण्डारः ।  
 खारउ क्षारम् ।  
 खप्पर खर्परम् ।  
 खापरउ खर्परः ।  
 चरु चरुः ।  
 गात्री गात्रिका ।

मई मदी ।  
 चीखल चिकवल्लः ।  
 पाटउ पट्टः ।  
 राजारउ पटउ रात्रः पट्टः ।  
 खाली खिली (प्र० खल्ली)¹ ।  
 ताल तल्लः ।  
 गोलउ गोलकः ।  
 वाउल वातूलः ।  
 भमलि भ्रमलः, भ्रमिर्वा ।  
 कमलउ कामलः ।  
 हींगवणि हिङ्गुपर्णी ।  
 आरति अर्त्तिः ।  
 नीठि निष्ठा ।  
 धूआ धुवा ।  
 धू धुवः ।  
 माणी मानिका ।  
 नीक नीका² ।  
 कणी कणिका ।  
 मजीठ मञ्जिष्ठा ।  
 ऊन ऊर्णा ।  
 प्रतीठ प्रतिष्ठा ।  
 पाज पथा ।  
 सेस शेषा ।  
 ईस ईषा ।  
 भालि भल्लिः ।  
 पालि पल्लिः ।  
 चाचरि चच्चरिः ।  
 खली खलिः ।  
 तूली तूलिः ।  
 फूटी काकडी स्फुटिकर्कटी ।  
 कांबी कम्बिः ।

वेठि विष्टिः ।  
 गिरठि गृष्टिः ।  
 काणि कानिः ।  
 पासाकेवली पाशककेवली ।  
 संधूखण संधुक्षणम् ।  
 नाणउ नाणकम् ।  
 पींगाणउ पींगाणम् ।  
 पिंगाणी पिङ्गाणिका ।  
 सयरइ वलि शरीरे वलिः ।  
 कुठि कुष्टी ।  
 कुट्टि कुट्टी ।  
 हुडुक हुडुकः ।  
 मोगरउ मुद्गरम् ।  
 अंकोल अङ्कोठः ।  
 वाटि वर्त्तिः ।  
 आखउ अक्षतः ।  
 आखा अक्षताः ।  
 आवू अर्बुदः ।  
 खीरणी क्षीरिणी ।  
 क्यारउ केदारः ।  
 दीवमंदिर द्वीपमन्दिरः ।  
 पुडउ पुटः ।  
 पडल पटलम् ।  
 कांदउ कन्दः ।  
 डोडी दोडी ।  
 काठीहारउ काष्ठाहारकः ।  
 हींडिया हिण्डिकाः ।  
 राउलउ राजकुलम् ।  
 वाटली वर्त्तुलिका ।  
 थली थली ।  
 सालवी शालापतिः ।

प्रत्यन्तरे टिप्पणकम्—¹ हस्तपादावमर्दनो रोगः । २ सारिणिः ।



जोडउ यौटकम् ।  
 अणहारउ अनुहारः ।  
 आंक अङ्कः ।  
 कोडिटंका भाडउ कोटिटंका भाटकम् ।  
 रांक रङ्कः ।  
 साग शाकम् ।  
 हरी हरितकम् ।  
 सूग शूका ।  
 वधूवर पुंखियउ वधूवरं पुंखितम् ।  
 सिघ शिखा ।  
 गूंद गोन्दः ।  
 खजूर खर्जूरम् ।  
 खजूरउ खर्जूरकः ।  
 राई राजिः ।  
 सांन सञ्ज्ञा ।  
 आटउ अट्टः ।  
 चून चूर्णम् ।  
 चूनउ चूर्णकः ।  
 कुंड कुण्डम् ।  
 कूड कूटम् ।  
 व्रणरउ पाटउ व्रणस्य पट्टः ।  
 शिलापट शिलापट्टः ।  
 मांचइरी वडी मञ्चकस्य वटी ।  
 वाटभोजन वाटभोजनम् ।  
 वाडि वृतिः ।  
 कूआकंठइ कूपकण्ठे ।  
 तपरी काष्ठा तपसः काष्ठा ।  
 कुंडगोठि कुण्डगोष्ठी ।  
 कुंडसख कुण्डं शखम् ।  
 कोठउ असुद्ध कोष्ठः अशुद्धः ।  
 निवायउ कोठउ निर्वातः कोष्ठः ।  
 नीठ कियउ निष्ठया कृतः ।  
 भली निष्ठा भव्यनिष्ठा ।

छट्टील्लिखित षष्ठीलिखितम् ।  
 तापसरी कुण्डी तापसस्य कुण्डी ।  
 तीरथइ कुंड तीर्थे कुण्डः ।  
 खंडी थाली खण्डी स्थाली ।  
 खांडउ गोधउ खंडो गोधवः ।  
 पिण्डखजूर पिण्डीखर्जूरम् ।  
 प्रसादरा खण प्रासादस्य क्षणाः ।  
 कूंभीउपरि थांभउ कुम्भ्या उपरि स्तम्भः ।  
 बस्तुरी वाणि वस्तुनो वाणिः ।  
 जायउ पूत जातः पुत्रः ।  
 रातउ रक्तः ।  
 विरतउ विरक्तः ।  
 लोकारी सोइ लोकानां श्रुतिर्वार्त्ता ।  
 वखगांठि वखप्रन्थिः ।  
 गलग्गांठी गलग्नथयः ।  
 मांदउ मन्दः ।  
 रांधउ धान रन्ध्यं धान्यम् ।  
 गंगेटी गङ्गेष्टिका ।  
 गाभरू गर्भरूपम् ।  
 वाछरू वत्सरूपाणि ।  
 वाछडा वत्सकाः ।  
 ठाणउ स्थानकम् ।  
 वणी वनी, हखं वनम् ।  
 कांसीवाजउ कांस्यवाणम् ।  
 सीख शिक्षा ।  
 छुरउ छुरः ।  
 खुरउ क्षुरः ।  
 कुंभाररउ चाक कुम्भकारस्य चक्रम् ।  
 कपीलउ काम्पिल्यम् ।  
 टार टारः ।  
 धानघीरी तरी धान्यघृतस्य तरी अवस्था ।  
 सापरउ दर सर्पस्य दरः ।  
 डर दरः ।

नेत्रउ नेत्रम् ।  
 सीहरी फाल सिंहस्य फालः ।  
 फालरउ परिधान फालस्य परिधानम् ।  
 घररा वला गृहस्य वलयः ।  
 रूखउ रूक्षम् ।  
 पासउ पार्श्वम् ।  
 खाटकी खट्टिकः ।  
 हाटडी हट्टिका ।  
 माथइ खोल मस्तके खोलकः ।  
 सेजगंडूआ शय्यागण्डकाः ।  
 धणिया ओसड धनिका औषधम् ।  
 घरधणियाणी गृहधनिका ।  
 पाडउ पाटकः ।  
 साथियउ स्वस्तिकः ।  
 भस्मसूत भस्मसूतकम् ।  
 सूआ सूचकाः ।  
 बीजी भूमि द्वितीया भूमिका ।  
 भूमिका रचना ।  
 कार्कोडउ कार्किंडः, काकपिण्डः ।  
 दोहडउ दोहाटः ।  
 चीपिडउ चिपिटः ।  
 गायारउ चरउ गवां चरणम् ।  
 मकनउ हाथी मकुणो हस्ती ।  
 करमदउ करमर्दकः ।  
 घूघुरी घूर्धुरी ।  
 तिल पील्या तिलाः पीडिताः ।  
 गलहथउ गलहस्तः ।  
 गामरउ गोयरउ ग्रामस्य गोचरः ।  
 कुंआरीरी घाघरी कुमार्यां घर्षरी ।  
 कुंमारउ सोनउ कुमारं सुवर्णम् ।  
 कूवडउ कूवरः ।  
 दादुर वाजउ दर्दुरवाद्यम् ।  
 नांगर नागरम् ।

उ० २० ४

देहरइरउ निकरउ देवगृहस्य निकरः ।  
 वालर काकडी वलूरकर्कटी ।  
 कुचेल कुचेलः ।  
 पुप्फपडली पुष्पपटली ।  
 मयणहल मदनफलम् ।  
 खडगरउ पडीआर खड्गस्य प्रत्याकारः ।  
 वाहर व्याहरा ।  
 वाहरू व्याहारिकः ।  
 गुणणी गुणनिका ।  
 घाघर नदी घर्षरिका नदी ।  
 चउपउ चतुष्पदम् ।  
 छीकणी छिक्किका ।  
 कसी कपीका, कशी वा ।  
 कुसि कुशा ।  
 समि कियउ समीकृतः ।  
 सिम कियउ सिमीकः ।  
 पालणउ पालनकम् ।  
 परचूरणि लेखउ प्रचूर्णि लेख्यकम् ।  
 वावनउ चंदन द्विपञ्चाशकं चन्दनम् ।  
 पादरियउ पादिकः ।  
 गामडिउ ग्रामटिकः ।  
 धूणियउ धूनितम् ।  
 कुरुटतउ कुरुटन्, कुरुट धातुः ।  
 रुलियउ रुलितः, रुल धातुः ।  
 खेलणउ खेलनकम् ।  
 ऋयाणारी भरणी ऋयाणकानां भरणिका ।  
 वलतउ वलन् ।  
 ऊवलतउ उद्वलन् ।  
 गलहथियउ गलहस्तितः ।  
 लाहणउ लाभनकम् ।  
 हाडफूटि हड्डस्फोटिः ।  
 ज्ञामलउ ध्यामलम् ।  
 नीठियउ निष्ठितम् ।

कांठउ कण्ठकः ।  
 गोहूरी थूली गोधूमानां स्थूला ।  
 रवऊ रवकः ।  
 पाजणी पर्यायणिका ।  
 अंधमूधपणइ अन्धमुग्धिकाया ।  
 वणवउ वयनम् ।  
 पहिखउ परिहितम् ।  
 आधासीसी अर्द्धशीर्षा ।  
 काकडासींगी कर्कटशृङ्गिका ।  
 नासिवा करतउ नष्टं कुर्वन् ।  
 मेथीरा लाडू मेथ्या लड्डुकानि ।  
 पीपलरी पीपी पिप्पलस्य पिप्पका ।  
 विहाणउ विभातम् ।  
 बहिरउ बधिरः ।  
 सिरीस शिरीषः ।  
 फूटरउ स्फुटरः ।  
 जानीवासउ जन्यावासकः ।  
 ऊधंधलु उद्धूलिकम् ।  
 उसीआलु अस्पृष्टालयम् ।  
 घूंघटउ अवगुण्ठनम् ।  
 आहर जाहर एहिरे याहिरा ।  
 चांद्रिणु चन्द्रिकालयम् ।  
 धणीवउ धन्यवयाः ।  
 नीखणियामउ निःक्षणकर्मा ।  
 मेराईउ मेराद्यकम् ।  
 वादलउ वारिदपटलम् ।  
 अभोखउ अभ्युक्षणम् ।  
 ओलखउ उदकोदञ्चनः ।  
 पळोकडउ पश्चादोकः ।  
 उपवासीउ उपोषितः ।  
 पोसहथउ पोषधस्थः ।  
 हियाविउं हृदयार्पितम् ।  
 फुईहाई पितृध्वस्त्रीयः ।

मासिहाई मातृध्वस्त्रीयः ।  
 मामउ मामकः ।  
 मामी मामकी ।  
 पाटूआली पादप्रहारिणी ।  
 अरत परत वाप सरीखउ  
 आकृत्या प्रकृत्या वप्पसदृशः ।  
 अंगीठउ अग्निपीठम् ।  
 ऊघड दूघडउ उद्धटदुर्घटम् ।  
 चीफाड चित्तस्फोटकः ।  
 निलखणउ निर्लक्षणः ।  
 अहीणुं अघेतुकम् ।  
 उपरि ठाई उपरिस्थायी ।  
 कांकसी कचाकर्षणी ।  
 हथीयार हस्ताधारः ।  
 कउसीसउ कपिशीर्षकम् ।  
 मुखामुखि मुखामुख्यता ।  
 गोगीडउ गोकीटः ।  
 ओलउ उपालयः ।  
 नीकउ निष्कः ।  
 कलहोडउ कलभोत्कटः ।  
 आलीगारउ अलीककारः ।  
 पाटू पादघातः ।  
 दीवी दीपिका ।  
 भंजवाड भङ्गपातः ।  
 पडाई पताकिका ।  
 पेलावेलि प्रेराप्रेरि ।  
 वियारियउ विप्रतारितः ।  
 छेतरियउ छलान्तरितः ।  
 दडबडाइउ द्रवकघातितः ।  
 खाजहलउ खाद्यफलम् ।  
 पीजहलउ पेयफलम् ।  
 वाउलउ वार्त्तालयः ।  
 ऊजाणी उद्यानिका ।

भोगल भुजार्गला ।  
 मेहरू महत्तरः ।  
 देखाविखि दृष्टापेक्षा ।  
 वरांसियउ विपर्यस्तः ।  
 आज अद्य ।  
 काल्हि कल्पे ।  
 परम परे वृत्तिः ।  
 अरीम अपरेद्युः । अन्यस्मिन्नहनि ।  
 अन्येद्युः ।  
 आजूणउ अद्यतनम् ।  
 काल्हूणउ कल्पतनम्, ह्यस्तनम् ।  
 हिवडां इदानीम् ।  
 अहुण अधुना ।  
 हिवडांनुं आधुनिकम् ।  
 मुहिया मुधा ।  
 जिम यथा ।  
 तिम तथा ।  
 जां यावत् ।  
 तां तावत् ।  
 एकवार एकदा ।  
 सबइवार सर्वदा ।  
 जहियइ यदा ।  
 तहियइ तदा, तदानीम् ।  
 कहियइ कदा ।  
 अनेरीवारे अन्यदा ।  
 किहां कुत्र, क ।  
 जिहां यत्र ।  
 तिहां तत्र ।  
 इहां अत्र ।  
 अनेतइ अन्यत्र ।  
 सगलइ सर्वत्र ।  
 झटकइ झटिति ।  
 जूउ युतः ।

ताहरं त्वदीयम् ।  
 माहरं मदीयम् ।  
 तुम्हारं युष्मदीयम् ।  
 अम्हारं अस्मदीयम् ।  
 किसउ कीदृशः ।  
 जिसउ यादृशः ।  
 तिसउ तादृशः ।  
 इसउ ईदृशः ।  
 अनेसउ अन्यादृशः ।  
 अम्हसरीषउ अस्मादृशः ।  
 तूंसरीषउ त्वादृशः ।  
 मूंसरीषउ मादृशः ।  
 तुम्हसरीषउ युष्मादृशः ।  
 जेतलुं यावन्मात्रम् ।  
 तेतलुं तावन्मात्रम् ।  
 एतलुं एतावन्मात्रम्, इयन्मात्रम् ।  
 केतलुं कियन्मात्रम् ।  
 औरहुं अर्वाक् ।  
 परहउ परतः ।  
 बाहिरि बहिः, बाह्ये ।  
 एकपरि एकधा ।  
 बिहुंपरि द्विधा ।  
 इत्यादि ।  
 'जडपणउ' इत्यादौ भावे त-त्वौ  
 यण वा । जडता, जडत्वं,  
 जाड्यम् ।  
 अहुण ऐषमः, परुः परुत् ।  
 एक एकत्वसंख्यायामित्येकः ।  
 'तीशोली'ति कः ।  
 वि द्वौ पुमांसौ, स्त्रियौ, कुले च ।  
 दउद द्व्यर्द्धः ।  
 अढी अर्द्धतृतीयः ।

त्रिण् चयः, तिस्रः, त्रीणि, पुमांसः,  
स्त्रियः, कुलानि वा। 'उभेर्द्वौ'  
वेल्यनेन 'उभ पूरणे' इत्य-  
स्मादिः प्रत्ययोऽस्य च द्वित्रे-  
त्यादेशौ ।

चारि चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि ।  
'चतेरु' इत्यनेन 'चतेर् या-  
चने' इत्यस्मादुरप्रत्ययः ।

पांच पञ्च 'पचुङ् व्यक्तीकरणे'  
'उक्षि-तक्षी' ल्यन् प्रत्ययः ।

छ षट् 'सहेः षष् च' इत्यनेन 'षहि  
मर्षणे' इत्यस्मात् क्विप्, षष्  
चास्यादेशः ।

सात सप्त 'षप्यशौटिभ्यां तन्'  
इत्यनेन 'षप् समवाये' इत्य-  
स्मात्तन् प्रत्ययः ।

आठ अष्ट 'अशौटि व्याप्तौ' इत्य-  
स्मात् 'षप्यशौटिभ्यां तन्'  
इत्यनेन तन् प्रत्ययः ।

नव निधान, नव निधानानि,  
'णुक स्तुतौ' इत्यस्मात् 'उक्षि-  
तक्षी' ल्यन् ।

दस दश्यन्ते दश । 'दृपूयूषी' ति  
किदन् ।

इग्यारइ एकादश ।

बाइर द्वादश ।

तेरइ त्रयोदश ।

चउद चतुर्दश ।

पनर पञ्चदश ।

सोळ षोडश ।

सतर सप्तदश ।

अढार अष्टादश ।

इगुणवीस एकोनविंशतिः ।

वीस द्वौ दशतो मानमेषां संख्ये-  
यानामस्य वा संख्यानास्य  
विंशतिः । 'विंशत्यादय' इत्य-  
नेन द्वेर्दशदर्थे विभावः ।  
शतिश्च प्रत्ययः ।

इकवीस एकविंशतिः ।

बावीस द्वाविंशतिः ।

त्रेवीस त्रयोविंशतिः ।

चउवीस चतुर्विंशतिः ।

पंचवीस पञ्चविंशतिः ।

छावीस षड्विंशतिः ।

सत्तावीस सप्तविंशतिः ।

अढावीस अष्टाविंशतिः ।

इगुणत्रीस एकोनत्रिंशत् ।

त्रीस त्रयोदशतो मानमेषां संख्ये-  
यानामस्य वा संख्यानास्य  
त्रिंशत् । 'विंशत्यादयः' इत्य-  
नेन त्रेस्त्रिन् भावः । शच्च  
प्रत्ययः ।

एकत्रीस एकत्रिंशत् ।

बत्रीस द्वात्रिंशत् ।

तेत्रीस त्रयस्त्रिंशत् ।

चउत्रीस चतुस्त्रिंशत् ।

पइत्रीस पञ्चत्रिंशत् ।

छत्रीस षड्त्रिंशत् ।

सइत्रीस सप्तत्रिंशत् ।

अठत्रीस अष्टात्रिंशत् ।

इगुण चालीस एकोनचत्वारिंशत् ।

चालीस चत्वारो दशतो मानमेषां  
संख्येयानामस्य वा संख्या-  
नास्य चत्वारिंशत् । 'विंश-  
त्यादयः' इत्यनेन चतुरश्चत्वारि  
भावः शच्च प्रत्ययः ।

१ त्रयो दशतः=त्रिवारदशतः=वारत्रयदशतः, इति भावः ।

इगतालीस एकचत्वारिंशत् ।  
 बयालीस द्विचत्वारिंशत् ।  
 त्रतालीस त्रिचत्वारिंशत् ।  
 चउमालीस चतुश्चत्वारिंशत् ।  
 पचतालीस पञ्चचत्वारिंशत् ।  
 छयालीस षट्चत्वारिंशत् ।  
 सइतालीस सप्तचत्वारिंशत् ।  
 अठतालीस अष्टचत्वारिंशत् ।  
 इगुणपचास एकोनपञ्चाशत् ।  
 पचास पञ्च दशतो मानमेषां  
 संख्येयानामस्य वा संख्या-  
 नस्य पञ्चाशत्, 'विंशत्या-  
 दयः' इत्यनेन शत्प्रत्ययः,  
 पञ्चन आत्वं च ।  
 इकावन एकपञ्चाशत् ।  
 बावन द्विपञ्चाशत् ।  
 त्रिपन त्रिपञ्चाशत् ।  
 चउपन चतुष्पञ्चाशत् ।  
 पंचावन पञ्चपञ्चाशत् ।  
 छपन षट्पञ्चाशत् ।  
 सत्तावन सप्तपञ्चाशत् ।  
 अठावन अष्टपञ्चाशत् ।  
 इगुणसठि एकोनषष्टिः ।  
 साठि षष्टिः । षट् दशतो  
 मानमेषां संख्येयानामस्य वा  
 संख्यानस्य षष्टिः, 'विंशत्या-  
 दयः' इत्यनेन षषस्तिः षश्च ।  
 इगसठि एकषष्टिः ।  
 बासठि द्वाषष्टिः ।  
 त्रेसठि त्रिषष्टिः ।  
 चउसठि चतुःषष्टिः ।  
 पइसठि पञ्चषष्टिः ।  
 छसठि षट्षष्टिः ।

सतसठि सप्तषष्टिः ।  
 अडसठि अष्टषष्टिः ।  
 इगुणहत्तरि एकोनसप्ततिः ।  
 सत्तरि सप्त दशतो मानमेषां संख्ये-  
 यानामस्य वा संख्यानस्य  
 सप्ततिः । 'विंशत्यादयः' इत्य-  
 नेन सप्तनस्तिः ।  
 इगहत्तरि एकसप्ततिः ।  
 बिहत्तरि द्विसप्ततिः ।  
 त्रिहत्तरि त्रिसप्ततिः ।  
 चउहत्तरि चतुःसप्ततिः ।  
 पंचहत्तरि पञ्चसप्ततिः ।  
 छहत्तरि षट्सप्ततिः ।  
 सतहत्तरि सप्तसप्ततिः ।  
 अठहत्तरि अष्टसप्ततिः ।  
 इगुण्यासी एकोनाशीतिः ।  
 असी अष्टौ दशतो मानमेषां  
 संख्येयानामस्य वा संख्या-  
 नस्य अशीतिः, 'विंशत्या-  
 दयः' इत्यनेन तिप्रत्ययः,  
 अष्टनोऽशी च ।  
 इक्यासी एकाशीतिः ।  
 व्यासी द्व्यशीतिः ।  
 त्र्यासी त्र्यशीतिः ।  
 चउरासी चतुरशीतिः ।  
 पंचासी पञ्चाशीतिः ।  
 छयासी षडशीतिः ।  
 सत्यासी सप्ताशीतिः ।  
 अठ्यासी अष्टाशीतिः ।  
 नव्यासी नवाशीतिः, एकोननव-  
 तिर्वा ।  
 निऊ नव दशतो मानमेषां संख्ये-  
 यानामस्य वा संख्यानस्य

नवतिः विंशत्यादयः' इत्यनेन  
नवनस्तिः ।

इकाणू एकनवतिः ।

बाणू द्विनवतिः ।

त्र्याणू त्रिनवतिः ।

चउराणू चतुर्नवतिः ।

पंचाणू पञ्चनवतिः ।

छिन्नू षण्णवतिः ।

सताणू सप्तनवतिः ।

अठाणू अष्टनवतिः ।

नवाणू नवनवतिः ।

सउ दश दशतो मानमेषां संख्ये-  
यानामस्य वा संख्यानस्य  
शतम् । 'विंशत्यादयः' इत्य-  
नेन दशानां शभावः तश्च  
प्रत्ययः ।

एकोत्तर सउ एकोत्तरं शतम् ।

बिडोत्तर सउ द्वयुत्तरं शतम् ।

तिडोत्तर सउ त्र्युत्तरं शतम् ।

चउडोत्तर सउ चतुरुत्तरं शतम्,  
इत्यादि नवनवतिं यावत्पूर्वी-

\*

प्राच्यानां मते—एकादशमः, द्वादशमः, त्रयोदशमः, चतुर्दशमः, पञ्च-  
दशमः, षोडशमः, सप्तदशमः, अष्टादशमः, इति सपूर्वपदादपि नन्ताद्  
मो भवति ।

इगुणीसमउ एकोनविंशतितमः, एकोनविंशो वा । वीसमउ विंशतितमः, विंशो वा ।

एकवीसमउ एकविंशतितमः एकविंशो वा ।

एवं नवनवतिं यावत्सर्वत्र डट्-तमटौ पर्यायेण योज्यौ । षष्टिसप्तत्य-  
शीतिनवतिशब्देभ्यः संख्यापूर्वपदेभ्यः संख्यापूरणे तमडेव, न डट् ।  
षष्टितमः, सप्ततितमः, अशीतितमः, नवतितमः । सोपपदेभ्यस्तू भावपि  
एकषष्टितमः एकषष्टः, एकसप्ततितमः एकसप्ततः, एकाशीतितमः एका-  
शीतः, एकनवतितमः एकनवतः ।

क्तसंख्याशब्दा उत्तरशब्द-  
परा योज्याः ।

सहस्र सहस्रम् ।

लाख लक्षम् ।

कोडि कोटिः ।

बीजउं द्वितीयः ।

त्रीजउ तृतीयः ।

चउथउ चतुर्थः ।

पांचमउ पञ्चमः ।

छट्टउ षष्ठः ।

सातमउ सप्तमः ।

आठमउ अष्टमः ।

नवमउ नवमः ।

दसमउ दशमः ।

इग्यारमउ एकादशः ।

बारमउ द्वादशः ।

तेरमउ त्रयोदशः ।

चउदमउ चतुर्दशः ।

पनरमउ पञ्चदशः ।

सोलमउ षोडशः ।

सतरमउ सप्तदशः ।

अठारमउ अष्टादशः ।

सउमउ शततमः ।  
 सहस्रमउ सहस्रतमः ।  
 लाखमउ लक्षतमः ।  
 कोडिमउ कोटितमः ।  
 मासमउ दिहाडउ मासतमं दिनम् ।  
 इग्यारमी एकादशी, एकादशमी वा ।  
 वीसमी विंशतितमी, विंशी वा ।  
 त्रिवायउ त्रिपादः ।  
 चारोली चारकुलिका ।  
 धाहडी धातकी ।  
 थीणउ घी स्थानं घृतम् ।  
 मकोडउ मत्कोटः ।  
 थुड स्थुडम् ।  
 उगमुगउ अवाग्मूकः ।  
 ईडउ अण्डकः ।  
 ओलखाणउ उपलक्षणम् ।  
 सामाई सामायिकम् ।  
 एकासणउ एकासनकम् ।  
 ब्यासणउ द्वयासनकम् ।  
 आंबिल आचाम्लम् ।  
 निवी निर्विकृतम् ।  
 पाडिहारू प्रातिहारिकम् ।  
 नोहली नवफलिका ।  
 राइतउ राजिकातिकम् ।  
 केवलउ कं केवलः क ।  
 कानइ का कर्णे का ।  
 पच्छिम कि पश्चिमायां कि ।  
 अगिम की अग्रिमायां की ।  
 लहुडइ कु लघुके कु ।  
 दीरघइ कू वृद्धौ कू ।  
 एमात्र के एकमात्रायां के ।  
 बिमात्र कै द्विमात्रयोः कै ।  
 कानमात को कर्णमात्रयोः को ।

बिमातकाना कौ द्विमात्रकर्णेषु कौ ।  
 मस्तकमीढइ कं मस्तकबिन्दौ कं ।  
 आगलमीढइ कः अप्रे बिन्दोः कः ।  
 पडिवा प्रतिपत् ।  
 बीज द्वितीया ।  
 तीज तृतीया ।  
 चउधि चतुर्थी ।  
 पांचमि पञ्चमी ।  
 छठि षष्ठी ।  
 सातमि सप्तमी ।  
 आठमि अष्टमी ।  
 नवमि नवमी ।  
 दसमि दशमी ।  
 अग्यारसि एकादशी ।  
 वारसि द्वादशी ।  
 तेरसि त्रयोदशी ।  
 चउदसि चतुर्दशी ।  
 पूनिम पूर्णिमा ।  
 अमावसि अमावास्या ।  
 जइ किम्हइ यदि कथमपि, चेत् ।  
 पछइ पश्चात् ।  
 पाछिलउ पाश्चात्यम् ।  
 साम्हउ संमुखम् ।  
 सूगामणउ शूकाजनकम् ।  
 परायउ परकीयम् ।  
 अजी अद्यापि ।  
 तांइ तथापि ।  
 सांझ सन्ध्या ।  
 पडूचउ प्रातिभाष्यम् ।  
 चउघडिउ चतुर्घटिकम् ।  
 उसूर उत्सूरः ।  
 आधु अर्द्धः ।  
 पूरउ पूर्णः ।



उइलउ अर्वाचीनम् ।	कडिदोरउ कटीदवरकः ।
परलउ पराचीनम् ।	पग पदः ।
अऊठ अर्द्धचतुर्थः ।	लीह रेषा ।
साढापांच सार्द्धपञ्चकम् ।	हीअउ हृदयम् ।
कांइ कुतः, कस्मात्, किम् वा ।	थण स्तनौ ।
दूबलउ दुर्बलः ।	रूं रोम ।
रलीयामणउ रत्तिजनकम् ।	भूहिरउ भूमिगृहम् ।
उदेगामणउ उद्वेगजनकम् ।	पाइक पादातिकः ।
सोहामणउ सौभाग्यवान् ।	सागडी शकटिकः ।
अगेवाण अग्रानीकः ।	दडउ कन्दुकः ।
चउकीवट चतुष्कपट्टः ।	तलाउ तटाकः ।
ओंरीसउ अग्रघर्षः ।	बहेडउ द्विघटकम् ।
सालणउ शालनकम् ।	चहुंटी चञ्चूपुटिका ।
सिली शिलाका ।	कावडि कपोती ।
पडसाल प्रतिशाला ।	गरढउ गतार्धवयाः ।
आंगणउ अङ्गणम् ।	वेगड विकटशृङ्गः ।
बारवट द्वारपट्टः ।	पर्यंतरउ प्रत्यन्तरम् ।
भारउट भारपट्टः ।	डोकरउ दोलकरः ।
खूणउ कोणकम् ।	सीरामण शीताशनम् ।
डेहली देहली ।	सउडि संवृतिः ।
भीति भित्तिः ।	सीरख शीतरक्षिका ।
टीपणउ टिप्पनकम् ।	तुलाई त्लिका
पाटी पट्टिका ।	मासी मातृष्वसा ।
पोथी पुस्तिका ।	फुई पितृष्वसा ।
छोह सुधा ।	भउजाई भ्रातृजाया ।
भीतरउ अभ्यन्तरम् ।	बिउणउ द्विगुणम् ।
चउगठि चतुष्काष्ठिका ।	तिउणउ त्रिगुणम् ।
पहिरणउ परिधानम् ।	चउगुणउ चतुर्गुणम् ।
आडण अङ्गमण्डनम् ।	वुहरउ व्यवहर्त्सी ।
पांगुरणउ प्रावरणम् ।	कडव कणावा ।
टीलउ तिलकः ।	दोटी द्विपटी ।
वहुरखउ बाहुरक्षकः ।	निद्रालखउ निद्रालक्षः ।
मुंदडी मुद्रिका ।	सांडसउ संदेशकः ।

भाथडी मखा ।  
 खाट मञ्चिका ।  
 घडामांची घटमञ्चिका ।  
 आरती आरात्रिका ।  
 पोली प्रतेली ।  
 गंभारउ गर्भागारम् ।  
 देउली देवकुलिका ।  
 भमती भ्रमावती ।  
 सृणहर शयनगृहम् ।  
 चाचर चत्वरम् ।  
 चउरी चतुरिका ।  
 चउसालउ चतुःशालम् ।  
 दारीवाडउ दारिकावाटकः ।  
 ऊवट उद्वर्लम् ।  
 रान अरण्यम् ।  
 बाफ बाष्पः ।  
 आधरण आप्राणं, अधिश्रयणं वा ।  
 सेवंती शतपत्रिका ।  
 कणयर करवीरः ।  
 वेउल विचकिलः ।  
 पाउल पाटला ।  
 पुंआड प्रपुनाटः ।  
 जव यवः ।  
 कोठीभडउ कोष्ठमेदकः ।  
 मांडा मण्डका ।  
 साकुली शङ्कुली ।  
 वालहली वल्लफलिका ।  
 खीच क्षिप्रः ।  
 खीचडी क्षिप्रचटिका ।  
 खारिक खाथारिका ।  
 टोपरउ टोपपरः ।  
 काढउ काथः ।  
 तंगोटी तंगपटी ।  
 साथरउ सस्तरः ।

मांची मञ्चिका ।  
 नही नखिका ।  
 वडंगण वृन्ताकम् ।  
 हलद हरिद्रा ।  
 आदउ आर्द्रकम् ।  
 चउरसउ चतुरस्रः ।  
 धोयण धावनम् ।  
 मोकलउ मुक्कलः ।  
 पिहुलउ पृथुलः ।  
 गाडरि गडुटी ।  
 जुआरि युगन्धरी ।  
 पूअरउ पूतरकः ।  
 भडूरव भैरवी ।  
 भीखारी भिक्षाचरः ।  
 दांतिलउ दन्तुरः ।  
 खोडउ खोडः ।  
 मातउ मत्तः ।  
 दोसी दौष्यिकः ।  
 सांबलउ शम्बलम् ।  
 प्राहुणउ प्राधुणः ।  
 लाज लजा ।  
 पजूसण पर्युषणा ।  
 चउमासउ चतुर्मासकम् ।  
 अठाही अष्टाहिका ।  
 पाखखमण पक्षक्षपणम् ।  
 पोरसी पौरुषी ।  
 नवकारसही नमस्कारसहितम् ।  
 पचखाण प्रत्याख्यानम् ।  
 पडिकमणउ प्रतिक्रमणम् ।  
 पडिलेहण प्रतिलेखना ।  
 वांदणउ वन्दनकम् ।  
 खामणउ क्षामणकम् ।  
 काउसग कायोत्सर्गः ।  
 खमासण क्षमाश्रमणम् ।

वखाण व्याख्यानम् ।  
 पउंजणी प्रमार्जनिका ।  
 कम(व)ली कपरिका, कपलिका वा ।  
 ठवणी स्थापनी ।  
 पायठवणउ पात्रस्थापनकम् ।  
 गोछउ गोच्छकम् ।  
 पायकेसरी पात्रकेशरिका ।  
 पडलउ पटलकम् ।  
 रयताणउ रजखणम् ।  
 त्रिपणउ तर्पणकम् ।  
 कडहटउ कटाहटकम् ।  
 लेखणि लेखनी ।  
 मसीजणउ मषीभाजनम् ।  
 वेहणउ वेधनकम् ।  
 दांडी दण्डिका ।  
 आचार्यांस आचार्यमिश्राः ।  
 उपाध्यायांस उपाध्यायमिश्राः ।  
 वणारिस वाचनाचार्यः ।  
 पंड्यांस पण्डितमिश्रः ।  
 गणीस गणिमिश्रः ।  
 ओली आली ।  
 बोर बदरम् ।  
 नोमाली नवमालिका ।  
 फोफल पूगफलानि ।  
 मयगल मदकलः ।  
 अलसी अतसी ।  
 सालवाहन सातवाहनः ।  
 पलीवणउ प्रदीपनकम् ।  
 लाठि यष्टिः ।  
 कणियार कर्णिकारः ।  
 कानी कर्णिका ।  
 माटी मृत्तिका ।  
 विसंडुल विसंस्थुलः ।  
 उछाह उत्साहः ।

सींभ श्लेष्मा ।  
 पांभडी पक्ष्माटिका ।  
 आलाणथंभ आलानस्तम्भः ।  
 मरहठ महाराष्ट्रः ।  
 ताठउ त्रस्तः ।  
 सीख शिक्षा ।  
 जस यशः ।  
 विमासिवउ विमर्शनम् ।  
 डख्यउ दरितः ।  
 चक्यउ चकितः ।  
 पीपलीमूल पिप्पलीमूलम् ।  
 जोतिषी ज्योतिषिकः ।  
 निमिती नैमित्तिकः ।  
 ऊठिवउ उत्थानम् ।  
 ताली तालिका ।  
 तिलउ तिलकः ।  
 मसउ मषः ।  
 ऊवटणउ उद्वर्त्तनम् ।  
 सन्यासी सान्यासिकः ।  
 बांभण ब्राह्मणः ।  
 हुंछउ उच्छः ।  
 पाथउ प्रस्थः ।  
 आढउ आढकः ।  
 हाथ हस्तः ।  
 एवाल जावालः ।  
 कुडुंबी कुटुम्बी ।  
 दात्रउ दात्रम् ।  
 सुंवरी वडी शुंबस्य वटी ।  
 सुंचल सौवर्चलम् ।  
 कुरुखेत कुरुक्षेत्रम् ।  
 कामरू कामरूपः ।  
 काछउ कच्छः ।  
 मालवउ मालवः ।  
 बंग बङ्गाः ।

अंग अङ्गाः ।  
 मारु मारवः ।  
 कसमीर कश्मीराः ।  
 कणउज कन्यकुब्जम् ।  
 कोसंबी कौशाम्बी ।  
 चांप चम्पा ।  
 कूडी कुतः ।  
 करवती करकपत्रिका ।  
 घांट घण्टा ।  
 थूथउ तुच्छम् ।  
 हीरउ हीरकः ।  
 वेलू वालुका ।  
 फुलिंग्ग स्फुलिङ्गः ।  
 ताड तालः ।  
 पीलू पीलु ।  
 गूगल गुग्गुलुः ।  
 गलियार गलिः ।  
 बिलाडउ बिडालः ।  
 मंजार मार्जारः ।  
 पाठ पाठः ।  
 टसर तसरः ।

साइणि शाकिनी ।  
 भुइफोड भूमिस्फोटः ।  
 ओंधाहूली अधःपुष्पी ।  
 संखाहोली शङ्खपुष्पी ।  
 सोवा शतपुष्पी ।  
 सु तद् सः ।  
 जो यद् यः ।

‘तनित्यजियजिभ्यो डद्’ इति डद् ।

अउ इदम्, अयम् ।

‘इणो दमक्’ इति दमक् ।

एह एतद् एषः ‘इणस्तद्’ इति तद् ।

कुण किम्, कः ।

‘को डिम’ इति डिम् ।

तुं, तुम्हे युष्मद् – त्वम्, यूयम् ।

युषः सौत्रः सेवायाम् ।

हुं, अम्हे अस्मद् – अहं, वयम् ।

‘असूच क्षेपणे’ ‘युष्यसिभ्यां  
 क्यद्’ इति क्यद् ।

आणंद आनन्दः ।

अथ क्रियाविधिविभागः । त्रिविधो धातुः परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी चेति । तत्र परस्मैपदिधातोः कर्त्तरि परस्मैपदम्, आत्मनेपदिधातोः कर्त्तरि आत्मनेपदम्, उभयपदिधातोः कर्त्तरि उभयपदम् । कर्मणि भावे च त्रिभ्योऽप्यात्मनेपदमेव । प्रत्येकं विभक्तिप्राप्तिमाह –

‘हवइ, दिवइ, लियइ, करइ, इत्यादौ वर्त्तमानायाः परस्मैपदम् ।

‘दीजइ, लीजइ, कीजइ’ इत्यादौ कर्मणि वर्त्तमानाया आत्मनेपदम् ।

‘दिजे, लेजे, करिजे’ इत्यादौ एकारान्तवचने सप्तमी ।

‘देइ, लेइ, करि’ इत्यादौ अनुमति पञ्चमी । क्रियासमभिहारे सर्वकालेषु पञ्चम्या मध्यमपुरुषैकवचनम् । क्रियासमभिहारः पौनःपुन्यं भृशार्थो वा । यथा माघकाव्ये – यो रावणः ।

‘पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं, मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः ।’  
 अत्रातीते काले हि ।

‘दीजउ, लीजउ, कीजउ’ इत्यादौ कर्मणि पञ्चम्या आत्मनेपदम् ।

‘दीधउ, लीधउ, कीधउ’ इत्यादौ ह्यस्तन्यद्यतन्यौ परोक्षा च ।

‘काखि दीधउ’ इत्यादौ ह्यस्तन्येव, न परोक्षाद्यतन्यौ ।

‘आज दीधउ, आज लीधउ’ इत्यादौ अद्यतनी, न परोक्षाह्यस्तन्यौ ।

‘म देइ, म लेइ, म करि, म देसि, म लेसि, म करिसि’ इत्यादौ माशब्दयोगेऽद्यतनी,  
मास्स योगे ह्यस्तन्यद्यतन्यौ, माङ्गयोगे तु यथाप्राप्ते पञ्चमी भविष्यन्ती च ।

‘म दीधु, म लीधु, म कीधु’ इत्यादौ कर्मणि माशब्दयोगे अद्यतन्याः,  
मास्सयोगे ह्यस्तन्यद्यतन्योः, माङ्गयोगे तु पञ्चम्या आत्मनेपदम् ।

‘जइ देत, जइ लेत, जइ करत’ इत्यादौ क्रियातिपत्तिः ।

‘जइ दीजत, जइ लीजत, जइ कीजत’ इत्यादौ कर्मणि क्रियातिपत्तेरा-  
त्मनेपदम् ।

‘देसिइ, लेसिइ, करिसिइ’ इत्यादौ, ‘नही दियइ, नही लियइ, नही करइ’ इत्यादौ च  
भविष्यन्ती ।

‘दीजिसिइ, लीजिसिइ, कीजिसिइ’ इत्यादौ, ‘नही दीजइ, नही लीजइ, नही कीजइ’  
इत्यादौ च कर्मणि भविष्यन्त्या आत्मनेपदम् ।

‘काखि देसिइ, काखि लेसिइ’ इत्यादौ श्वस्तनी ।

‘वर्षशत जीविसिइ, वइरी जिणिसिइ’ इत्यादौ आशीर्युक्ते भविष्यति काले  
आशीः ।

अथ कृतप्रत्ययप्राप्तिमाह-

‘देतउ, लेतउ, करतउ’ इत्यादौ कर्त्तरि वर्तमाने शतृशानौ परस्मैपद्यात्मने-  
पदिनोः । उभयपदिन उभावपि ।

‘दीजतउ, लीजतउ, कीजतउ’ इत्यादौ कर्मणि शानः ।

देणहार, दायकः दाता; लेणहार, लायकः लाता; करणहार, कारकः कर्ता  
इत्यादौ वर्त्तमाने अकृतवौ ।

‘दीधउ’ दत्तः दत्तवान्; लीधउ, लातः लातवान्; कीधउ, कृतः कृतवान्  
इत्यादौ अतीते क्त-क्तवन्तु; कर्मणि क्तः, कर्त्तरि क्तवन्तुः । गत्यर्थाकर्मका-  
दिभ्यः कर्त्तरि क्तोऽपि । यथा-अयमागतः आगतवानपि । तथा परस्मैप-  
दिनः क्सुः, आत्मनेपदिनः क्कानः, उभयपदिन उभावपि ।

‘देइउ, लेइउ, करीउ’ इत्यादौ क्त्वा, ‘देवा, लेवा, करिवा’ इत्यादौ दातु-  
मित्यादि शकृज्जायोगे क्त्वा प्रत्ययोक्तौ तुम् । ‘करी जाणुं, पढी सकउं’ कर्त्तुं  
जानामि पठितुं शक्नोमि, इति ।

‘देवउं, लेवउं, करिवउं’ इत्यादौ कर्मणि तव्यानीयौ - दातव्यं दानीयम्,  
कर्त्तव्यं करणीयम् । क्वचित् क्यप् घ्यणावपि - कृत्यं, कार्यं चेति ।

‘दिणाहरु, लेणाहरु, करणाहरु’ इत्यादौ भविष्यति काले तुमन्तात् काम-  
मनसौ, तुमो मलोपश्च । दातुकामः दातुमनाः, कर्त्तुकामः कर्त्तुमनाः ।

अथ क्रियापदानि -

हवइ भवति ।  
 कलइ कलयति ।  
 गिणइ गणयति ।  
 गुणइ गुणयति ।  
 चीत्रइ चित्रयति ।  
 दूषइ दूषयति ।  
 मूत्रइ मूत्रयति ।  
 रचइ रचयति ।  
 विरचइ विरचयति ।  
 वर्णवइ वर्णयति ।  
 कहइ कथयति ।  
 परूवइ प्ररूपयति ।  
 वांटइ वण्टयति ।  
 हींडोलइ हिंदोलयति ।  
 धमइ धमति ।  
 पियइ पिवति ।  
 जायइ याति ।  
 लियइ लाति ।  
 वायइ वाति ।  
 न्हायइ न्हाति ।  
 चिणइ चिनोति ।  
 ऊडइ उडयते ।  
 धूणइ धूनयति ।  
 करइ करोति, करति वा ।  
 जागइ जागति ।  
 आदरइ आद्रियते ।  
 धरइ धरति ।  
 भरइ भरति ।  
 मरइ म्रियते ।  
 वरइ वृणुते ।  
 हरइ हरति ।  
 गिरइ गिरति ।

तरइ तरति ।  
 गायइ गायति ।  
 ध्यायइ ध्यायति ।  
 ध्रायइ ध्रायति ।  
 संकइ शङ्कते ।  
 हीकइ हिक्कति ।  
 लिखइ लिखति ।  
 मागइ मार्गयति ।  
 अरथइ अर्थति ।  
 लांघइ लङ्घते ।  
 अरचइ अर्चयति ।  
 संकुचइ संकुचति ।  
 चरचइ चर्चयति ।  
 पचइ पचति ।  
 लुंचइ लुञ्चति ।  
 वाचइ वाचयति ।  
 वंचइ वञ्चयते ।  
 सोचइ शोचति ।  
 सींचइ सिञ्चति ।  
 पूछइ पृच्छति ।  
 वांछइ वाञ्छति ।  
 उपारजइ उपार्जति ।  
 गाजइ गर्जति ।  
 आंजइ अनक्ति ।  
 गुंजइ गुञ्जति ।  
 कूजइ कूजति ।  
 तर्जइ तर्जति ।  
 तिजइ त्यजति ।  
 पींजइ पिञ्जयति ।  
 भांडइ भण्डयति ।  
 भांजइ मनक्ति ।  
 भाजइ भज्यते ।  
 मांजइ मांछि, मार्जति वा ।

लाजइ लज्जते ।  
 सरजइ सृजति ।  
 कूटइ कुट्टयति ।  
 खेडइ खेटयति ।  
 घटइ घटयति ।  
 चूटइ चुण्टयति ।  
 तोडइ त्रोटयति ।  
 त्रूटइ त्रुटति ।  
 मोडइ मोटयति ।  
 लूटइ लुण्टयति ।  
 फोडइ स्फोटयति ।  
 फूटइ स्फुटति ।  
 लुठइ लुठति ।  
 ओलंडइ ओलण्डयति ।  
 क्रीडइ क्रीडति ।  
 खंडइ खण्डयति ।  
 जोडइ जोडयति ।  
 बूडइ ब्रडति ।  
 मांडइ मण्डयति ।  
 पीडइ पीडति ।  
 कीर्त्तइ कीर्त्तयति ।  
 चींतवइ चिन्तयति ।  
 नाचइ नृत्यति ।  
 पडइ पतति ।  
 आपडइ आपतति ।  
 ऊपडइ उत्पतति ।  
 कुहइ कुथ्यति ।  
 मथइ मथ्नाति ।  
 आक्रंदइ आक्रन्दयति ।  
 कूदइ कूर्दते ।  
 खायइ खादति ।  
 निंदइ निन्दति ।  
 पादइ पदते ।

मर्दइ मृद्नाति ।  
 रोयइ रोदिति ।  
 वांदइ वन्दते ।  
 वेयइ वेत्ति ।  
 हगइ हदते ।  
 ऊपजइ उत्पद्यते ।  
 नीपजइ निष्पद्यते ।  
 संपजइ संपद्यते ।  
 बांधइ बध्नाति ।  
 बूझइ बुध्यते ।  
 झूझइ युध्यते ।  
 रूंधइ रुणद्धि ।  
 रांधइ राध्यति ।  
 आराधइ आराध्यति ।  
 सूझइ शुध्यति ।  
 सीझइ सिध्यति ।  
 साधइ साध्नाति ।  
 वीधइ विध्यति ।  
 खणइ खनति ।  
 जामइ जायते ।  
 मानइ मानति ।  
 हणइ हन्ति ।  
 आपइ अर्पयति ।  
 कुपइ कुप्यति ।  
 कांपइ कम्पते ।  
 कलपइ कल्पते ।  
 जपइ जपति ।  
 तपइ तपति ।  
 दीपइ दीप्यते ।  
 धूपइ धूपयति ।  
 लींपइ लिम्पयति ।  
 लोपइ लुम्पति ।  
 चुंबइ चुम्बति ।

विलंबइ विलम्बते ।  
 खुभइ क्षोभते ।  
 खोभइ क्षोभयति ।  
 लहइ लभते ।  
 सोभइ शोभते ।  
 खमइ क्षमते ।  
 जीमइ जेमति ।  
 नमइ नमति ।  
 दमइ दाम्यति ।  
 भमइ भ्रमति ।  
 रमइ रमते ।  
 वमइ वमति ।  
 कामइ कामयते ।  
 आक्रमइ आक्रमते ।  
 खिरइ क्षरति ।  
 विचारइ विचारयति ।  
 चोरइ चोरयति ।  
 पूरइ पूरयति ।  
 मंत्रइ मन्त्रयते ।  
 निजंत्रइ नियन्त्रयति ।  
 फुरइ स्फुरति ।  
 गालइ गालयते ।  
 गिलइ गिलति ।  
 टलइ टलति ।  
 फलइ फलति ।  
 आफलइ आस्फलति ।  
 हालइ हलति ।  
 हीलइ हीलयति ।  
 चावइ चर्वयति ।  
 जीवइ जीवति ।  
 धावइ पही धावति पथिकः ।  
 बालक मा नइ धावइ  
 बालको मातरं धावति ।

सीवइ सीव्यति ।  
 सेवइ सेवति ।  
 नासइ नश्यति ।  
 विणसइ विनश्यति ।  
 डसइ दशति ।  
 पइसइ प्रविशति ।  
 फरसइ स्पृशति ।  
 काढइ कर्षति ।  
 खसइ खषति ।  
 घसइ घर्षति ।  
 घोसइ घोषति ।  
 चूसइ चूषति ।  
 पोसइ पुष्यति ।  
 भखइ भक्षति ।  
 भीखइ भिक्षते ।  
 भाषइ भाषते ।  
 भषइ भषति ।  
 मुसइ मुष्णाति ।  
 रूसइ रुष्यति ।  
 राखइ रक्षति ।  
 हीसइ हेषति ।  
 लखइ लक्षयति ।  
 वरसइ वर्षति ।  
 सुसइ शुष्यति ।  
 सीखइ शिक्षते ।  
 हरषइ हृष्यति ।  
 तूसइ तूषति ।  
 खासइ कासते ।  
 त्रासइ त्रस्यति ।  
 निरभरलइ निर्भर्ययति ।  
 नीससइ निःशसिति ।  
 ऊससइ उच्छसिति ।  
 प्रसंसइ प्रशंसति ।



ग्रहइ गृह्णाति ।	छाजइ, रिजइ राजते ।
गरहइ गर्हति ।	खूपइ मज्जति ।
दोहइ दोग्धि ।	पूजइ पुञ्जयति ।
दहइ दहति ।	विढवइ अर्जयति ।
मूझइ मुह्यति ।	जूपइ युनक्ति ।
वहइ वहति ।	उखुडइ उल्लूरइ व्रुटति ।
नीसरइ निस्सरति ।	घोलइ घूर्णीति ।
औसरइ अपसरति ।	विरोलइ मथ्नाति ।
फाइइ पाटयति ।	उदलइ आच्छिंदइ आंछिनत्ति ।
ठंभीजइ स्तम्भयते ।	फंदइ स्पन्दते ।
बजरइ कथयति ।	मलइ मृद्राति ।
दुगुंछइ जुगुप्सते ।	झूरइ } खिद्यते ।
सद्दहइ श्रद्धते ।	विसूरइ } खिद्यते ।
उंघइ निद्राति ।	हाकइ निषेधते ।
मिलायइ म्लायति ।	झखइ संतपति ।
ढांकइ छादयति ।	समाणइ समापयति ।
दूमइ दावयति ।	घातइ क्षिपति ।
धवलइ धवलयति ।	लोटइ खपिति ।
तोलइ तुलयति ।	बडबडइ विलपति ।
मेलवइ मिश्रयति ।	आढवइ आरभते ।
भमाडइ भ्रमयति ।	जंभाआइ जृम्भते ।
नसावइ नाशयति ।	आभिडइ संगच्छते ।
दाखवइ दर्शयति ।	फीटइ } भ्रंशते ।
ऑगालइ रोमन्थयति ।	भुलइ } भ्रंशते ।
प्रकासइ प्रकाशयति ।	देखइ पश्यति ।
कंपावइ कम्पयति ।	छिवइ स्पृशति ।
लुकइ निलीयते ।	ढंदोलइ गवेषयति ।
नीवडइ पृथक् स्पष्टो वा भवतीत्यर्थः ।	चोपडइ म्रक्षयति ।
आछोटइ आछोटयति ।	डरइ त्रस्यति ।
वीसरइ विस्मरति ।	पलोटइ पर्यस्यति ।
महमहइ मालती मालतीगन्धः प्रसरति ।	चडइ आरोहति ।
साहरइ, संवरइ संवृणोति ।	थाकइ थक्कति, नीचां गतिं करोति,
समारइ समारचयति ।	विलम्बयति वा ।

विट्टालइ अस्पृश्यसंसर्गं करोति ।

चांपइ आक्रमति ।

पमावइ प्रमापयति ।

हाथी गुलगुलायइ हस्ती गुलगुलायते ।

ऊल्लियइ उल्लायति ।

ढोकइ ढौकयति ।

पधारउ पादाऽवधार्यताम् ।

संभालइ संभालयति ।

पलाणइ पर्याणयति ।

लालइ लालयति ।

सांधइ संघयति, संघत्ते वा ।

हेरइ हेरयति ।

धीरवइ धीरयति ।

भलिसुं भलिष्ये ।

ऊछलइ उच्छलति ।

ऊछालइ उच्छालयति ।

साहइ साहयति ।

संवाहइ संवाहयति ।

कूकइ कूत्करोति कुर्वते वा ।

ढूकइ ढौकते ।

थांभइ स्तभ्नाति ।

ताकइ तर्कति ।

निर्धाटइ निर्धाटयति ।

ऊलडइ उल्लुडयति ।

विकुर्वइ विकुर्वति ।

पालइ पालयति ।

पायइ पाययति ।

बोलइ ब्रवीति ।

जीपइ जयति ।

जाणइ जानाति ।

आरंभइ आरमते ।

सांभरइ स्मरति ।

परीछइ परेरिषे; परीच्छति ।

असइ प्रसते ।

अभ्यसइ अभ्यस्यति ।

विमासइ विमृशति ।

पडीगइ प्रतिकरोति ।

छइ अस्ति ।

आखइ आख्याति ।

आवइ एति, आयाति वा ।

ऊगइ उदेति ।

आधमइ अस्तमेति ।

पूजइ पूजयति ।

नमस्करइ नमस्करोति ।

कुसणइ कुष्णाति ।

वीनवइ विन्नपयति ।

वापरइ व्याप्रियते ।

पावइ प्रापति ( प्राप्नोति ? )

पामइ प्रपूर्वोऽभिः प्राप्तौ, प्राप्ति ।

वीखरइ विकिरति ।

परिणइ परिणयति ।

वीवाहइ वीवाहयति ।

पूरइ पूर्यते ।

बीहइ विभेति ।

बीहावइ भापयते ।

उल्लावइ उल्लयति ।

उल्लीचइ उल्लिञ्चति ।

सूंघइ शिघ्रति ।

छांडइ छर्दयति ।

निरखइ निरीक्षते ।

परखइ परीक्षते ।

ऊवेखइ उपेक्षते ।

उध्रकइ उद्रेकते ।

पडखइ प्रतीक्षते ।

समरइ स्मरति ।

बलइ ज्वलति ।

बालइ ज्वालयति ।  
 मोलइ मृदु लुनाति ।  
 विढइ विध्यति ।  
 माचइ माघति ।  
 दूमइ दुनोति ।  
 सुणइ शृणोति ।  
 दीखइ दीक्षते ।  
 सुहायइ सुखायति ।  
 विगोवइ विगोपयति, विगूयति ।  
 विगूयइ विगूप्यति ।  
 नरनरइ नदति ।  
 थवइ स्थगयति ।  
 करडइ } कृन्तति ।  
 काटइ }  
 नांखइ निःक्षिपति ।  
 पखालइ प्रक्षालयति ।  
 धोअइ धावति ।  
 संधूखइ संधुक्षते ।  
 सांचइ संचिनोति ।  
 अउगनाइ अपकर्णयति ।  
 ऊजालइ उज्ज्वलयति ।  
 गांठइ ग्रन्थते ( ग्रन्थति ? ) ।  
 चूअइ चोतति ।  
 थीजइ स्थायते ।  
 वीज्ञायइ विध्यायति ।  
 वीज्ञावइ विध्यापयति ।  
 वाधइ वर्द्धते ।  
 खीलइ कीलति ।  
 ऊमटइ उन्मज्जति ।  
 पसवइ प्रसवति ।  
 मायइ माति ।  
 भणइ भणति ।  
 पढइ पठति ।

सूअइ स्वपिति ।  
 फेडइ स्फेडयति ।  
 पसीअइ प्रसीदति ।  
 ऑढइ अवगुण्टते ।  
 प्रोअइ प्रवयति ।  
 वणइ वयते ।  
 प्रेरइ प्रेरयति ।  
 वलइ वलते ।  
 आळिंगइ आळिंगति ।  
 वाअइ वादयति ।  
 छायइ छादयति ।  
 लाडइ ललति ।  
 मनावइ मानयति ।  
 द्रउडइ द्रुताडयति ।  
 कुसइ क्रोशति ।  
 निउंजइ नियोजयति, नियन्नयति वा ।  
 कसइ कषति ।  
 लुणइ लुनाति ।  
 कींगायइ केकायते ।  
 खोडायइ खोडायते ।  
 विहडइ विघटते ।  
 मीचइ मीलति ।  
 ऊजाइ उच्चाति ।  
 अवहथइ अपहस्तयति ।  
 मानइ मन्यते ।  
 वासइ वासयति ।  
 आलूजइ अलमुज्जति ।  
 पहिरइ परिदधाति ।  
 छेदइ छेदयति ।  
 पसीजइ प्रखिद्यते ।  
 तीमइ तेमयति ।  
 अडवडइ अधःपतति, अधःपूर्वः पतः ।  
 सिणमिणइ शनैर्मिनोत्यम्बुदः ।

बसवसइ बहु स्यन्दति भूमिः ।  
 उंजइ उदञ्जयति ।  
 ऊघडइ उद्धटते ।  
 फीटइ स्फिटते ।  
 सूकइ शुष्कति ।  
 खूंदइ क्षुन्ते, क्षुणत्ति वा ।  
 सीदाअइ सीदति ।  
 ऊगतइ उद्वर्त्तयति ।  
 भेदइ भिनत्ति ।  
 सरवइ श्रवति ।  
 खीजइ खिद्यते ।  
 विआरइ विप्रतारयति ।  
 विंहचइ विभजति ।  
 खडहडइ खटपतति ।  
 गलअलइ गलद्विलति ।  
 पतीजइ प्रलथते, प्रल्येति, प्रतीयते वा ।  
 पवीत्रइ पवित्रयति ।  
 पालटइ परावर्त्तयति, परिवर्त्तयति वा ।  
 हडहडइ हटाद्धसति, हडहडयति वा ।  
 परीसइ परिवेषयति ।  
 वींइ वेष्टते ।  
 ऊचेढइ उद्वेष्टते ।  
 समेटइ समेटयति ।  
 वीसमइ विश्राम्यति ।  
 चडइ चटति ।  
 अउलवइ अपलपति ।  
 आचमइ आचामति ।  
 ऊपणइ उत्पवते ।  
 वीकइ विक्रीणाति ।  
 ऊघडइ उद्धटते ।  
 ऊघाडइ उद्घाटयति ।  
 ऊठइ उत्तिष्ठति ।  
 नीठइ निस्तिष्ठति ।

अडइ अडुति ।  
 वावइ वपति ।  
 छिवइ छुपते, स्पृशति वा ।  
 छूटइ छुटति ।  
 उखेलइ उत्कीलयति ।  
 खीलइ कीलति ।  
 वधारइ व्याधारयति ।  
 वखाणइ व्याख्यानयति ।  
 सकइ शक्नोति ।  
 दंभइ दम्भोति ।  
 परवारइ प्रपारयति ।  
 वारइ वारयति ।  
 निवारइ निवारयति ।  
 वरांसीयइ विपर्यस्यति ।  
 पल्हालइ पर्याद्रवयति ।  
 पालवइ पल्लवयति ।  
 पचारइ प्रत्युच्चारयति ।  
 थाहरइ स्थानमाहरति ।  
 आयसइ आदिशति ।  
 टलवलइ टलद्वलति ।  
 कलकलइ कलकलयति ।  
 झणझणइ झणऽझणयति ।  
 वाधइ वर्द्धयति ।  
 हसइ हसति ।  
 सहइ सहते ।  
 आखुडइ आस्खलति ।  
 रंजइ रञ्जयति ।  
 सपइ शपति ।  
 फडफडइ पटपटायते ।  
 कडकडइ कटकटायते, चक्षुः ।  
 उदेगइ उद्वेगयति ।  
 हींइ हिंङते ।  
 ऊकदइ उत्कूदते ।

द्रमद्रमइ द्रमद्रमति ।  
 तडफडइ तटत्पटति, तडफडयति वा ।  
 त्रडत्रडइ तटत्रुटति ।  
 लोटइ लुच्यति, लोटति वा ।  
 लेटइ लेच्यति ।  
 नाथइ नाथति, वृषं तु नस्तयति ।  
 धूंसइ ध्वंसते ।  
 पाठवइ प्रस्थापयति ।  
 ससइ श्वसति ।  
 वीससइ विश्वसति ।  
 गूंथइ प्रन्थयति ।  
 मारइ मारयति ।  
 झंपावइ झम्पामाप्नोति ।  
 पीसइ पिनष्टि ।  
 गाहइ गाहते ।  
 विहाइ विभाति ।  
 आभिडइ आभ्यटति ।  
 बइसइ } उपविशति ।  
 उइसइ }  
 ओलखइ उपलक्षयति ।  
 मोकलावइ मुक्कलापयति ।  
 गंधाअइ गन्धायते ।  
 पडूछइ प्रतिपृच्छति ।  
 ओठंभइ अवष्टभ्नाति, अवष्टम्भते ।  
 पलाणइ पर्याणयति ।  
 सूजइ श्रयति ।  
 सूजवइ शोफयति ।  
 वाटइ वर्चयति ।  
 परतइ परिवर्चयति ।  
 खडखडइ खट्करोति खडखडयति वा ।  
 उपगरइ उपकरोति ।

निराकरइ निराकरोति ।  
 रहइ रहति ।  
 छेकइ छेकरोति ।  
 छींकइ छींकरोति ।  
 धडहडइ धट्करोति ।  
 भडहडइ भट्करोति, भडहडयति वा ।  
 हाकइ हाक्करोति ।  
 फूंकइ फूक्करोति ।  
 चीचूअइ चीक्करोति ।  
 झाकइ झाक्करोति ।  
 थूकइ थूक्करोति ।  
 चूकइ चूक्करोति ।  
 पुकारइ पूक्करोति ।  
 मागइ मार्गयति ।  
 याचइ याचते ।  
 घूमइ घूर्णयति ।  
 सरइ सरति ।  
 वधावइ वर्द्धयति ।

### अथ कर्मकर्त्तरि -

राचइ रच्यते ।  
 पाचइ पच्यते ।  
 दाझइ दह्यते ।  
 वाजइ वाधते ।  
 खाजइ खाधते ।  
 लुणाइ ल्यते ।  
 घसाइ घृष्यते ।  
 कराअइ क्रियते ।  
 जणाइ ज्ञायते ।  
 वधाअइ वर्धते ।

॥ इति कतिचित् क्रियापदानि ॥

\*

## अथ प्रशस्तिः ।

\*

राजन्वर्तीं श्रीजिनराजिसन्ततिं कुर्वत्सु शश्वज्जिनचन्द्रसूरिषु ।  
सूरीकृतश्रीजिनसिंहसूरिषु युगप्रधानेषु महोगभस्तिषु ॥ १ ॥

खरतरगणपाथोराशिवृद्धौ मृगाङ्गा,

यवनपतिसभायां ख्यापितार्हन्मताज्ञाः ।

प्रहतकुमतिदर्प्पाः पाठकाः साधुकीर्त्ति-

प्रवरसदभिधाना वादिसिंहा जयन्तु ॥ २ ॥

तेषां शास्त्रसहस्रसारविदुषां शिष्येण शिक्षाभृता

भक्तिस्थेन हि साधुसुन्दर इति प्रख्यातनाम्ना मया ।

ग्रन्थोऽयं विहितः कवीश्वरवचोबुद्ध्योक्तिरत्नाकरः

स्वान्यानां हितहेतवे बुधजनैर्मान्यश्चिरं नन्दतु ॥ ३ ॥

॥ इति पं० साधुसुन्दरगणिविरचित उक्तिरत्नाकरग्रन्थः सम्पूर्णः ॥



## अज्ञातविद्वत्कर्तृक उक्तीयक

॥ २ ॥ श्रीशारदायै नमः ॥

\*

आरोपइ आरोपयति ।  
 आरोहइ आरोहति ।  
 उन्मूलइ उन्मूलयति ।  
 ऊठइ उक्तिष्ठति ।  
 ऊठाडइ उत्पापयति ।  
 थापइ स्थापयति ।  
 स्पर्द्धइ स्पर्द्धति ।  
 ऊलालइ उल्लालयति ।  
 ऊललइ उल्ललति ।  
 ऊछालइ उच्छलति ।  
 ऊडइ उड्डीयते ।  
 आथमइ अस्तमेति, अस्तमयति, अस्तं  
 गच्छति, अस्तं याति ।  
 प्रकासइ प्रकाशयति ।  
 सूझइ शुध्यति ।  
 सूझवइ शोधयति ।  
 दूहवइ दुनोति, दुःखीकरोति ।  
 आश्रइ आश्रयति, आश्रयते ।  
 पा(खा)सइ कासति ।  
 प(ख)मइ क्षमते, सहते, क्षाम्यति ।  
 निंदइ निन्दति, गुगुप्सति ।  
 पडीगरइ चिकित्सति ।  
 पूं( खूं )दइ क्षुण्णति ।  
 पीसइ पिनष्टि ।  
 परिसीजइ परिश्रिचति ।  
 दो[गुं]छइ निर्धर्मसंयति ।  
 त्रासवइ त्रासयति ।  
 त्रासइ त्रासयति ।  
 कांपइ कंपते ।

फिरइ भ्रमति, परिभ्रमति ।  
 विहसइ विकसति ।  
 भेलइ मिश्रयति ।  
 रमइ रमते, क्रीडति ।  
 चुंकलइ तुदति ।  
 प्रेरइ प्रेरयति, नुदति ।  
 भुंजइ भुज्जति ।  
 वांछइ वाञ्छति, इच्छति, अभिलषते ।  
 नमस्करइ नमस्करोति, नमस्यति, प्रणमति ।  
 वांदइ वन्दते ।  
 पूजइ पूजयति, अर्चयति, महति ।  
 छांडइ सजति, जहाति, उज्जति ।  
 वीहइ विभेति ।  
 नीकोलइ निःकुणाति ।  
 वीससइ विश्वसिति ।  
 ससइ स्वसति ( श्वसिति ? ) ।  
 नीससइ निःश्वस(सि)ति ।  
 वारइ वारयति ।  
 निवारइ निवारयति ।  
 निषेधइ निषेधयति ।  
 आलोचइ आलोचयति, पर्यालोचयति ।  
 जायइ गच्छति, याति ।  
 आवइ आगच्छति ।  
 नीकलइ निर्गच्छति, निःसरति, निर्याति ।  
 वोलइ ब्रूते, वदति, वक्ति ।  
 चालइ चलति ।  
 जीमइ जिमति, मुक्ते, अत्ति ।  
 पीयइ पिबति ।

आस्वासइ आस्वाश्रयति (आश्वासयति) ।  
 सृंघइ जिघ्रति ।  
 सांभलइ शृणोति, आकर्णयति ।  
 जोयइ पश्यति, ईक्षति (ते), विलोकयति ।  
 दिषा(खा)डइ दर्शयति ।  
 संभलावइ श्रावयति ।  
 जिमाडइ जेमयति, भोजयति ।  
 करइ करोति, कुरुते ।  
 करावइ कारयति ।  
 सर्जइ सृजति ।  
 लेइ लाति, गृह्णाति, गृह्णीते, आदत्ते ।  
 लिवरावइ ग्राहयति ।  
 दिइ ददाति, दत्ते, यच्छति, वितरति ।  
 दिवरावइ दापयति ।  
 जाणइ जानाति, अवगच्छति ।  
 जणावइ ज्ञापयति ।  
 कहइ कथयति, शंसति ।  
 स्तवइ स्तौति, स्तवीति ।  
 श्लाघइ श्लाघते ।  
 वरइ वृणोति ।  
 तरइ तरति ।  
 तारइ तारयति ।  
 विचारइ विचारयति ।  
 विमासइ विमर्शति ।  
 धरइ धरति ।  
 धरावइ धारयति, अवधारयति ।  
 वेचइ विक्रीणाति ।  
 वेचावइ विक्रापयति ।  
 विसाहइ विसाधयति ।  
 लाभइ लभते, प्राप्नोति ।  
 वंचइ वंचयति ।  
 मरइ म्रियते, विपद्यते ।

जीवइ जीवति ।  
 वापरइ व्याप्रियते ।  
 छइ अस्ति, वर्त्तने, विद्यते ।  
 हुइ भवति ।  
 जागइ जागर्ति ।  
 जगाडइ जागरयति ।  
 सूइ स्वपिति, शेते, निद्राति ।  
 वइसइ उपविशति ।  
 छींकइ क्षौति ।  
 तेडइ आकारयति, आह्वयति, आह्वयते ।  
 प्रीणइ प्रीणयति, पृणाति ।  
 नांप(ख)इ विकीरति ।  
 घालइ क्षिपति ।  
 घलावइ क्षेपयति ।  
 काढइ कर्षति ।  
 आकर्षइ आकर्षति ।  
 पे(खे)डइ कर्षति, कृषति ।  
 संक्षेपइ संक्षिपति ।  
 लिखइ लिखति ।  
 लिषा(खा)वइ लेखयति ।  
 उपकरइ उपकरोति, उपकुरुते, उपकरति ।  
 घसइ घर्षति ।  
 घसावइ घर्षयति ।  
 आपइ अर्पयति ।  
 कापइ कर्त्तति, कर्त्तयते ।  
 मंडइ मण्डयति, भूषयति ।  
 ढांकइ स्यगति, आच्छादयति, पिदधाति,  
 पिधत्ते ।  
 ऊवटइ उद्वर्त्तयति ।  
 न्हाइ न्हाति ।  
 न्हवारइ स्नपयति, स्नापयति ।  
 वावइ वपति ।  
 परिणइ परिणयति, विवाहयति ।



हेजु करइ स्निह्यति ।  
 पहरिइ परिदधाति ।  
 पहिरावइ परिधापयति ।  
 ओटइ अवगुंठयति ।  
 पांगुरइ प्रावृणोति ।  
 पांगुरावइ प्रावारयति ।  
 वहइ वहति ।  
 वाहइ वाहयति ।  
 मारइ हन्ति ।  
 मरावइ घातयति ।  
 छेदइ छिन्दति ।  
 भांजइ भनक्ति ।  
 पडइ पतति ।  
 [ पाडइ ] पातयति ।  
 आपडइ आपतति ।  
 वारइ वारयति, निवारयति ।  
 [ मूकइ ] मुञ्चति ।  
 भणइ भणति, पठति, अध्येति ।  
 भणावइ भाणयति, पाठयति, अध्यापयति ।  
 आक्रमइ आक्रमते, पराक्रमते ।  
 ओलखइ उपलक्ष्यते ।  
 गिणइ गणयति ।  
 गुणइ गुणयति ।  
 वषा(खा)णइ व्याख्याति ।  
 पूछइ पृच्छति ।  
 नाचइ नृत्यति ।  
 नचावइ नर्त्तयति ।  
 गाइ गायति ।  
 वाइ वादयति ।  
 वाजइ वादति ।  
 वीनवइ विज्ञपयति, विज्ञापयति ।  
 संदिसइ सन्दिशति, आदिशति ।  
 जोडइ युनक्ति, युंक्ते ।

प्रयुंजइ प्रयुंक्ते ।  
 सींचइ सिञ्चति, अभिषिञ्चति ।  
 वरसइ वर्षति ।  
 मानइ आमनति ।  
 बूझइ बुध्यते ।  
 मनावइ प्रसादयति ।  
 चोरइ चोरयते, अपहरति ।  
 ओलवइ अपलपति, अपह्नुते ।  
 शापइ शपते, आक्रोशति ।  
 अपराधइ अपराध्यति, विराध्यति ।  
 तस्करइ तस्करयति ।  
 राष(ख)इ रक्षति, पाति, त्रायते, गोपायति  
 आणइ आनयति ।  
 अणावइ आना[य]यति ।  
 परिणावइ परिणाययति ।  
 चडइ चटति ।  
 ऊचाटइ उच्चाटयति ।  
 अवतरइ अवतरति, अवतारयति ।  
 चुंठइ चुण्ठति, अवचिनोति ।  
 चिणइ चिनोति ।  
 लुणइ लुनाति ।  
 लुणावइ लावयति ।  
 घडइ घटते, घटयति ।  
 ओलगइ अवलगति, सेवते ।  
 नासइ नश्यति, पलायते ।  
 अलंकरइ अलङ्करोति ।  
 बांधइ बध्नाति ।  
 छूटइ छुटति ।  
 फूटइ स्फुटति ।  
 विहरइ विहरति ।  
 हसइ हसति ।  
 हसावइ हासयति ।  
 मवइ मिनोति, माति ।

सीवइ सीवति ।  
 गूंथइ प्रधाति ।  
 गूंफइ गुम्फति ।  
 ऊलसइ उल्लसति ।  
 हरषी(ष)इ हृष्यति, माद्यति, मोदते ।  
 शोचइ शोचते ।  
 कूपइ कुप्यति, क्रुध्यति ।  
 विलवइ विलपति ।  
 रोइ रोदिति ।  
 कूटइ कुट्यति ।  
 ताडइ ताड[य]ते, ताडयति ।  
 वर्त्तइ वर्त्तते ।  
 प्रसवइ प्रसूते, जनयति ।  
 ऊपजइ उत्पद्यते, जायते ।  
 ऊपजावइ उत्पादयति ।  
 दूषइ दूष्यति ।  
 पादइ पर्दते, कुधाति ।  
 हगइ हदते ।  
 पचइ पचति ।  
 भजइ भजते ।  
 शोभइ शोभते ।  
 जिणइ जयति, पराजयति ।  
 सूकइ शुष्यति ।  
 तपइ तपति, उत्तपति ।  
 उद्यमइ उद्यमते ।  
 रूंधइ रुणद्धि ।  
 भरइ भरति ।  
 फाडइ स्फाटयति ।  
 रुचइ रोचते ।  
 कल्पइ कल्पते ।  
 आकलइ आकलयति ।  
 वीहावइ भापयति ।  
 ष(ख)ईइ क्षीयते ।

उ० २० ७

उपचईइ उपचीयते ।  
 वाधइ वर्द्धते ।  
 वधारइ वर्द्धयति ।  
 ॥ इति वर्त्तमानकालक्रिया ॥  
 आरोप्यउ आरोपितम् ।  
 आरुह्यउ आरूढः, चटितः ।  
 उन्मूल्यउ उन्मूलितः ।  
 रहिउ स्थितः ।  
 रहाचिउ स्थापितः ।  
 ऊठिउ उत्थितः, उत्थितवान् ।  
 [ ठिउ ] तस्थिवान् ।  
 गयउ गतः, यातः ।  
 आव्यउ आगतः ।  
 नीकल्यउ निर्गतः ।  
 नीसरिउ निःसृतः ।  
 पइठउ प्रविष्टः ।  
 बइठउ उपविष्टः, निषण्णः, आसीनः ।  
 पूछिउ पृष्टः ।  
 दीठउ दृष्टः ।  
 जोइउ निरीक्षितः, अवलोकितः ।  
 जाण्यउ ज्ञातः, बुद्धः, अवगतः ।  
 निवारिउ निषेधितः, निराकृतः ।  
 सूतउ सुप्तः, शयितः, शयितवान् ।  
 जागयउ जागरितः, जागरितवान् ।  
 लाज्यउ लज्जितः ।  
 घ्राइउ घ्राणः ।  
 रमिउ रंतः ( रतः ), क्रीडितः, क्रीडितवान् ।  
 हूउ भूतः, भूतवान्, जातः, जातवान् ।  
 ऊतन्यउ अवतीर्णः ।  
 तन्यउ तीर्णः ।  
 निस्तन्यउ निस्तीर्णः ।  
 वापरिउ व्यापृतः ।  
 भागउ भग्नः ।

लागउ लग्नः ।  
 साजउ सजः ।  
 संपन्नउ सम्पन्नः ।  
 जरिउ जीर्णः ।  
 न्हाउ स्नातः ।  
 दाधउ दग्धः ।  
 पडिउ पतितः ।  
 हर्ष्यउ हृष्टः, आनन्दितः ।  
 विचारिउ विचारितम् ।  
 विमासउ विमृष्टम् ।  
 अवधारिउ अवधारितम् ।  
 धरिउ धृतम् ।  
 भरिउ भृतम् ।  
 कीधुं कृतम्, कृतवान् ।  
 लीधुं लातम्, गृहीतम्, आत्तम् ।  
 दीधुं दत्तम्, दत्तवान् ।  
 पा(खा)धुं अत्तम्, जग्धम् ।  
 भष्य(ख्य)उ भक्षितम्, खादितम् ।  
 जीमिउ जिमितम्, मुक्तम् ।  
 पीधुं पीतम् ।  
 सूंध्यउ आघ्रातम् ।  
 सांभव्यउ श्रुतम्, श्रुतवान् ।  
 फरिस्यउ स्पृष्टः ।  
 वेच्यउ विक्रीतम् ।  
 विसाहिउ विसाधितम्, क्रीतम् ।  
 आलोच्यउ आलोचितम् ।  
 लाधउ लब्धम् ।  
 पामिउ प्राप्तम् ।  
 वंच्यउ वंचितः ।  
 अपराध्यउ अपराद्धः ।  
 मनाव्यउ प्रसादितः ।  
 चान्यउ चारितम् ।  
 नाठउ नष्टः ।

लुंठिउ लुण्ठितः ।  
 मुस्यउ मुष्टः ।  
 राषि(खि)उ रक्षितः ।  
 आप्यउ आनीतम् ।  
 अणान्यउ आनायितम् ।  
 मूंकिउं मुक्तम् ।  
 त्यजिउ त्यक्तम् ।  
 लुणिउ लुणितं, दहनम् ।  
 रंग्यउ रञ्जितम् ।  
 घडिउ घडितम् ।  
 होमिउ हुतम् ।  
 हकारिउ आकारितः ।  
 ओलभ्यउ अवलगितः, सेवितः, निषेवितः ।  
 वंछिउं इष्टम्, वाञ्छितम्, अभिलषितम् ।  
 वांधिउ वद्धः ।  
 छोडिउ छोडितः ।  
 जिण्यउ जितः, निर्जितः, पराजितः ।  
 भण्यउ भणितः, पठितः, पठितवान्,  
 अधीतः ।  
 भणान्यउ भाणितः, पाठितः, अध्यापितः ।  
 पालिउ पालितः, लालितः ।  
 ताडिउ ताडितः ।  
 स्तविउ स्तुतः ।  
 वीनव्यउ विज्ञप्तः ।  
 आदिस्यउ आदिष्टः, संदिष्टः ।  
 आथम्यउ अस्तमितः ।  
 ङगिउ उदितः ।  
 त्राठउ त्रस्तः ।  
 वीहिउ भीतः ।  
 वीहाविउ भाषितः ।  
 [वासिउ] वासितः ।  
 आक्रमिउ आक्रांतः ।  
 ओलखिउ उपलक्षितः ।

गुणिउ गुणितम्, गाणेतम् ।  
 वषा(खा)णिउ व्याख्यातम् ।  
 नाचिउ नृत्तम् ।  
 रोइउ रुदितम्, विलपितम् ।  
 विलोइउ विलोडितम्, मर्दितम्, विद्धरितम् ।  
 दोही दुग्धा ।  
 लीधी नीता ।  
 आक्रुसिउ आक्रुष्टः, शप्तः ।  
 प्रजूंजिउ प्रयुक्तः, नियुक्तः ।  
 जोड्यउ योजितः ।  
 परिण्यउ परिणीतः, विवाहितः ।  
 चडिउ चटितः ।  
 ऊचाटिउ उच्चाटितः ।  
 चुंदिउ चुण्टितः ।  
 चिणिउ चितः ।  
 अलंकरिउ अलङ्कृतः, मण्डितः ।  
 विहसिउ विकसितः ।  
 फूटउ स्फुटितः ।  
 हसिउ हसितः ।  
 वमिउ वान्तः ।  
 मविउ मातः ।  
 सीव्यउ स्यूतः, सीवितः ।  
 गूंथ्यउ ग्रथितः ।  
 [ गूंफिउ ? ] गुम्फितः ।  
 भमिउ पर्यष्टितः ।  
 थाकउ श्रान्तः ।  
 वूठउ वृष्टः ।  
 तूठउ तुष्टः ।  
 संतोषिउ संतोषितः ।  
 कुपिउ कुपितः, क्रुद्धः ।  
 कूटिउ कुट्टितः ।  
 मारिउ मारितः ।  
 मूउ मृतः, विपन्नः ।

त्रोडिउ त्रोडितः ।  
 गोपिविउ गोपितः, गुप्तः ।  
 वर्त्तिवउ वर्त्तितः, वर्त्तितवान् ।  
 प्रसविउ प्रसूतः, जातः ।  
 ऊपजाविउ उत्पादितः, जनितः ।  
 कुहिउ कुथितम्, विनष्टम् ।  
 फाड्यउ स्फाटितम् ।  
 भेदिउ भेदितम्, भिन्नम् ।  
 भेटिउ भेटितः ।  
 सूकउ शुष्कः ।  
 तपिउ तप्तः ।  
 रंधिउ रुद्धः ।  
 वीसरिउं विस्मृतम्, विस्मारितम् ।  
 विराध्यउ विराद्धः ।  
 [ आराध्यउ ] आराद्धः ।  
 वंदिउ वंदितः, नमस्कृतः, नतः ।  
 शोभिउ शोभितः ।  
 आकलिउ आकलितः ।  
 परीसिउ परिवेषितम् ।  
 छमकारिउ छमत्कारितम् ।  
 वाधिउ वद्धितः ।  
 क्षमिउ क्षान्तः ।  
 शमिउ शान्तः, उपशान्तः ।  
 सहिउ सोढः ।  
 वहिउ व्यूढः ।  
 औलविउ अपलपितम् ।  
 [ ह्योमिउ ] हुतम् ।  
 परिसीनउ परिस्त्रिन्नः ।  
 प्रेरिउ प्रेरितः, नोदितः ।  
 ऊडिउ उड्डीतः, उत्पतितः ।  
 कहिउ कथितम्, उक्तम्, उक्तवान् ।  
 धोईउ धौतः, धौतवान् ।  
 मेलिउ मेलितम्, मिश्रितम् ।

पडिगरिउ प्रतिजागरितः, पट्टकृतः,  
 चिकित्सितः ।  
 विरासिउ विपर्यस्तः ।  
 मूंडिउ मुण्डितः ।  
 लिषि(खि)उ लिखितम् ।  
 चोपड्यउ मर्षितः ।  
 बलिउ ज्वलितः, दग्धः ।  
 चालिउ चलितः, प्रस्थितः ।  
 कांपिउ कम्पितः ।  
 चेतियं चेतितम् ।  
 पांगुन्यउ प्रावृतः ।  
 पहिरिउ परिहितः ।  
 पहिराविउ परिधापितः ।  
 ढांकिउ स्थगितम्, छन्नम्, आच्छादित-  
 वान् ।  
 [ऊपनउ] उत्पन्नः ।  
 धमियं धमितम् ।  
 तेजियं उत्तेजितम् ।  
 खुभिउ क्षुब्धः ।  
 आपडिउ आपतितः ।  
 नांषि(खि)उ निक्षिप्तः ।  
 घालिउ क्षिप्तः ।  
 विषे(खे)रिउ विकीर्णम् ।  
 विदारिउ विदारितः, विदीर्णः ।  
 गालियं गालितम्, छाणितम् ।  
 हणिउ हतः, धातितः ।  
 नहुतरिउ निमन्त्रितः ।  
 धाईउ धावितः ।  
 [श्लाघिउ] श्लाघितः ।  
 आश्लेषिउ आलिङ्गितः ।  
 आपिउ अर्पितम् ।  
 मागिउ मार्गितम्, याचितम्, प्रार्थितम् ।  
 धोईउ धौतः, धौतवान् ।

ऊवेषि(खि)उ उपेक्षितः ।  
 आरोपिउ आरोपणीयम्, आरोपयित-  
 व्यम्, आरोप्यम् ।  
 आरोहिउ आरोहणीयम्, आरोहितव्यम्,  
 आरोह्यम् ।  
 करिउ कर्त्तव्यम्, करणीयम्, कार्यम् ।  
 लेवूं ग्रहीतव्यम्, ग्रहणीयम्, ग्राह्यम् ।  
 देवूं दानीयम्, दातव्यम्, देयम् ।  
 रहियं स्यातव्यम्, स्थानीयम्, स्थेयम् ।  
 [ऊपडिवूं] प्रस्थातव्यम्, [प्रस्थानीयम्,  
 प्रस्थेयम्] ।  
 षा(खा)वउं भक्षितव्यम्, भक्षणीयम्,  
 भक्ष्यम् ।  
 आस्वादिउ आस्वादयितव्यम्, आस्वाद-  
 नीयम् [ आस्वाद्यम् ] ।  
 पीवुं पातव्यम्, पानीयम्, पेयम् ।  
 रांधिवउं राधनीयम्, पक्तव्यम्, पच-  
 नीयम्, पाक्यं ( पाच्यम् ) ।  
 परीसियुं परिवेषणीयम्, परिवेषितव्यम्,  
 परिवेषयितव्यम् ।  
 सूंघवुं घ्रातव्यम्, घ्राणीयम् ।  
 सांभलेवुं श्रोतव्यम्, श्रवणीयम्, श्रव्यम्,  
 आकर्णयितव्यम्, आकर्णनीयम् ।  
 देषि(खि)वुं दर्शनीयम्, दर्शयितव्यम्,  
 दृश्यम् ।  
 जोइवुं विलोकयितव्यम्, विलोकनीयम्,  
 ईक्षितव्यम् ।  
 पहिरवुं परिधातव्यम्, परिधानीयम् ।  
 पांगुरिउं प्रावरितव्यम्, प्रावरीतव्यम्,  
 प्रावरीयम्, प्राधृत्यम् ।  
 धरिवुं धर्त्तव्यम्, धरणीयम्, धार्यम्,  
 धारयितव्यम् ।  
 वहिवुं वहनीयम्, वोढव्यम्, वाह्यम् ।

- मूकिवुं** मोक्तव्यम्, मोच्यम् ।  
**छाडिवुं** त्यक्तव्यम्, त्यजनीयम् ।  
**हणिवुं** हन्तव्यम्, हननीयम् ।  
**भांजिवुं** भंक्तव्यम्, भञ्जनीयम् ।  
**भेदिच्युं** भेदितव्यम्, भेत्तव्यम्, भेदनीयम्,  
 भेद्यम् ।  
**वारिवुं** वारयितव्यम्, वारणीयम्, वार्यम् ।  
**पडिवुं** पतितव्यम्, पतनीयम्, पायम्,  
 पातयितव्यम्, पातनीयम् ।  
**नमस्करिव्युं** नमस्कर्तव्यम्, नमस्कर-  
 णीयम्, नमस्कृत्यम् ।  
**वादिवुं** वन्दनीयम्, वन्दितव्यम्, वन्द्यम् ।  
**श्लाघिवुं** श्लाघनीयम्, श्लाघयितव्यम्,  
 श्लाघ्यम् ।  
**पूजिवुं** पूजनीयम्, पूजितव्यम्, पूज्यम् ।  
 अर्चनीयम्, अर्चयितव्यम्, अर्च्यम् ।  
**जिमिवुं** भोक्तव्यम्, भोजनीयम्, भोज्यम्,  
 भोजयितव्यम् ।  
**पठिवुं** पठितव्यम्, पठनीयम्, पाठ्यम्,  
 अध्येतव्यम्, अध्ययनीयम्, अध्येयम् ।  
**भणिवुं** भणनीयम्, भणितव्यम्, भाष्यम्,  
 भणयितव्यम्, पाठनीयम्, पाठयि-  
 तव्यम्, अध्यापनीयम्, अध्यापयि-  
 तव्यम् ।  
**[ गुणिवुं ]** गुणनीयम्, गुणयितव्यम् ।  
 गुण्यम् ।  
**गणिवुं** गणनीयम्, गणयितव्यम्, गण्यम् ।  
**उपलक्षिवुं** उपलक्षणीयम्, उपलक्षि-  
 तव्यम्, उपलक्ष्यम् ।  
**परीषिवुं** परीक्षितव्यम्, परीक्षणी-  
 यम्, परीक्षयितव्यम् ।  
**व्याखणिवुं** व्याख्यातव्यम्, व्याख्यानीयम्,  
 व्याख्येयम् ।
- [ कहिवुं ]** कथयितव्यम्, कथनीयम् ।  
 कथ्यम् ।  
**[ निवेदिवुं ]** निवेदयितव्यम्, निवेदनीयम्,  
 निवेद्यम् ।  
**वीनविवुं** विज्ञापयितव्यम्, विज्ञापनीयम्,  
 विज्ञाप्यम् ।  
**सन्दिशुं** सन्देष्टव्यम्, सन्देशनीयम्,  
 सन्देश्यम् ।  
**आदिशुं** आदेष्टव्यम्, आदेशनीयम्,  
 आदेश्यम् ।  
**बोलिवुं** वक्तव्यम्, वचनीयम्, वाच्यम्,  
 वदितव्यम्, वदनीयम् ।  
**पूछिवुं** प्रष्टव्यम्, पृच्छनीयम्, पृच्छ्यम् ।  
**वाचिवुं** वाचयितव्यम्, वाचनीयम्, वाच्यम् ।  
**अवधारिवुं** अवधारयितव्यम्, अवधारणी-  
 यम्, अवधार्यम् ।  
**धरिवुं** धरणीयम्, धारयितव्यम्, धार्यम् ।  
**भरिवुं** भरणीयम्, भरितव्यम् ।  
**नियोजिवुं** नियोजितव्यम्, नियोजनीयम् ।  
 नियोज्यम् ।  
**जोडिवुं** योजनीयम्, योजयितव्यम्,  
 योज्यम् ।  
**गाडिवुं** गातव्यम्, गानीयम्, गेयम् ।  
**नाचिवुं** नर्त्तनीयम्, नर्त्तितव्यम्, नृत्यम् ।  
**वाडिवुं** वादयितव्यम्, वादनीयम्, वाद्यम् ।  
**लिखिवुं** लिखनीयम्, लिखितव्यम्, लेख्यम्,  
 लेखनीयम्, लेखयितव्यम् ।  
**मनाविवुं** मन्तव्यम्, मननीयम् ।  
**जाणिवुं** ज्ञातव्यम्, ज्ञानीयम्, ज्ञेयम्,  
 अवगन्तव्यम्, अवगमनीयम्, अवगम्यम् ।  
**बूझिवुं** बोधव्यम्, बोधनीयम्, बोध्यम् ।  
**विमासिवुं** विमर्शनीयम्, विमर्श्यम् ।  
**तरिवुं** तरितव्यम्, तरणीयम्, तार्यम् ।

नाहिवुं स्नातव्यम्, स्नानीयम्, स्नेयम् ।  
 विचारिवुं विचारयितव्यम्, विचारणीयम्,  
 विचार्यम् ।  
 वेचिवुं विक्रेतव्यम्, विक्र[य]णीयम्, विक्रे-  
 यम् ।  
 विसाहिवुं विसाधयितव्यम्, विसाधनीयम्,  
 विसाध्यम् ।  
 लहिवुं लब्धव्यम्, लभनीयम्, लभ्यम् ।  
 पामिवुं प्राप्तव्यम्, प्रापणीयम्, प्राप्यम् ।  
 आपिवुं अर्पितव्यम्, अर्पणीयम्, अर्प्यम् ।  
 वंचिवुं वञ्चयितव्यम्, वञ्चनीयम्, वञ्चयम् ।  
 अपराधिवुं अपराधितव्यम्, अपराधनीयम्,  
 अपराध्यम् ।  
 मनाविवुं प्रसादयितव्यम्, प्रसादनीयम्,  
 प्रसाद्यम् ।  
 चोरिवुं चोरयितव्यम्, चोरणीयम्, चौर्यम्,  
 अपहर्त्तव्यम्, अपहरणीयम्, अपहार्यम्,  
 तस्करणीयम् ।  
 राषि(खि)वुं रक्षितव्यम्, रक्ष्यम्, [रक्ष-  
 णीयम्] परित्रातव्यम् ।  
 पालिवुं पालयितव्यम्, पालनीयम्, पाल्यम्,  
 गोपयितव्यम्, गोपनीयम्, गोप्यम् ।  
 आणिवुं आनेतव्यम्, आन[य]नीयम्,  
 आनेयम्, आनाध्यम् ।  
 परिणवुं परिणेतव्यम्, परिण[य]नीयम्,  
 परिणयम्, परिणाध्यम्, उपयन्तव्यम्,  
 उपयमनीयम्, उपयम्यम् ।  
 अवतरिवुं अवतरितव्यम्, अवतरणीयम्,  
 अवतार्यम् ।  
 चुंढिवुं अवचेतव्यं, अवचयनीयम्, अवचे-  
 ल्यम्,  
 च्चिणिवुं चेतव्यम्, चयनीयम्, चेयम् ।

लूणिवुं लवितव्यम्, लवनीयम्, लव्यम्,  
 लाव्यम् ।  
 रमिवुं रंतव्यम्, रमणीयम्, क्रीडितव्यम्,  
 क्रीडनीयम् ।  
 घडिवुं घटयितव्यम्, घटनीयम् ।  
 होमिवुं होतव्यम्, हवनीयम्, हव्यम् ।  
 ओलगिवुं अवलगितव्यम्, अवलगनीयम्,  
 सेवनीयम्, सेव्यम् ।  
 वाञ्छिवुं वाञ्छितव्यम्, वाञ्छनीयम् ।  
 नासिवुं पलायितव्यम्, पलायनीयम्, नष्ट-  
 व्यम् ।  
 अलंकारिवुं अलङ्कर्तव्यम्, अलङ्कारणीयम्,  
 अलङ्कार्यम् ।  
 विपराविवुं व्यापारयितव्यम्, व्यापार-  
 णीयम्, व्यापार्यम् ।  
 उच्छाहिवु उत्साहनीयः, उत्साहयितव्यः,  
 उत्साहाध्यः, प्रेरणीयः, प्रेरयितव्यम्,  
 प्रेर्यः, नोदनीयः, नोदयितव्यः, नोद्यः ।  
 अनुमोदिवुं अनुमोदनीयम्, अनुमोदयि-  
 तव्यः, अनुमोद्यः ।

\*

क्रिया च कर्ता च तथा च कर्म,  
 अनुक्तमुक्तं पुरुषत्रयं च ।  
 संख्या परस्वैपदलिङ्गकानि,  
 तथात्मने कालविभक्तयश्च ॥ १  
 संख्याविभक्तिलिङ्गपुरुषत्रयश्च  
 यदुक्तं भवति तस्यैव ग्राह्यम् ।  
 क्रियाकर्तादिकं सर्वं  
 पूर्वश्लोकप्रदर्शितम् ।  
 सारस्वतमितान्नेयं  
 संस्कृतं ज्ञातुमिच्छता ॥ २

\*

तुं हुं इत्यर्थे त्वं अहम् ।  
 तुम्हि तुम्हे अम्हि अम्हे इत्यर्थे यूयं  
 वयम् ।  
 तइं मइं त्वया मया ।  
 तुम्हि अम्हि तुम्हे अम्हे इ कीजइ  
 युष्माभिः अस्माभिः क्रियते ।  
 तूंहइ मूंहइ तव मम ।  
 तुम्हनइं अम्हनइं युष्माकम्, अस्माकम् ।  
 ताहरं तावकम्, तावकीयम्, तावकीनम्,  
 त्वदीयम् ।  
 माहरं मदीयम्, नामकम्, मामकीनम्,  
 मामकीयम् ।  
 तुम्हारं युष्मदीयम्, यौष्माकम्, यौष्माकी-  
 नम् ।  
 अम्हारं अस्मदीयम्, अस्माकीनम्, अस्मा-  
 कम् ।  
 आपणूं आत्मीयम्, स्वयम्, निजम् ।  
 परायउ परकीयम् ।  
 तिहातणूं तत्रत्यम् ।  
 इहांतणूं अत्रत्यम् ।  
 जिहांतणूं यत्रत्यम् ।  
 किहांतणूं कुत्रत्यम् ।  
 बाहिरल्युं बाह्यम् ।  
 माहिल्युं मध्यवर्ति, आभ्यन्तरम् ।  
 छेहिलुं अन्त्यम्, अन्तिमम् ।  
 पहिलुं प्रथमम् ।  
 कांई किञ्चित्, किमपि ।  
 कोई कश्चित्, कोऽपि ।  
 पाछिलुं पाश्चात्यम् ।  
 पछइ पश्चात् ।  
 आगिलुं अप्रेतनम् ।  
 जिम यथा ।  
 तिम तथा ।

किम कथम् ।  
 किसउ किम् ।  
 एतलुं एतावत्, इयत् ।  
 जेतलुं यावत् ।  
 तेतलुं तावत् ।  
 जिसउ यादक्, यादशः, यादशः ।  
 अनेरिसिउ अन्यादग्, अन्यादशः,  
 अन्यादशः ।  
 तुम्हासित युष्मादशः, भवादशः ।  
 अम्हासित अस्मादशः ।  
 केतलउ कतिपयः; कति ।  
 केतलुं कियत् ।  
 इणि परि इत्थम्, अनया रीत्या ।  
 इम एवमेव ।  
 विणा, पाषइ विना, ऋते, अन्तरेण,  
 व्यतिरेकेण ।  
 कहियइ कदा ।  
 जहियइ यदा ।  
 तहियइ तदा ।  
 अन्येरीवार अन्यदा ।  
 हिविडां अधुना, इदानीम्, सम्प्रति, साम्प्र-  
 तम् ।  
 आज अब ।  
 काल्हि कल्ये ।  
 परमइ परेषुवि ।  
 अहूण ऐषमस्य ।  
 पुरु परुत् ।  
 किहां कुत्र ।  
 जिहां यत्र ।  
 तिहां तत्र ।  
 तउ तत् ।  
 जउ यत् ।  
 अउ इत्यर्थे असौ अयं एषः ।



जु, यो, ये यः ।  
 तु, सु, ते सः ।  
 आपङ्गी आत्मना, स्वयम् ।  
 तां तावत् ।  
 जां यावत् ।  
 उहरुं अंतर्वाकार ।  
 परहउ पराक् ।  
 आघउ अतस्ततः ।  
 तिरछउ आडउ, तिर्यक्, तिरश्चीनम् ।  
 एतला ऊपरुं अतः ऊर्ध्वम् ।  
 आजु लगइ अद्य प्रभृति ।  
 आजूचुं अद्यतनम् ।  
 कालहनउं कल्यतनम् ।  
 ऊपरिं उपरितनम् ।  
 हेठिं अश्वस्तनम् ।  
 ऊपरि उपरि, उपरिष्ठात् ।  
 बाहिर हुंतउ बहिस्तात् ।  
 विसिमिसि प्रतिस्पर्द्धा, अहमहमिका ।  
 माणसामउ मनुष्यात्मकः ।  
 सामुहु सन्मुखः ।  
 उपराठउ पराङ्मुखः ।  
 अनेरुं अन्यत्, अपि च, अपरं च ।  
 अजी अद्यापि ।  
 आगइ अग्रे, तत्पुरः ।  
 अग्रेतनु पुरः ।  
 सदा सर्वदा नित्यं प्रत्यहं निरन्तरं सततम् ।  
 तुहइ तदपि ।  
 जइ यद्यपि ।  
 तउ तर्हि ।  
 इ, ए इदम्, एतत्, अदः ।  
 अलजु उत्कण्ठा ।  
 ऊंचउं उच्चैः ।  
 नीचउं नीचैः ।

उंचानीचुं उच्चावचम् ।  
 लहुडुं लघु ।  
 भारी गुरु ।  
 वडउ वृद्धम् ।  
 अउंगउ मुगउ अवाक् मूकः(?) ।  
 कूका हेवाका ।  
 कन्हइ पासि पार्श्वे, समीपे, निकटे ।  
 माहि मध्ये ।  
 विचालुं अन्तरालम् ।  
 ठालउं रिक्तम् ।  
 भरिउं निचितम् ।  
 जिमणुं दक्षिणम् ।  
 डावउं वामम् ।  
 ढीलउं शिथिलम् ।  
 पालटिउ परावर्त्तः ।  
 बापडउ बराकः ।  
 नहींत नो वा ।  
 एह ठाम हुंतउ अमुष्मात्, अस्मात्, एत-  
 स्मात् स्थानात् ।  
 जेह ठाम हुंतउ यतः, यस्मात् स्थानात् ।  
 तेह ठाम हुंतउ ततः, तस्मात् स्थानात् ।  
 किहां हुंतउ कुतः, [कस्मात्] स्थानात् ।  
 अनेरी परि अन्यथा ।  
 सर्व परि सर्वथा ।  
 एक परि एकथा ।  
 विहुं परि द्विधा ।  
 त्रिहुं परि त्रिधा ।  
 सर्वत्र संख्याशब्देषु 'संख्यायाः  
 प्रकारेण' इति सूत्रेण 'धा' प्रत्ययः ।  
 पहिलउ प्रथमः ।  
 बीजउ द्वितीयः ।  
 त्रीजउ तृतीयः ।

चउथउ चतुर्थः ।  
 पांचमउ पञ्चमः ।  
 छट्टउ षष्ठः ।  
 सातमउ सप्तमः ।  
 आठमउ अष्टमः ।  
 नवमउ नवमः ।  
 दसमउ दशमः । इत्यादि ।  
 बीसमउ विंशतितमः ।  
 त्रीसमउ त्रिंशति (१त्) तमः ।  
 चालीसमउ चत्वारिंशति (त् ?) तमः ।  
 विंशतिप्रभृतिशब्दात् 'तम'  
 प्रत्ययः ।  
 पालउ पादचारः ।  
 जोहारः जोक्त्वारः ।  
 सोहिलुं सुखावहम् ।  
 दोहिलुं दुःखावहम् ।  
 लाई लम्पकः ।  
 रलियामणुं रतिजनकम् ।  
 उदेगामणुं उद्वेगजनकम् ।  
 जूउ भिन्नः, पृथक् ।  
 अरणइ अरतिः ।  
 किर किल ।  
 साधुपणुं साधुत्वम्, साधुता ।  
 निश्चयार्थे एव् शब्दः ।  
 च समुच्चये  
 परिवारिउं प्रपारितम् ।  
 मउडइं २ शनैः २ मन्दम् २ ।  
 पुण पुण वारं वारम् ।  
 विलखउ विलक्षः, वक्रमयः, वक्रमयम् ।  
 लोहमूं लोहमयम् ।  
 अनेथि अन्यत्र ।  
 केवइं कियन्मात्रम् ।  
 एक एकः ।

द्वि द्वौ ।  
 त्रिणि त्रयः ।  
 च्यारि चत्वारः ।  
 पांच पञ्च ।  
 छः षट् ।  
 सात सप्त ।  
 आठ अष्टौ ।  
 नव नव ।  
 दश दश  
 इग्यार एकादश ।  
 बार द्वादश ।  
 तेर त्रयोदश ।  
 चवदइ चतुर्दश ।  
 पनरइ पञ्चदश ।  
 सोल षोडश  
 सतर सप्तदश ।  
 अठार अष्टादश ।  
 उगणीस एकोनविंशति ।

विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति,  
 त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पञ्चविं-  
 शति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टा-  
 विंशति, एकोनविंश (? त्रिं) शत्,  
 त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्,  
 त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिं-  
 शत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्,  
 अष्टात्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्,  
 चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्,  
 द्वाचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्,  
 चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्,  
 षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्,  
 अष्टाचत्वारिंशत्, एकोनपञ्चाशत्,  
 पञ्चाशत्, एकपञ्चाशत्, द्वापञ्चा-  
 शत्, त्रिपञ्चाशत्, चतु[ः]पञ्चा-

शत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, पञ्चसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्तपञ्चाशत्, अष्टापञ्चाशत्, एकोनषष्टिः, षष्टिः, एकषष्टिः, द्वाषष्टिः, त्रिषष्टिः, चतुःषष्टिः, पञ्चषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टाषष्टिः, एकोनसप्ततिः, सप्ततिः, एकसप्ततिः, द्वासप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, नवषष्टिः, द्वाशीतिः, त्रयोशीतिः, चतुरशीतिः, पञ्चाशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, एकोननवतिः, नवतिः। नवनवतिः ।

॥ इत्यज्ञातविद्वत्कर्तृकमुक्तीयकं समाप्तमिति ॥

॥ शुभं भवतु ॥



# अविज्ञातविद्वत्संगृहीतानि पुरातन-औक्तिकपदानि

\*

## [ कारकविचार ]

अथ षट् कारकाणि लिख्यन्ते—

छ कारक, सातमउ संबंधु ।

कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंधु,  
अधिकरण ।

जु करइ तु कर्त्ता ।

जं कीजइ तं कर्म ।

जीण करी क्रिया कीजइ तं करण ।

येह देवातणी वाज्झा, येह रूपइ काई, धरीइ  
काई; तं कारकु संप्रदानसंबंधु इइ ।

जेहतउ अपाय विच्छेपु इइ, जेहतउ भयु  
इइ, जेहतउ आदान ग्रहणु इइ, तं कार-  
कु अपादान संबंधु इइ ।

जेह कन्हइ, जेह माझि, जेह पासि, जेह  
तणउ, जेह तणी, जेह तणउं, जेहरहिं  
इत्यर्थे संबंधु ।

गामि, पाद्रि, षळइ, क्षेत्रि, वनि, पर्वति,  
माझि, बाहिरि इत्यर्थे आधार ।

कर्त्ता प्रथमा ।

कर्मि द्वितीया ।

करणि तृतीया ।

संप्रदानि [ चतुर्थी ] ।

[ अपादानि ] पंचमी ।

संबंधि षष्ठी ।

अधिकरणि सप्तमी ।

जउ पाधरी उक्ति तउ उक्त कर्त्ता ।

उक्ते कर्त्तरि प्रथमा ।

अनुक्तुं कर्म ।

अनुक्ते कर्मणि द्वितीया ।

जु वांकी उक्ती तउ अनुक्त कर्त्ता, उक्तं कर्म ।

अनुक्ते कर्त्तरि तृतीया, उक्ते  
कर्मणि प्रथमा ।

कालि भावि सप्तमी । वेला, दीसु, पक्षु,  
मासु, वरसु, ऋतु इत्यादि कालः ।  
अमुकइं हुंतइं अमुकुं हौंउं इत्यादि  
भावः ।

पाखइ, विना, किशा पाखइ, जेह, लहां—  
विनायोगे द्वितीया-तृतीया-  
पञ्चम्यः । यावद्योगे द्वितीया । अन-  
भिप्रति योगे द्वितीया । प्रभृ-  
तियोगे पञ्चमी । अर्वाकू योगे  
पञ्चमी ।

एक आगलि एक वचनु, विहुं आगलि  
द्वि वचनु, घणां आगलि बहु वचनु ।

त्रुटितप्रत्यन्तर प्राप्त पाठभेद । अथ षट् कारकमभिलिख्यते । यथा — छ कारक, सातमउ संबंधु । कर्त्ता १, कर्म २, करण ३, संप्रदान ४, अपादान ५, संबंध ६, अधिकरण ७ । जे करइ ते कर्त्ता । जं कीजइ तं कर्म । जेणइ करी क्रिया कीजइ ते करण । जेह भाणी धरीइ काई तं कारक संप्रदान । जिह हुंतु अपाय विच्छेपु इइ जेह तु भय हुई जिह तु आदान ग्रहण कीजइ तं कारक अपादान । जिह कन्हइ, जिह माहि, जिह पासि, जिह तणू, जिह तणी, जिह तणू, जिह नइ, जिहकिहिं, इत्यादि संबंधः । गामि पाद्रि क्षेत्रि खलइ वनि पर्वति माहि बाहिरि इत्यादि आधार ।

कर्त्ता प्रथमा । कर्मि द्वितीया । करणि तृतीया । संप्रदानि चतुर्थी । अपादानि पंचमी । संबंधि षष्ठी । अधिकरणि सप्तमी ।

## [ शब्दसंग्रह ]

[ १ ]  
 कीधुं कृतम् ।  
 लिधुं गृहीतम् ।  
 दीधुं दत्तम् ।  
 ग्युं गतम् ।  
 आव्युं आगतम् ।  
 आण्युं आनीतम् ।  
 पठिं पठितम् ।  
 बोल्युं उक्तम् ।  
 मारिं हतम् ।  
 जाणिं ज्ञातम् ।  
 यमिं मुक्तम् ।  
 रहिं रहितम् ।  
 थाकं } स्थितम् ।  
 थ्युं }  
 दीठं दृष्टम् ।  
 पूछिं पृष्टम् ।  
 [ २ ]  
 करतु कुर्वन् ।  
 लेतु गृह्णन् ।  
 देतु ददन् ।  
 जातु गच्छन् ।  
 आवतु आगच्छन् ।  
 आणतु आनयन् ।

पढतु पठन् ।  
 बोलतु वदन्, जल्पन् ।  
 मारतु घ्नन् ।  
 जाणतु जानन् ।  
 जिमतु मुञ्जन् ।  
 अछतु } तिष्ठन् ।  
 रहतु }  
 देखतु पश्यन् ।  
 पूछतु पृच्छन् ।  
 [ ३ ]  
 कीजतुं क्रियमाणम् ।  
 लीजतुं गृह्यमाणं, लीयमानम् ।  
 दीजतुं दीयमानम् ।  
 जईतुं गम्यमानम् ।  
 आवीतुं आगम्यमानम् ।  
 आणीतुं आनीयमानम् ।  
 पडीतुं पठ्यमानम् ।  
 बोलीतुं उच्यमानम् ।  
 मारीतुं हन्यमानम् ।  
 जाणीतुं ज्ञायमानम् ।  
 यमीतुं भुज्यमानम् ।  
 रहितुं } स्थीयमानम् ।  
 अछीं }  
 दीसतुं दृश्यमानम् ।  
 पूछीतुं पृच्छ्यमानम् ।

[ १ ]  
 कीधुं कृतम् ।  
 लीधुं गृहीतम् ।  
 दीधुं दत्तम् ।  
 ग्युं गतम् ।  
 आव्युं आगतम् ।  
 आण्युं आनीतम् ।  
 पठ्युं पठितम् ।  
 बोल्युं उक्तम् ।  
 जाण्युं ज्ञातम् ।  
 यम्युं मुक्तम् ।  
 रहिं थिं } रहितं  
 थिं } स्थितं च  
 दीठं दृष्टम् ।  
 पूछुं पृष्टम् ।  
 [ २ ]  
 करतु कुर्वन् ।  
 देतु ददन् ।  
 खातु खादन् ।  
 जातु गच्छन् ।  
 आवतु आगच्छन् ।  
 आणतु आनयन् ।  
 पठतु पठन् ।  
 बोलतु वदन् ।

मारतु घ्नन् ।  
 जिमतु मुञ्जानः । अशने तु  
 आत्मनेपदीड ।  
 छतु रहितु तिष्ठन् ।  
 देषतु पश्यन् ।  
 पूछतु पृच्छन् ।  
 [ ३ ]  
 कीजतुं क्रियमाणम् ।  
 लीजतुं गृह्यमाणं नीयमानं  
 वा ।  
 दीजतुं दीयमानम् ।  
 जईतुं गम्यमानम् ।  
 आवीतुं आगम्यमानम् ।  
 आणीतुं आनीयमानम् ।  
 पडीतुं पठ्यमानम् ।  
 बोलीतुं उच्यमानम् ।  
 मारीतुं हन्यमानम् ।  
 जाणीतुं ज्ञायमानम् ।  
 यमीतुं भुज्यमानम् ।  
 रहीतुं स्थीयमानम् ।  
 दीसतुं दृश्यमानम् ।  
 पूछीतुं पृच्छ्यमानम् ।

[ ४ ]

करी कृत्वा ।  
लेई गृहीत्वा ।  
देई दत्वा ।  
जाई गत्वा ।  
आवी आगल्य ।  
आणी आनीय ।  
पढी पठित्वा ।  
बोली उक्त्वा ।  
मारी हत्वा ।  
जाणी ज्ञात्वा ।  
यमी भुङ्क्त्वा ।  
रही } स्थित्वा ।  
थै }

[ ५ ]

करिवा कर्तुम् ।  
लेवा प्रहीतुम् ।  
देवा दातुम् ।  
जाइवा गन्तुम् ।  
आचिवा आगन्तुम् ।  
आणिवा आनेतुम् ।  
पढिवा पठितुम् ।

बोळिवा वक्तुम् ।  
मारिवा हन्तुम् ।  
जाणिवा ज्ञातुम् ।  
यमिवा भोक्तुम् ।  
रहीवा } स्थातुम् ।  
अछिवा }

[ ६ ]

करणहारु कर्तुकामः ।  
लेणहारु प्रहीतुकामः ।  
देणहारु दातुकामः ।  
जाणहारु गन्तुकामः ।  
आवणहारु आगन्तुकामः ।  
आणनहारु आनेतुकामः ।  
पठणहारु पठितुकामः ।  
बोळणहारु वक्तुकामः ।  
मारणहारु हन्तुकामः ।  
जाणनहारु ज्ञातुकामः ।  
पूळणहारु प्रष्टुकामः ।

[ ७ ]

करिवुं कर्तव्यम् ।  
लेवउं प्रहीतव्यम् ।  
देवुं दातव्यम् ।

[ ४ ]

करी कृत्वा ।  
लेई गृहीत्वा, नीत्वा ।  
देई दत्वा ।  
जाई गत्वा ।  
आवी आगल्य, एल्य ।  
आणी आनीय ।  
पढी पठित्वा ।  
बोली उक्त्वा ।  
मारी हत्वा ।

जाणी ज्ञात्वा ।  
जिमी भुङ्क्त्वा ।  
खाई भक्षयित्वा ।  
रही स्थित्वा ।  
देपी दृष्ट्वा ।  
पूछी पृष्ट्वा ।

[ ५ ]

करिवा कर्तुम् ।  
लेवा प्रहीतुम् ।  
देवा दातुम् ।

जाइवा गन्तुम् ।  
आचिवा आगन्तुम् ।  
आणिवा आनेतुम् ।  
पूछिवा पृष्टुम् ।

[ ६ ]

करणहारु कर्तुकामः ।  
लेणहारु हर्तुकामः ।  
जाणहारु गन्तुकामः ।  
आवणहारु आगन्तुकामः ।  
आणनहारु आनेतुकामः ।

पठणहारु पठितुकामः ।  
बोळणहारु वक्तुकामः ।  
मारणहारु हन्तुकामः ।  
जाणहारु ज्ञातुकामः ।  
पूळणहारु प्रष्टुकामः ।

[ ७ ]

करिवुं कर्तव्यम् ।  
लेवुं प्रहीतव्यम् ।  
देवुं दातव्यम् ।

जाइवउं गन्तव्यम् ।

आविवुं आगन्तव्यम् ।

आणिवउं आनेतव्यम् ।

पठिवउं पठितव्यम् ।

बोलिवउं वक्तव्यम् ।

मारिवउं हन्तव्यम् ।

जाणिवउं ज्ञातव्यम् ।

यमिवउं भोक्तव्यम् ।

रहिवउं

अछिवउं

} स्थातव्यम् ।

देपिवउं द्रष्टव्यम् ।

पूछिवउं प्रष्टव्यम् ।

\*

कीधउं

लीधउं

दीधउं

} इत्यादौ निष्ठाक्तः ।

करतुं

लेतुं

देतुं

} इत्यादौ शतृङ् ।

कीजतुं

लीजतुं

दीजतुं

} इत्यादौ आनश् ।

करी

लेई

देई

} इत्यादौ क्त्वा ।

करिवा

लेवा

देवा

} इत्यादौ तुम् ।

शक ज्ञा धातु प्रयोगे क्त्वास्थाने तुम्-

करी जाणउं कर्तुं जानामि ।

पढी सकुं पठितुं शक्नोमि ।

करणहार

लेणहार

देणहार

} इत्यादौ शतृ-कानशौ

करिवुं

लेवुं

देवुं

} इत्यादौ तव्यानीयौ ।

आजु अद्य ।

कालि कल्पे ।

परम परेद्यवि ।

अरिरम अपरेद्युः ।

आजूणउं अद्यतनम् ।

काल्हूणउं कल्पयतनम् ।

हवडां अधुना, इदानीं, सांप्रतं, संप्रति ।

हवडांनुं आधुनिकं, सांप्रतीनम् ।

नहीं तु नो वा, नो चेत् ।

लगइ प्रभृति, आरभ्य ।

पाखइ विना, ऋते ।

मुहीयां मुधा ।

यिम यथा ।

तिम तथा ।

किम कथम् ।

ईणपरि इत्थम् ।

जहीई यदा ।

आविवुं आगन्तव्यम् ।

आणिवुं आनेतव्यम् ।

बोलिवुं वक्तव्यम् ।

मारिवुं हन्तव्यम् ।

जाणिवुं ज्ञातव्यम् ।

जिमिवुं भोक्तव्यम् ।

रहिवुं स्थातव्यम् ।

देपिवुं द्रष्टव्यम् ।

पूछिवुं प्रष्टव्यम् ।

पठिवुं पठितव्यम् ।

आज अद्य ।

कालिह कल्पे ।

परम परेद्यवि ।

अरिरम अपरेद्यवि ।

आजूनुं अद्यतनम् ।

काल्हूनुं कल्पयतनम् ।

हवडांनुं आधुनिकं, साम्प्र-

तीनम् ।

हवडां अधुना, इदानीम्,

सम्प्रति, साम्प्रतम् ।

नहि तु नो वा, नो चेत् ।

लगइ प्रभृति, आरभ्य ।

पाखइ विना, ऋते ।

मुहीआं मुधा ।

जिम यथा ।

तिम तथा ।

किम कथम् ।

ईणो परि इत्थम् ।

जहीई यदा ।

तर्हीय तदा ।  
 कर्हीय कदा ।  
 अनेकवार अनेकधा ।  
 ज्यार अन्यदा ।  
 सवईवार सर्वदा, सदा ।  
 एकवार एककृत्वः ।  
 एवं वारस्य संख्यायाः कृत्वम् ।

एकपरि एकधा ।  
 व्यहु परि द्विधा, द्वैधम् ।  
 तृहु परि त्रेधा, त्रैधम् ।  
 च्यहु परि चतुर्धा ।  
 किहां कुत्र, क ।  
 यहां यत्र ।  
 तिहां तत्र ।  
 ईहां अत्र, इह ।  
 अनेति अन्यत्र ।  
 सघले सर्वत्र ।  
 वली व्याहृत्य ।  
 तिमइ तत्कालम् ।  
 झटकइ झटिति ।  
 जूउं पृथक् ।  
 ताहरुं तदीयम् ।  
 माहरउं मदीयम् ।  
 तम्हारउं युष्मदीयम् ।

अम्हारउं अस्मदीयम् ।  
 ताहरउ तावकः, तावकीनः ।  
 माहरउ मामकः, मामकीनः ।  
 जां यावत् ।  
 तां तावत् ।  
 जेतळुं यावन्मात्रम् ।  
 तेतळुं तावन्मात्रम् ।  
 एवळुं एतावन्मात्रम् ।  
 केतळुं कियत् ।  
 केवळुं कियन्मात्रम् ।  
 एतळुं इयत् ।  
 जु यदि, यतः ।  
 तु ततः ।  
 जं यत् ।  
 तं तत् ।  
 जइकिमइ यदि किमपि चेत् ।  
 इमै अन्यथा ।  
 इंसुं इति ।  
 होउ एवम् ।  
 हवं अथ ।  
 हावलि प्रत्युत ।  
 पूठिं अनु ।  
 सामहु अभिमुखः ।  
 डावउ वाम ।

कहीई कदा ।  
 अनेकवार अनेकधा ।  
 ज्यार अन्यदा ।  
 सवई वार सर्वदा ।  
 एक वार एककृत्वः ।  
 बि वार द्विकृत्वः ।  
 त्रिणि वार त्रिकृत्वः ।  
 च्यारि वार चतुःकृत्वः ।  
 सउ वार शतकृत्वः ।  
 वारस्य संख्यायां कृत्वम् ।  
 एक परि एकधा ।  
 विहु परि द्विधा ।  
 त्रिहुं परि त्रिधा ।  
 चिहुं परि चतुर्धा ।  
 किहां कुत्र ।  
 जिहां यत्र ।  
 तिहां तत्र ।  
 ईहां अत्र, इह ।  
 अनेधि अन्यत्र ।  
 सघलइ सर्वत्र ।  
 वली व्याहृत्य ।  
 झटकइ झटिति ।

जूउ पृथक् ।  
 ताहरुं त्वदीयम् ।  
 माहरुं मदीयम् ।  
 तम्हारुं युष्मदीयम् ।  
 अम्हारुं अस्मदीयम् ।  
 याण यावत् ।  
 ताण तावत् ।  
 जेतळं यावन्मात्रम् ।  
 तेतळं तावन्मात्रम् ।  
 एतळं, एतावन्मात्रम्, इयत् ।  
 केतळं कियत् ।  
 जु यदि ।  
 जइयइ किमइ यदि किमपि, यदि चेत् ।  
 इमहइ अन्यथा ।  
 इयउं इति ।  
 हा एवम्, अथ ।  
 हावलि प्रत्युत ।  
 पूठि अनु ।  
 सामहु अभिमुखः ।  
 डावउ वाम ।



यमणुं दक्षिणः ।  
 वांकु कुटिलः ।  
 पाधरु ऋजु, सरलः ।  
 लांबउ दीर्घः ।  
 हेठि अधः ।  
 ऊपरि उपरि ।  
 आडउ तिर्यक् ।  
 तिरिछउ तिरश्चीनः ।  
 आगिलुं अग्रे, पुरः ।  
 पाळिलु पाश्चात्यः ।  
 सरीषउ सदृक्, समानः, सदृक्षः ।  
 किसउ कीदृग्, कीदृशः, कीदृक्षः ।  
 इसउ ईदृक्, ईदृशः, ईदृक्षः ।  
 यसउ यादृक्, यादृशः, यादृक्षः ।  
 तिसउ तादृक्, तादृशः, तादृक्षः ।  
 अनेसउ अन्यसदृक्, अन्यसदृशः,  
 अन्यसदृक्षः ।  
 तूसरीषउ त्वादृशः ।  
 मूसरीषउ मादृशः ।  
 तम्हंसरीषउ युष्मादृशः ।  
 अम्हंसरीषउ अस्मादृशः ।  
 अरहु अर्वाक् ।

परहु पराक् ।  
 पाखलि परितः, सर्वतः, विष्वक्,  
 समन्तात्, समन्ततः ।  
 उगउमुगउ अवाङ्मूकः ।  
 झलझांपसउ चलद्घ्वाक्षम् ।  
 ऊधांधलुं उद्भूलिकम् ।  
 सूगामणउं शूकाजनकम् ।  
 अहिवा अधवा, विधवा ।  
 सूहय सुधवा ।  
 ऊतरिण्यु उत्तारितवृणम् ।  
 पडू प्रतिभूः ।  
 पडूचउं प्रतिभाव्यम् ।  
 उपरीयामणु उक्कटिकाकुलं रणरणकं वा ।  
 ओल्यउ अर्वाचीनः ।  
 पयलु पराचीनः ।  
 विलखउ विलक्षः ।  
 द्रहद्रहवार जयद्रथवेला ।  
 तांगणी तनुगमनिका ।  
 गोई गोसली गोप्यसिलाका ।  
 ऊकरडी अक्करोत्करिका ।  
 पूंजउ अवकर ।

जिमणउ दक्षिण ।  
 वांकु कुटिल ।  
 पाधरु ऋजु, सरल ।  
 लांबउ दीर्घः ।  
 हेठि अधः ।  
 ऊपरि उपरि ।  
 आडु तिर्यक् ।  
 तिरिछउ तिरश्चीनः ।  
 आगलि अग्रे, पुरः ।  
 आगिलउ अग्रेसरः ।  
 पाळिलउ पाश्चात्यः ।  
 सरीषु सदृक्, समानः,  
 सदृशः, सदृक्षः ।

किसउ कीदृशः, कीदृक् ।  
 जिसउ यादृक्, यादृशः,  
 यादृक्षः ।  
 तिसउ तादृशः, तादृक्,  
 तादृक्षः ।  
 ईसउ ईदृक्, ईदृशः, ईदृक्षः ।  
 अन्यसरीषउ अन्यसदृक्,  
 अन्यसदृशः ।  
 [ तुम्हंसरीषउ ? ] भवा-  
 दृशः, भवादृक्षः ।  
 तूसरीषउ त्वादृशः ।  
 मूसरीषउ मादृशः ।  
 तम्हंसरीषु युष्मादृशः ।

अम्हंसरीषउ अस्मादृशः ।  
 उरहु अर्वाक् ।  
 परहु पराक् ।  
 पाखलि परितः, सर्वतः,  
 विष्वक्, समन्तात् ।  
 उगमूगउ अवाङ्मूकः ।  
 झलझांखसउ चलत् (द्-  
 घ्वाक्षम् ।  
 ऊधांधलुं उद्भूलिकम् ।  
 सूगामणउं शूकाजननम् ।  
 षींष नही क्षेम क्षितिर्नि हि ।  
 अहिवा अधवा ।  
 सूहव सुधवा ।  
 उत्तारणउं उत्तारितवृणम् ।  
 पडू प्रतिभूः, लभकः ।  
 पडूचूं प्रतिभाव्यम् ।  
 अफिरीयामणू उक्कलिका-  
 कुलं रणरणकं वा ।  
 उरलिउं अर्वाचीनम् ।  
 पडूलउ पराचीनः ।  
 विलखउ विलक्षः ।  
 द्रहद्रहवार जयद्रथवेला ।  
 तांगणी तनुगमनिका ।  
 गोई गोसली गोप्यसि(श)-  
 लाका ।  
 उकरडी अक्करोत्करिका ।  
 पूंजउ अवकरः सङ्करश्च ।

उक्ति च्यद्द प्रकारि—कर्त्ता, कर्मि, भावि, कर्मकर्त्ता । जउ उक्ति पाधरी हुइ—उक्तिमाहि कर्त्ता कर्मु हुइ ते उक्ति कर्त्ता जाणिवी । जु वांकी उक्ति हुइ तु माहि कर्त्ता हुइ, कर्मु न हुइ तउ ते उक्ति भावि जाणिवी । जु कर्म फीटी कर्त्ता आविउ हुइ, ते उक्ति कर्मकर्त्ता जाणिवी । कर्त्ता परस्मै पद दीजइ । कर्मि भावि आत्मनेपद दीजइ ।

पुरुष केता ? ३ । कुण कुण ? प्रथमु, मध्यमु, उत्तमु । नामि बोलावीय ते प्रथमपुरुष । तुं तम्हि मध्यम पुरुषु हुइ । हुं अम्हि उत्तम पुरुष ।

काल केता ? ३ । कुण कुण ? वर्त्तमानु, अतीतु, भविष्यु । वर्त्तइ वर्त्तमानु, वर्त्त्यु अतीतु, वर्त्तसिइ भविष्यु । वर्त्तमानकालि ३ विभक्ति हुइ—वर्त्तमाना, सप्तमी, पंचमी । अतीत कालि ४ विभक्ति—ह्यस्तनी, अद्यतनी, परोक्षा, स्म संयोगि वर्त्तमाना । भविष्यकालि ३ विभक्ति—भविष्यन्ति, आशिः, श्वस्तनी ।

करइ, लिइ, दिइ; करत, ल्यथ [द्यथ ?]; करं ल्यं, बुं, इसइ बोलि वर्त्तमान कालु । वर्त्तमानानुं परस्मैपदु दीजइ ।

कीजइ, लीजइ, दीजइ; कीज, लीज, दीज; कीजुं, दीजुं, लीजुं; इसइ बोलि वर्त्तमानु कालु । वर्त्तमानानुं आत्मनेपदु दीजइ ।

कारिजे, लेजे, देजे; इसइ बोलि वर्त्तमानु कालु । सप्तमीनुं परस्मैपद दीजइ ।

कीजिजे, लीजिजे, दीजिजे; इसइ बोलि वर्त्तमानु कालु । सप्तमीनुं आत्मनेपदु दीजइ ।

करइ, लिइ, दिइ; करउ, लिउ, दिउ; इसइ बोलि वर्त्तमानु कालु । पंचमीनुं परस्मैपदु दीजइ ।

कीजउ, लीजउ, दीजउ; इसइ बोलि वर्त्तमानु कालु । पंचमीनुं आत्मनेपदु दीजइ ।

उ० २० ९

करतउ, लेतउ, देतउ; करता, लेता, देता; करती, लेती, देती; करतउं, लेतउं, देतउं; इसइ बोलि वर्त्तमानु अतीत कालु । ह्यस्तनी अद्यतनी परोक्षानुं परस्मैपदु दीजइ ।

कीधुं, लीधुं, दीधुं; कीधा, लीधा दीधा; कीधी, लीधी, दीधी; इसइ बोलि वर्त्तमानु अतीत कालु । ह्यस्तनी अद्यतनी परोक्षानुं आत्मनेपदु दीजइ ।

करिसिइ, लेसिइ, देसिइ; करसुं, लेसुं, देसुं; करिस्यउं, लेस्यउं, देस्यउं; इसइ बोलि वर्त्तमानु भविष्यु कालु । भविष्यन्तीनुं परस्मैपदु दीजइ ।

करीसिइ, लीजसिइ, दीजसिइ; इसइ बोलि भविष्य कालु । भविष्यन्तीनुं आत्मनेपदु दीजइ ।

भविष्यकालि आशीर्वादयोगी आशीर्विभक्ति हुइ; अनइ भविष्य कालि योगि श्वस्तनी विभक्ति दीजइ । भविष्यतीनी वाणी बोलीइ ।

जउ—जु करत, जु लेत; जु देत; इसिइ बोलि वर्त्तमानु अतीत कालु । क्रियातिपत्तीनुं परस्मैपदु दीजइ ।

जु कीजत, जु दीजत, जु लीजत; इसिइ बोलि वर्त्तमानु अतीत कालु । क्रियातिपत्तिनुं आत्मनेपदु दीजइ । कर्त्ता परस्मैपदु दीजइ, कर्मि आत्मनेपदु दीजइ ।

अथ ल्यादि विभक्ति केती ? १० । कुण कुण ? वर्त्तमाना १, सप्तमी २, पंचमी ३, ह्यस्तनी ४, अद्यतनी ५, परोक्षा ६, श्वस्तनी ७, आशीः ८, भविष्यन्ती ९, क्रियातिपत्ती १० । अकेकी विभक्ति १८ वचन—९ परस्मैपद तणां, ९ आत्मनेपद तणां ।

ति, तस्, अन्ति; सि, थस, थ; मि, वस्, मस्, इं नव परस्मैपद तणां । ते, आते, अन्ते, से, आथे, ध्वे; ए, वहे महे; इं नव आत्मनेपद तणां ।

ति तस्, अन्ति; इति प्रथमपुरुषः । सि, थस्, थ; इति मध्यमपुरुषः ।

मि, वस्, मस्; इति उत्तमपुरुषः । ते,  
आते, अन्ते; इति प्रथमपुरुषः । से,  
आथे, ध्वे; इति मध्यमपुरुषः । ए वहे,  
महे; इति उत्तमपुरुषः ।

ति, एक वचन; तस्, द्विवचन; अन्ति  
बहुवचन । सि, एकवचन; थस्, द्विवचन;  
थ, बहुवचन । मि, एकवचन; वस्,  
द्विवचन; मस्, बहुवचन । एवं सर्वत्र ।

जु कर्ता प्रथम पुरुष इह तु क्रियां प्रथम  
पुरुष इह । जु कर्ता मध्यम पुरुष इह तु क्रियां  
मध्यम पुरुष इह । जुकर्ता उत्तम पुरुष इह तु  
क्रियां उत्तम पुरुष इह ।

जु कर्ता आगलि एक वचन इह, तु क्रिया  
आगलि एक वचन । जु कर्ता आगलि द्विवचन,  
तु क्रिया आगलि द्विवचन । जु कर्ता आगलि  
बहुवचन, तु क्रिया आगलि बहुवचन ।

जु कर्ता उक्ति इह तु [ क्रिया आगलि ? ]  
कर्तानी अपेक्षां विभक्ति दीजइ । जु कर्मि उक्ति इह  
तु क्रिया आगलि कर्मनी अपेक्षां विभक्ति दीजइ ।

### [ शब्द संग्रह ]

चउकीवटु चतुष्कपट्ट ।

वटवालनुं वर्त्मपालनम् ।

वेहडउं द्विघटम् ।

गुडउं गुदगूडम् ।

चउकीवटा चतुष्कपटः ।

वाटवालणूं वर्त्मपालनम् ।

वेहडूं द्विघटम् ।

गुडउं गुदगूडम् ।

विसरहिडी क्षिप्रसरही-

ण्डिका ।

ओरस अवघर्षकः ।

घरट घर्षकः ।

वेसर द्विशरीरः ।

भरत परत वाप सरीषउ

आकृष्या प्रकृष्या पित्ता सदशः

खीसउ क्षिप्रखकः ।

कोथळी कोथस्थली ।

अभेवाणू अघ्यानीकम् ।

पाछेवाणू पश्चादनीकम् ।

वूसट [ च ] विटा ।

सुहुदली चशुपुटिका ।

कावजि काथाटनी, काया-

वालिनी वा ।

गरढउ गतार्धव्यायाः ।

वडीयायित वस्तुवितः ।

नीक नीरका ।

ऊसलसीधुं उल्लासितसन्धि-

कम्, उत शलंघं वा ।

मउ मागौका, [ मुचौका

वा ]

वेगडी विकटशृङ्गी ।

मीठी मिलितशृङ्गी ।

फाडी प्रसृतशृङ्गी ।

मुहुखाई परोक्षवादी ।

लिपसणूं लिप्तायिकम् ।

वरहलि वीतवेत्रा ।

वरसधियारणि समांसमीना ।

पटांतरूं प्रत्यन्तरम् ।

[ विज्जाहरी ] विजयगृहा ।

कोठउ कोष्ठकः ।

डोकरउ डोलत्करः ।

छीडणि छिद्राटिनी ।

विसरहंडी क्षिप्रसरहिंडिका ।

ओरसु अवघर्षः ।

घरट्टु घर्षकः ।

वेसरु द्विशरीरः ।

अरतपरत वापसरीषउ आकृष्या प्रकृष्या  
च पितृसदशः ।

अभेवाणु अघ्यानीकम् ।

पाछेवाणु पश्चादनीकम् ।

मौ मागौका; मुचौकाः ।

वेगडि विकटशृङ्गी ।

मीठी मिलितशृङ्गी ।

फाडी प्रसृतशृङ्गी ।

कुंदली कंदलितशृङ्गी ।

मुहषायी परोक्षवादः ।

लिपसणुं लिप्तायनम् ।

वरहलि वीतवेत्रा ।

पटांतरूं प्रत्यन्तरम् ।

विज्जाहरी विजयगृही ।

कोठउ कोष्ठकः ।

डोकरु डोलत्करः ।

छीडणि छिद्राटिनी ।

छेकडि छिद्रकरी ।

सीरामणु शीताशनं, शरीराप्यायनकं वा ।

सउडि संवृत्तपटी ।

सीरष शीतरक्षा ।  
 तुलाई बलिका ।  
 ऊसीसउं उपधानम् ।  
 शलाडु शिलाघटकः ।  
 मडि मडिका ।  
 खंडायितु खड्गवित्तः ।  
 भथायितु तृणवित्तः, मखवित्तो वा ।  
 पूर्णी पिचुमर्दी ।  
 आंगडणु अंगमंडनम् ।  
 कागु काकः, वायसो वा ।  
 वावि वापी ।  
 कूड कूपः, अन्धुः ।  
 तलागु तडाग, जलाधारः ।  
 खडोखली दीर्घिकाः  
 ..... पडूकरणम् ।  
 बगाई जृमिका ।  
 चीपडीउ चिपटः ।  
 गूंहली गोमुखा ।  
 कोसीटउ कोपसमुद्धः ।  
 कालियु कालिकः ।  
 व (च?)णहडीउ चणकवर्तकः ।  
 लुंकडि लोमकटिका ।  
 सवार सवेला ।  
 मांकुण मल्लुणः ।  
 कालाखरिउ कालाक्षरितः, दाणी ।  
 धणिउ झणितः ।  
 दीवाली दीपालिनी, दीपोःसवो वा ।  
 त्रुटी त्रिपुटी ।  
 धुलहडी धूलिपटिका, धूलितटी, रजोःसवो  
 वा ।  
 थूंकु निष्ठीव ।  
 आभूयानुं उद्धिद्यमानम् ।  
 झगडउ उद्गदः ।

छयकारु गेयकारु ।  
 चिणोठी चित्रपृष्ठा, गुंजा, कृष्णलवा ।  
 ओडक अपराख्या ।  
 ढांकणउं स्थागनकम् ।  
 सूगहरउं शयनगृहम् ।  
 पथरणउं प्रस्तरणम् ।  
 ओढणउं आच्छादनम् ।  
 नणंद ननन्दा ।  
 नणदोई ननान्दपतिः ।  
 जमाई जामाता ।  
 नाणिद्रउ ननान्दसुतः ।  
 भत्रीजउ भ्रातृजः, भ्रातृसुतः ।  
 परीयडु निर्णेजकः ।  
 छीपउ रजकः ।  
 कुतिगीउ कौतुकिकः ।  
 अणगुक अनग्रिपकः ।  
 फिरक स्फुरितचक्रिका ।  
 पाटूआली पादप्रहासवती ।  
 थाणीकणउं पा(खा)दनपरम् ।  
 परमूणउं परमदिवसीयम् ।  
 पुरोकउं प्राक्वर्धीयम् ।  
 सरलउ दीर्घः, प्रलंबः ।  
 ऊघडदूघडउ उद्घटदुर्घटः ।  
 कहूआलउ कोलाहलः ।  
 देसानी छायाकरः ।  
 मोलीउं } मूर्द्धवेष्टनम्,  
 मोसंधीयुं } उष्णीषं वा ।  
 निलाड ललाट, निटिले वा ।  
 पोटीउ पृष्ठवाहक ।  
 अरणइ अरति ।  
 राजगुल राजकुलम् ।  
 किरि किल ।  
 विमणउं द्विगुणम् ।

त्रिगुण त्रिगुणम् ।  
 चउगुणउं चतुर्गुणः ।  
 चीषलालुं कर्दमाकुलं, पङ्किलं वा ।  
 परिवारुं प्रपारितम् ।  
 मुडई मन्दं मन्दम् ।  
 वली वली पुनः पुनः ।  
 पालटउ परिवर्त्तः ।  
 पालटिउ परिवर्त्तितः ।  
 बापडउ वराकः ।  
 विहरउ व्यतिकरः ।  
 लागु लग्नः ।  
 लगाडिउ लगितः ।  
 पाटलउ पाटन्चारः ।  
 जुहारु नमस्कारः ।  
 सोहिलउं सुखावहम् ।  
 दोहिलउं दुःखावहम् ।  
 रूलीयामणउं रतिजनकम् ।  
 ऊदेगामणउं उद्वेगजनकम् ।  
 राउताई राजपुत्रता ।  
 राउत राजपुत्र ।  
 द्रम्मासु द्रम्ममय ।  
 असुणिउ अपशकुनिक ।  
 सुण शकुन ।  
 स(सु)णउं खप्रम् ।  
 अंबोडउ धम्मिल्ल ।  
 वीणि वेणि ।  
 मांडहिय बलात्कारेण, हठाद्वा ।  
 धार्थिसउं सहसैव ।  
 देहरासरु देवतावसरः ।  
 आरतीयासरु आरात्रिकावसरः ।  
 सर्वोसरु सर्वोवसरः ।  
 मोटउ स्थूल ।

नान्हउ लघु, हल ।  
 कडव कणीम्बा ।  
 आरती आरात्रिका ।  
 धूपधाणउं धूपधाम, धूपदहनपात्रम् ।  
 वरांसिउ विपर्यस्त ।  
 वरांसउ विपर्यास ।  
 आखुडिउ अवस्वलित ।  
 घोडाहडि वाजिशाला, अश्वकुटी वा ।  
 रसोयि रसवती, पाकस्थानं, महानसं वा ।  
 भंडारु भंडागारः, कोशो वा ।  
 मंत्रासरु [ मंत्रावसरः ] ।  
 हथसाल हस्तिशाला, गजसदनं वा ।  
 श्रीगरणु श्रीकरणम् ।  
 वयगरणउ व्ययकरणम् ।  
 घडांमंची घटमञ्चिका ।  
 दाबडउं जलयंत्रम् ।  
 अरहट्टु अरघट्टक ।  
 परव प्रपा ।  
 छमकाव्यउं छमत्कारितम् ।  
 अवाडूउ प्रतिकूल ।  
 सवाडूउ सानुकूलः ।  
 पडीसारउ प्रतीसारक ।  
 गुडिउ गुडितः ।  
 पाव(ख?)रिउ प्रक्षरितः ।  
 कु जि को जानाति ।  
 बलहि बालदधि, बालहिता वा ।  
 वरगडु वराकर्षक ।  
 जानुत्र यज्ञयात्रा ।  
 जानावासउ यज्ञावासक ।  
 एकउडउ एकपटिक ।  
 घूघटिउ अत्रगुण्टन ।  
 गमाणि गवादिनी ।

आहरजाहर आगमनगमनिका ।  
 खाजलु खाद्यफलम् ।  
 पीजहलु पेयफलम् ।  
 मसाहणी महासाधनिक ।  
 आखउंडली अक्षपटलिका ।  
 बलबलीउ वाचाल, वावदूक ।  
 मेरायीयुं मेराद्यकम् ।  
 अभोखणुं अभ्युक्षणम् ।  
 ऊलिषउ उदकोल्लञ्चन ।  
 पच्छोकडु पश्चादोकस्तटम् ।  
 पडोसु प्रत्योकस् ।  
 उपवासी उपोषित ।  
 फुई पितृष्वसा ।  
 मासी मातृष्वसा ।  
 बहिन खसा ।  
 मु(माउ?)लाणि मातुलपत्नी ।  
 भुजाई भ्रातृजाया ।  
 सासू श्वश्रू ।  
 पीत्राणी पितृव्यपत्नी ।  
 पीत्रीयु पितृव्यक ।  
 माउलउ मातुल ।  
 फुईहायी पितृस्त्रीय ।  
 माईय (°हायी) }  
 मास्याही - } मातृस्त्रीय ।  
 मा[उ?]लाही मातुलीय ।  
 देशांतरी देशान्तरिक ।  
 पलवटि परिवलितपटी ।  
 पिराणउ प्रतोदः, प्राजिनं, तोत्रं, प्रवयणं वा ।  
 चंदौउ चंद्रोदय, उल्लोच ।  
 परीयच्छि तिरस्कारिणी ।  
 बाउलु बच्चूल ।  
 आंबिली चिंचा, चिञ्चिणी वा ।

दीवटीउ दीपवर्त्तिक ।  
 चांद्रिणानी लांप चंद्रायलिप्सा ।  
 धातस्वायु धातुस्वादकः ।  
 साध (थ?) संस्था ।  
 आद्रहणु अधिश्रयणम् ।  
 अहिनाणु अभिज्ञानम् ।  
 हराविउ पराजित ।  
 विदाणउ वितानप्रभाव ।  
 कोटीलउ कुट्टनक ।  
 परालु पलालम् ।  
 अरडकमल्लु अर्थटकां म? ]ल्लु ।  
 सूआडि सूतिकागृहम् ।  
 भोलउ मुग्धः ।  
 पाहरी प्राहरिकः ।  
 गउखु गवाक्ष ।  
 नीद्रालूखउ निद्रारुद्धक ।  
 ऊंडहणुं उद्धहनकम् ।  
 खोडउ खल्लः ।  
 पलेवलउं प्रदीपकम् ।  
 न्युंजणउं नियन्त्रकम् ।  
 गउंछणउं गुच्छनकम् ।  
 न्युंछणउं न्युञ्जनकम् ।  
 छाणावलि कारीषावली ।  
 ऊदेही उद्देदिका ।  
 आडाबंग तिर्यक्सूत्रिका ।  
 ऊटाटीयुं उट्टीकनम् ।  
 कूडळी कूर्मोच्छ्रयिका ।  
 जोत्रु योक्त्रम् ।  
 जूसरु युगम् ।  
 तीन्हउं तीक्ष्णम् ।  
 कोटडउं प्राकारम् ।  
 गढु दुर्गः ।

## अथ क्रियावचनानि

मांजइ प्रमाष्टि ।  
 जागइ जागसि ।  
 गायइ गायति ।  
 होमइ जुहोति ।  
 गूंथइ गुथ्यति ।  
 करइ करोति, कुरुते, विदधाति, विधत्ते ।  
 धरइ दधाति, धत्ते, धरति, धारयति ।  
 दि यच्छति, राति, दत्ते, दाति ।  
 लि नयति, आदत्ते, गृह्णाति, विगृह्णाति ।  
 ऊडइ उत्पत्ति, उड्डीयते ।  
 आचरइ आचरति ।  
 पवित्रइ पवित्रयति, पुनाति ।  
 ऊपणइ उत्पुनाति ।  
 धूपइ धूपायति ।  
 क्षरइ क्षरति ।  
 वीकइ विक्रीणाति, विक्रीते ।  
 मर्दइ मुद्राति ( मृद्राति ? ) ।  
 मिलइ मिलते ।  
 अडइ अडुते ।  
 छूटइ छुट्यति ।  
 ऊठइ उत्तिष्ठति ।  
 नीठइ निस्तिष्ठति ।  
 किरगिरइ किरगिरति ।  
 वषाणइ व्याख्यानयति ।  
 छिछ(प ?)इ छुपति, मृशति ।  
 वावइ वपति ।  
 चोरइ मुष्णाति, चोरयति ।  
 ऊखेडइ उत्कीलयति ।  
 डांभइ दभ्नाति ।  
 वारइ वारयति, निवारयति, निषेधयति ।  
 पल्हालइ प्रक्लियति ।  
 पालुइ पल्लयति ।

थाकइ स्थानमाहरति, स्थानयति ।  
 फूटइ स्फुटति ।  
 पतीजइ प्रत्येति, प्रत्ययति, प्रतीयते ।  
 वरासीयि विपर्यस्यते ।  
 जाम(य?)इ जायते ।  
 हुइ भवति ।  
 खाजइ कण्डूयति ।  
 ओलंभइ उपालभते ।  
 ऊटंठइ उद्वन्धयति ।  
 क्रमइ क्रामति ।  
 आयसिइ आदिशति ।  
 वाधइ वर्द्धते ।  
 निबीजइ निर्धिज्यते ।  
 कुपइ कुप्यते, क्रुध्यति, रुष्यति ।  
 तोलइ तूलयति ।  
 सहइ क्षमति, तितिक्षति, सहते, क्षाम्यति,  
 मृष्यति ।  
 मरइ म्रियते, विपद्यते ।  
 आषुडइ आस्वयति ।  
 फडफडइ फटफटायते ।  
 शपइ शपति, शप्यते इत्यादि ।  
 तिष्ठति गम्ल्ठ दृशूञ्चलौ  
 स्पृहस् पृञ्छति नी पचक् पठौ ।  
 क्षिप् भणौ विश मुञ्च पिच् कृषौ  
 ल्यज दहौ तरति स्तु चल् त्रमौ ॥ ?  
 लिखन् मोखन् जिघ्रति वर्षे  
 पिच् पतेऽथ जि जीव परस्मै ।  
 यज् वपौ वद् वेञ् वसौ  
 वहत्युभयमाह भवादिगणानाम् ॥ २  
 वर्तते च रमते वृधूञ्चथौ  
 याचते च लभते च शोभते ।  
 कंपते च घटते सुखायते  
 प्रारभते सहते तदात्मने ॥ ३

अद् हन् इण् भा स्वा शास्ति वा जागृ  
माति स्वप् रुद वच वायाम्नाल्यदादिः परस्मै ।

दुह लिह च दा धत्ते भयं स्तुइ भी ही  
निगदित इह लोके आत्मने षूङ् धातुः ॥ ४

व्यध् ह्यौ कुप् तृल्यनशो मुष  
म्लिष् दुषौ क्लिन्न शाम्यति तुष्यति ।

भ्रम कुषौ च दिवादि परस्मै  
तम विदौ गदौ गदितस्तु किल्लात्मा ॥ ५

विञ् वृञ् किल दुञ् शकापौ  
खादिगा निगदितास्तु परस्मै ।

रुदभिदा लिद मुंजयुजौ वा  
भुजयुता उभयं च रुधादिः ॥ ६ ॥

तनोति डुकृञ् भयं तनादिः  
स्तूप्र ग्रह ही मुष लृड विक्री ।

क्रियादयः पायुभयं च चिति  
लोके सभाजिश्रुरताडि भिक्षौ ॥ ७

अत्विकरण कर्त्तरि । दिवादेर्यत् । नु स्वादेः ।  
तनादेरुः । ना ऋयादेः । चुरादेश्च । इमानि  
सर्वाणि विकरणसूत्राणि ।

परस्मैपदे ह्यस्तनीं यावत् । आत्मनेपदे सर्वत्र  
सर्वधातुके यण् ।

लज्जासत्तास्थितिजागरणं  
वृद्धिक्षयभयजीवितमरणम् ।

शयनक्रीडारुचिदीप्यर्थ्या  
धातव एते कर्मविहीनाः ॥ १

[ कर्मणि वाक्य ]

ईणं लाजीइ अनेन हीयते ।  
तइं भलइं हुईइ त्वया भव्येन भूयते ।

मइं रहीइ मया स्थीयते ।

पाहरीं जागीइ यामकेन जागर्थते ।

एयु वाधइ असौ वर्द्धते ।

एयु जीवइ असौ जीवति ।

वयरी मरीइ अरिणा म्रियते ।

त्वया सुप्यते । बालेन रम्यते । दानिना  
शोभ्यते । कर्त्तरि कर्मण्यपि कर्म नागच्छति ।

अथ द्विकर्मको भावः ।

दुहि याचि रुधि प्रच्छि भिक्ष  
चिआनुपयोगिनिमित्तमपूर्वविधौ ।

ब्रुवि शासिगणेन च यत्सते ( ? )

तदकीर्त्तितमाचरितं कविना ॥ १

जयत्यर्थयती मन्यि चतुर्थो दण्डयत्यपि ।

एभिः सह बुधैर्ज्ञेया द्वादशैव दुहादयः ॥ २

नीवह्योर्द्विक्रमोश्चापि गत्यर्थानां तथैव च ।

द्विकर्मकेषु ग्रहणं प्यन्ते कर्म च कर्मणः ॥ ३

असौ गां दोग्धि पयः । विप्रो राजानं गां

याचते । असौ गामवरुणद्वि व्रजम् । पान्थश्छात्रं

पन्थानं पृच्छति । असौ वृक्षमवचिनोति फलानि ।

विप्रः शिष्यं धर्मं ब्रूते । पण्डितः शिष्यं धर्म-

मनुशास्ति । कोऽपि बुद्ध्या ग्रामं छात्रशतं

जयति । प्रार्थयति राजानं ग्रामं गुरुः । मथन्ति

स्म जलधि देवासुराः ।

[ द्विकर्मक वाक्य ]

एयु देवदत्तु गगर्गं सड दंडइ असौ  
देवदत्तो गर्गान् शतं दण्डयति ।

ए छाळी गामि लिइ अजां नयति ग्रामम् ।

ए कुंभतणु भारु हरइ असौ कुंभं भारं  
हरते । वहति ग्रामं भारं देवदत्तः । कर्षति  
शाखां ग्रामं देवदत्तः ।

इजन्तेऽपि द्विकर्मका भवन्ति—

भोजयति पायसं छात्रं कश्चित् ।

बोधयति बटुं ग्रन्थं गुरुः ।

वाचयति श्लोकं पुत्रं पिता ।

कर्मण्यपि द्विकर्मका भवन्ति—

दुहते गौः पयो गोपालेन ।

याच्यते राजा गां विप्रेण ।



रुद्धयते गौर्व्रजं गोपालकेन ।  
 पृच्छयते छात्रः पंथानं पाथ्येन ।  
 अवचीयते वृक्षः फलानि पुरुषेण ।  
 अनुशिष्यते छात्रो धर्मं पण्डितेन ।  
 प्रार्थ्यते राजा ग्रामं गुरुणा ।  
 एवं सर्वत्र ।

पूर्वकर्त्तरि षष्ठी, कर्मणि षष्ठी, करणषष्ठी,  
 संप्रदानषष्ठी, अपादानषष्ठी, संबन्धिषष्ठी, निर्द्धार-  
 णषष्ठी, काले भावे षष्ठी, अधिकरणषष्ठी—एते  
 षष्ठीभेदाः । सर्वत्र षष्ठीवाचकानि कारकाणि ।

तइं गामि जाइवउं गन्तव्यं ते ग्रामे ।  
 मइ धरि रहिवउं मम गृहे स्थातव्यम् ।  
 कृत्यानां कर्त्तरि वा षष्ठी—

एयु शाख वाचणहारु असौ शाखाणां  
 वाचयिता ।

एयु वेद पढणहारु असौ वेदानामभ्येता ।  
 णक्तृचोः कर्मणि षष्ठी, इतरेषां द्वितीया ।

एयु अग्नि ध्रायु असौ अन्नानां तृप्तः ।  
 विसनरु काष्ठि न ध्रायु अग्निः काष्ठानां  
 न तृप्यति ।

पाणी भरिउं सरोवर जलस्य पूर्णं तडा-  
 गम् ।

कोठउ कणि भरिउ कपानां पूर्णोऽयं  
 कोष्ठकः ।

इत्यर्थे प्ररिसुहितार्थानां करणे षष्ठी ।

एयु प्रधानरहि लांच भइसि दि असा-  
 वमालस्य लञ्चया महिषीं ददाति ।

एयु पोष्यवर्गरहिं यावज्जीवु भरण  
 पोषणु दि असौ पोष्यवर्गस्य याव-  
 जीवं भरणपोषणं ददाति ।

ऐहिकफलार्थसंप्रदाने षष्ठी, पारलोके च  
 चतुर्थी । यथा—कश्चिद्ब्राह्मणेभ्यो गां

ददाति, असौ ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां वित-  
 रति, इत्यर्थे पारलौकिके निःस्पृहे चतुर्थी ।

भूतंतउ प्राणीया भला भूतानां प्राणिनः  
 श्रेष्ठाः ।

प्राणीयां तु मतिजीवी भला प्राणिनां  
 मतिजीविनः श्रेष्ठाः ।

इत्यर्थे अपादाने ।

निर्द्धारणे षष्ठी, सप्तमी च भवति—

मनुष्यमाहि ब्राह्मण श्रेष्ठ मनुष्येषु  
 ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः ।

गाईमाहि काली गाइ घणु दूधु गोषु  
 कृष्णा संपन्नक्षीरा गौः ।

इति सप्तमी च भवति ।

बांभणनउं घरु ब्राह्मणस्य गृहम् ।

व्यासनउं ग्रामु व्यासस्य ग्रामः ।

इति संबन्धिषष्ठी ।

लोक विक्रमादित्यु राउ स्मरइ लोकौ  
 विक्रमादित्यराज्ञः स्मरति ।

एयु बोल्या प्रयोग संभारतउ श्लोक  
 नींपजावइ असातुक्तानां प्रयोगानां  
 स्मरन् श्लोकान् निष्पादयति ।

श्रीवासुदेव दैत्य मारइ श्रीवासुदेवो  
 दैत्यानां निहन्ति ।

राउ बांभणना वयरि मारइ राजा  
 विप्राणां वैरिणां घ्राति (हन्ति) ।

इत्यर्थे स्मरणहिंसार्थानां प्रयोगे कर्मणि  
 षष्ठी ।

एयु देवतणइ अर्थिं फूलपत्री मेलइ  
 असौ देवताभ्यः पुष्पपत्राणामुपस्फुरते ।

एयु श्राद्धतणइ अर्थिं चोषा मुग  
 मेलइ असौ श्राद्धाय तन्दुलमुद्गानामु-  
 पस्फुरते ।

इति करोतेः प्रतियत्ने कर्मणि षष्ठी ।

**एयु दोरी सापु भणी जाणइ असौ**  
रज्जुं सर्पस्य जानीते ।

**एयु तेरु धीउ भणी जाणइ असौ तैलं**  
धृतस्य जानीते ।

**एयु एकलउ विदेशि जातउ भयतउ**  
**पीलउ पुरुषभणी जाणइ असौ**  
एकाकी विदेशं व्रजन् भयात् कीलकं  
नरस्य जानीते ।

इत्यर्थे संभ्रान्तिज्ञाने जानाते: कर्मणि षष्ठी ।  
सुखदुःखाभ्यां करणे द्वितीया—

**एयु सुखिहिं दीहाडा नींगमइ असौ**  
सुखं दिनानि निर्गमयति ।

**एयु दुःखिं द्रव्यु उपाजइ असौ दुःखं**  
द्रव्यमुपाजयति ।  
हेत्वर्थे तृतीया—

**राउ लोकपाहिं करसणु करावइ राजा**  
लोकैः कर्षणं कारयति ।

**ब्राह्मणु शिष्यपाहिं पोथउं लिखावइ**  
विप्रः शिष्येण पुस्तकं लेखयति ।  
इति हेतु कर्ता ।

कालाध्वभावदेशानां कर्मसंज्ञा—

**वैष्णवु रातिं च्यारइ पुहुर जागइ रज-**  
न्याश्चतुरो यामान् जागर्त्ति वैष्णवः ।

**सात मसवाडा नइ वहइ सतमासाचदी**  
वहति ।

**कापि कृतो हीने कर्मणि प्रधानक्रियापेक्षया**  
द्वितीया न भवति—

**तइं वयरी आणी बांधीवउ त्वया**  
रिपुरानीय बध्यताम् ।

‘विषवृक्षोऽपि संवर्ष्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम् ।’

**ईणं हु व्यारीउ द्रव्यु लीधउ अनेनाऽहं**  
विप्रतार्य द्रव्यं गृहीतः ।

३० २० १०

गल्यर्थकर्मणि चतुर्था वा—

प्राप्तं गच्छति, प्राप्ताय गच्छति असौ ।

कर्मप्रवचनीयैश्च । अनु-अभि-प्रति एते  
कर्मप्रवचनीयाः । एषां योगे द्वितीया ।

अनुशब्दः पृष्ठे अभिज्ञाने मध्ये सन्मुखे समीपे  
सहार्थे—

**तु पूठि त्वामनु ।**

**पर्वतनइ अहिनाणि गामु वसइ**  
पर्वतमनु नगरं वसति ।

**आंवामाहि कोइलि वासइ सहकारमनु-**  
कोकिला कूजति ।

**वृक्ष सामहुं आभउं वृक्षमन्वभ्रपटलम् ।**  
**देवालय कन्हलि तीर्थु छइ देवालयमनु**  
तीर्थं तिष्ठति ।

**तइसउं वात करइ त्वामनु वात्तां करोति ।**  
**गुरु सामहु ऊठइ असौ गुरुमभ्युत्तिष्ठति ।**

**ग्रामि दीहाडी प्रतिं एकु द्रम्भु लहइ**  
ग्रामे प्रतिदिनं द्रमैकं लभते ।

**एयु ब्राह्मणप्रतिं भक्ति वोलइ असौ**  
प्रतिविप्रं भक्तिं जरपति ।

उभयतः परितः सर्वतो योगे द्वितीया—  
**देवालय बिहुंगमे वड दीसइ देवालय-**  
मुमयतो न्यग्रोधो दृश्यते ।

**घरपाषलि वाडि करइ गृहं परितो वृत्ति**  
करोति ।

**गाम सचिहुं गमा क्षेत्र वाव्यां प्राप्तं**  
सर्वतः क्षेत्राण्युत्तानि ।

उपर्यधोऽधीनां सामीप्य एव कर्मद्वित्वे—  
**ऊपरि ऊपरि गामु उपर्युपरि ग्रामम् ।**

**हेठलि हेठलि नगरु अधो अधो नगरम् ।**  
अदूरे एनोऽपञ्चम्याः, एनप्रत्ययान्तयोगे द्वितीया—

**गाम दाहिण गमइ दूकडी वाडी प्राप्तं**  
दक्षिणेन निकटं वाटिका ।

गाम बिहुं विचि नदी गामद्वयमन्तरा नदी ।  
नगरनइं उत्तर गमइं ढूकडउ पर्वतु

नगरमुत्तरेण निकषा पर्वतः ।

समयाहाधिगन्तरान्तरेण युक्ता द्वितीया—

तू कन्हलि त्वां समया ।

एयु भुंडउ एनं धिग् ।

तू पाषइ त्वामन्तरेण ।

मूं पाषइ मामन्तरेण ।

### [ समास प्रकरण ]

द्विगुर्द्वन्द्वोऽव्ययीभावः कर्मधारय एव च ।

तत्पुरुषो बहुव्रीहिः षट् समासाः प्रकीर्त्तिताः ॥

पदे तुल्याधिकरणे विज्ञेयः कर्मधारयः ।

( १ ) जीणं समासि वि पद तुल्या-

धिकरण हुइं सु समासु कर्मधार-  
यसंज्ञिक हुइ ।

नीलं उत्पलं—नीलोत्पलम् । उत्तमः पुरुषः—

उत्तमपुरुषः ।

[ संख्यापूर्वो द्विगुरिति ज्ञेयः ]

( २ ) जीणइं समासि संख्या गणितु

पूर्वपदि बोलाइ ते समास द्विगु  
जाणिवउ ।

सप्तऋषयः । पञ्चाम्राः । पञ्चानां मूलाणां

समाहारः—पञ्चमूली ।

विभक्तयो द्वितीयाद्या नाम्ना परपदेन तु ।

समस्यन्ते, समासो हि ज्ञेयस्तत्पुरुषस्य च ॥

( ३ ) जीणं समासि द्वितीयालगइ

छ विभक्ति आगिलइं पदि सरसी  
मेलीयि सु समासु तत्पुरुषु  
जाणिवउ ।

ग्रामं गतः—ग्राम गतः, नखैर्निर्भिन्नः—नखनि-

भिन्नः । ब्राह्मणाय देयं—ब्राह्मणदेयम् ।

मञ्चात्पतितः—मञ्चपतितः । राज्ञः पुरुषः—

राजपुरुषः । अक्षेषु शौण्डः—अक्षशौण्डः ।

स्यातां यदि पदे द्वे तु, यदि वास्य बहून्यपि  
तान्यन्यस्य पदस्यार्थे बहुव्रीहिः समस्यते ॥

( ४ ) जीणइं समासि वि पद अथ  
घणां पद अनेरा पद तणइ अर्थि  
मेलाइं तेयु समासु बहुव्रीहि  
जाणिवउ; अनइ बहुव्रीहि समासि  
यइ शब्द छेहि प्रयुंजीइ ।

(क) घणउ गुड छइ जीण लाइ  
प्रभूतो गुडो यस्मिन् मोदके स प्रभू-  
तगुडो मोदकः ।

(का) सदाचार वांभणु जीणइं गामि  
सदाचारा विप्रा यस्मिन् ग्रामे स  
सदाचारविप्रो ग्रामः ।

(कि) घणां निर्मलां पाणी जीणं नदि  
प्रभूतानि निर्मलानि उदकानि यस्यां  
नद्यां सा प्रभूतनिर्मलोदका नदी ।

(की) पामी विद्या जेहि पुरुषि संप्राप्ता  
विद्या येनैरैः ते संप्राप्तविद्या नराः ।

(कु) निर्मलबुद्धि विप्र वैद्य सुभट  
अछइं जीण राज भुवनि निर्मलबु-  
द्धिका विप्रा वैद्याः सुभटा यस्मिन् राज-  
भुवने तद् निर्मलबुद्धिविप्रवैद्यसुभटं  
राजभुवनम् ।

(कू) रलीयायित कीधा जीणं वांभण  
तोषिता विप्रा येन स तोषितविप्रः ।

(के) जगिउ वृक्षु जीणइं क्षेत्रि  
प्ररूढो वृक्षो यस्मिन् क्षेत्रे तत् प्ररूढ-  
वृक्षं क्षेत्रम् ।

(कै) ढूकडी गंगा जीणइं देशि आसना  
गंगा यस्मिन् देशे स आसन्नगंगो देशः ।

(को) सरीषउं नामुं जेहनउं सदशं नाम  
यस्य स सनामा ।

(कौ) सरीषुं गोत्रु जेहनउं सदृशं गोत्रं  
यस्य स सगोत्रः ।

द्वन्द्वसमुच्चयो नाम्नोर्वहूनां वापि यो भवेत् ।

(५) जीणं समासि विहुं नामनउ  
समुच्चयु; अथ घणां नामनउ  
समुच्चयु ते समासु द्वंद्व जाणिवउ ।

नरश्च नारायणश्च—नरनारायणौ । पीठं  
च छत्रं च उपानच्च पीठछत्रोपानहम् ।

ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च वैश्याश्च शूद्राश्च ब्राह्म-  
णक्षत्रियविद्वद्गृहाः ।

—चकारवहुलो द्वंद्वः ।

पूर्वं वाच्यं भवेद्यस्य सोऽव्ययीभाव इष्यते ॥

(६) जीणं समासि अव्ययपदसंयुक्त  
पूर्वपद वाच्यु हुइ सु समासु अव्ययी-  
भाव जाणिवु ।

गामनइ पाषइ अधिकरी प्रवर्तइ  
अधिग्रामं नरः ।

सामीप्ये अव्ययीभावः—

घर कन्हलि वृक्षु उपगृहं वृक्षः ।

वृक्ष कन्हलि घरु उपवृक्षं गृहम् ।

बांभणनउ अभावु ब्राह्मणानामभावः  
अब्राह्मणम् ।

मापीनउ अभावु मक्षिकानामभावो  
निर्मक्षिकम् ।

अनुयोगः पश्चादर्थे—

बांभण पाछलि शिष्य अनुविप्रं शिष्यः ।

राजा पाछलि सेना अनुराजं सेना ।

वर पाछलि गीत गाती स्त्री अनुवरं  
गानगायन्त्यो नार्थः ।

केदारसमीपि सरस्वती अनुकेदारं सर-  
स्वती ।

ये ये वडा ते ते मान लहइं यथावृद्धं  
मानं लभन्ते ।

ये ये लहुडा ते ते यमिवा वइसइं  
यथावृद्धु भोक्तुमुपविशन्ति ।

एयु जेतला बांभण तेतला निर्वाप  
दिइ असौ यावद्विप्रं निर्वापान् ददाति ।

जेतलां खांडां तेतला राजपुत्र याव-  
त्वङ्गं राजपुत्राः ।

जेतला छात्र तेतला पोथां यावच्छात्रं  
पुस्तकानि ।

ब्राह्मणसिउं जाइ सविप्रो याति ।

साकरसिउं दूध पीइं सशर्करं पयः पिबति ।

पुत्रसिउं यमइ सपुत्रो भुङ्के ।

अव्ययीभावे सहशब्दस्य सभावः ।

पारे मध्ये अन्ते योगे द्वितीया—

समुद्रमाहि रत्न नीपजइं मध्येसमुद्रं  
रत्नानि निष्पद्यन्ते ।

नइमाहि माछा हींडइं मध्येनदीं मत्स्या  
विचरन्ति ।

पाणीनइ पारि देवालयु पारेजलं देवा-  
लयानि ।

पाणीनइ छेहि वृक्षु अन्तेजलं वृक्षः ।

तलाव विचि देहरउं अन्तस्तडागं देव-  
गृहम् ।

गाम विचि वडु मध्येग्रामं वटः ।

परिशब्दो वर्जने—

पाटण टाली किहां वसीइ परिपत्तनं  
क्वापि नोष्यते ।

नास्तिक टाली कुण पापीउ परिनास्तिकं  
कोऽपि न पापी ।

आइ यावदर्थे मर्यादाभिविधौ—आ गृहं  
यावद्गृहम्, आ ग्रामं यावद्ग्रामम् ।

एवं अव्ययीभाव समास नपुंसक-  
लिंगीयु जाणिवउ ।

अथ तद्धितप्रत्यया लिख्यन्ते—  
मजीठ राती साडी माञ्जीष्ठा साटिका ।  
हलद्रूआं वडां हारिद्राणि वटकानि । इति  
रागयोगात् अण् ।

मघाभियुक्ता रात्रिः दिनं मासो वा—माघी  
रात्रिः, माघं दिनम्, माघो मासः ।

फागुण मासतणी पूनिम फाल्गुनी  
पूर्णिमा ।

एवं सर्वत्र नक्षत्रयोगे अण् ।

लाष रातउ कांबलउ लाक्षिकः कम्बलः ।  
..... लाक्षिकी साडी ।

इति लाक्षारकार्थे इकण् ।

कागनउं टोलउं वायसं वृन्दम् ।

अंगनानउं वृंदु आंगनं वृन्दम् ।

पुरुषतणुं समवायु पौरुषम् ।

इति समूहे अण् ।

पुरुषात् समूहे एयण्—

पुरुषतणउ समूहु पौरुषेयम् ।

स्त्रीतणउ समूहु स्त्रीणं वृन्दम् ।

स्त्रीनी सभा स्त्रीणी परिषत् ।

स्त्रीनुं धनु स्त्रीणं धनम् ।

पुरुषनउं वृंदु पौखं वृन्दम् ।

स्त्रीपुंसाभ्यां नण्-स्तणौ ।

उष्ट्रा उक्ष राजन्य राजन् वत्स मनुष्याणां

समूहेऽकण्—

जंटनउ समूहु औष्ट्रकम् ।

वृषभनउ समूहु औक्षकम् ।

रायतणउ समूहु राजन्यकं, राजकम् ।

वत्सनु समूहु वात्सकम् ।

मनुष्यनउ समूहु मानुष्यकम् ।

ग्रामजनवन्धुसहायानां समूहे तल्-

ग्रामतणु समूहु ग्रामता ।

जननउ समूहु जनता ।

बंधुनउ समूहु बन्धुता ।

सहायीयांनउ समूहु सहायता ।

गजात् समूहे घटा—

हाथीयांनउ समूहु गजघटा ।

धेनुहस्तिशब्दात् समूहे कण्—

धेनुनउ समूहु धेनुकम् ।

हाथीयांनउ समूहु हास्तिकम् ।

गुणतत्त्वभूतेन्द्रियविषयशब्दास्त्रकरणानां  
समूहे प्राप्नो वक्तव्यः—

गुणानु समूहु गुणप्राप्तः । एवं तत्त्वप्राप्तः,

भूतप्राप्तः, इंद्रियप्राप्तः, विषयप्राप्तः,

शब्दप्राप्तः, अस्त्रप्राप्तः, करणप्राप्तः,

केशशब्दात् समूहे हस्तपक्षपाशा

भवन्ति—

केशनउ समूहु केशहस्तः, केशपक्षः,

केशपाशाः ।

तरुपद्मिनीकुमुदकमलादिभ्यः समूहे

खण्डो वक्तव्यः । समस्तवृक्षतृणगुल्म-

जातिभ्योऽपि—

तरुनउ समूहु तरुखण्डम् । [ एवं ]

पद्मिनीखण्डम्, कुमुदखण्डम्, कमल-

खण्डम् ।

कर्मदूर्वादिर्तृणादिभ्यः काण्डो वक्तव्यः—

कर्मनउ समूहु कर्मकाण्डम् ।

दूर्वानउ समूहु दूर्वाकाण्डम् ।

तृणानु समूहु तृणकाण्डम् ।

आदिग्रहणात्—

अंधारानउ समूहु तमस्काण्डम् ।

गणिकानां समूहे यण्—

गणिकानु समूहु गाणिक्यम् ।

अश्वानां समूहे ईयः—

अश्वानउ समूह अश्वीयः ।

प्रमाणे अर्थे द्वयसद् दघद् मात्रद् प्रत्यया  
भवन्ति—

कडि समा गहूँ कटिदघ्ना गोधूमाः ।

गूडां समी षाड् जानुद्वयसी परिखा ।

कांध समुं पाणी स्कन्धद्वयसं जलं  
स्कन्धमात्रं वा ।

पदन्त्यात् इति अदितिभ्यो यण् ।

दैत्यानां समूहो दैत्यम्, आदित्यानां  
समूह आदित्यम् ।

एयु व्याकरणु जाणइ इत्यर्थे वैयाकरणः ।

सूत्रपुराणन्यायमीमांसेतिहासवेदेभ्यो वेत्त्य-  
धीतेऽर्थे इकण्—

सूत्रु पढइ जाणइ असौ सूत्रिकः । एवं  
पौराणिकः, नैयायिकः, मैमांसिकः,  
ऐतिहासिकः, वैदिकः ।

सुवर्णनां आभरण सौवर्णीन्याभरणानि ।

रूपानां पात्र राजतानि पात्राणि ।

कर्पांसनां वस्त्र कार्पांसानि वस्त्राणि ।

हरिणनउं चांबडउं हारिणं चर्म ।

मृगतणउं मांसु मार्गं मांसम् ।

वाघतणां पद वैयाघ्राणि पदानि ।

तस्येदमर्थेऽण् ।

विकृतिवाचिनः प्रकृतावभिधेयायां हितेऽर्थे  
ईयो यश्च—

अंगाररहिं हितूउं काष्ठ अंगारीयाणि  
काष्ठानि ।

पीला योग्य हितूउं लाकडउं शङ्खव्यं  
दारु ।

वाणरहिं हितूउ शरकड इषव्यः शरः-  
काण्डः ।

कूडीरहिं हितूउं चर्म कुतव्यं चर्म ।

प्रासाद योग्य हितूई ईट प्रासादीया  
इष्टिकाः ।

भाणा योग्य हितूउं कांसउं भाजनीयं  
कांस्यम् ।

गाडा योग्य हितूउं लोहडउं शाकटीयं  
लोहम् ।

करवतरहिं हितूउं चर्भु ... .. ।

विसनररहिं हितूउं काष्ठ कृशानव्यं  
काष्ठम् ।

षांड योग्य हितूई सेलडी खण्डव्या इक्षुः ।  
इति उवर्गान्तशब्दात् यः हितेऽर्थे ।  
अन्यत्र ईयः—

वत्सरहिं हितूउ वत्सीयः ।

घोडारहिं हितूउ अश्वीयः ।

पुरुषु राजानीं परि दीसइ इत्यर्थे उप-  
भाने वति, पुरुषो राजवत् दृश्यते ।

चपलपणउं इत्यर्थे तच्चौ भावे चपलता,  
चपलत्वं, चापल्यम् ।

अभिव्याप्तौ संपद्यतौ च सातिर्वा देये  
त्रा च—

राजा गसु वांभणायतुं करइ राजा  
ग्रामं श्रोत्रियसात्करोति ।

देव आयतुं करइ देवत्राकरोति ।

वरुआयती कन्या संपजइ वरत्रासंप-  
द्यते कन्या ।

क्षेत्रु विमणइ त्रिमणइ [करइ] द्विगुणा-  
करोति त्रिगुणाकरोति क्षेत्रं—इत्यर्थे डाच् ।

दाडिमु नींकोलइ निःकुल्य करोति दाडि-  
मम् ।

मृगु वींधइ सपत्राकरोति मृगम् ।

महिषु वाणि आहणइ निष्पत्राकरोति  
महिषम् ।

कणनउ संचकारु आपइ सत्याकरोति  
कणान् ।

आंषिं ग्रहियि रूपु चाक्षुषं रूपम् ।

कानि सांभलीयि शब्दु श्रावणः शब्दः ।

पाहणि पीस्या सातू दार्षदाः सक्तवः ।

ऊखलि षांञ्या मुग औदूखला मुद्राः ।

घोडे वहीयि रथु आश्रो रथः ।

च्युहु वहीयि गाडुं चातुरं शकटम् ।

चौदासिं दीसइ राक्षसु चातुर्दशं रक्षः ।

इत्यर्थेऽण् ।

गामेचउ ग्राम्यः, ग्रामेयः, ग्रामीणः ।

नदीनउं जलु नादेयं जलम् ।

दक्षिणदिशिउ दक्षिणालः ।

पश्चिमीउ पाश्चिमाक्षः ।

पूर्वीयु पौरस्यः ।

अहांनउ इहलः ।

तिहांनउ तत्रलः ।

किहांनउ कुत्रलः ।

यहांनउ यत्रलः ।

..... पार्वतीयानि जलानि

वर्षाकालनउ मेघु प्रावृषेण्यो मेघः ।

शरत्कालनउ तिडकउ शारदिक आतपः ।

हैमंतनु वायु हैमनः पवनः ।

सांझूणउं सार्थतनम् ।

घणदीहुं चिरन्तनम् ।

घणे दिहाडे आव्यु चिरेणागतः ।

थोडे दिहाडे आविउ अचिरेणागतः ।

वडी चार लगाडइ विलम्बते ।

साहइ अवलम्बते ।

म दीधु, म लीधु, म कीधु आक्षेपना-

योगे शतृडानशौ ।

मा योगेऽन्वाक्रोशे इति सूत्रम्, मा कुर्वन्

मा कुर्वाणः, मा ददत्, मा ददानः ।

जु करत, जु लेत, जु देत इत्यर्थे क्रिया-  
तिपत्तिः ।

यद्-यदि-चेद्योगे क्रियातिपत्तिः ।

पाते वा सप्तमी ।

जु किमइ हुं धरि जात, तु एयु मइं  
गामि न मोकलत यदि अहं गृहं  
यायां तदयं मां ग्रामं न प्रस्थापयेत् ।

जु किमइ एयु गामि न जात, [तु]  
चोरु बलद न लयेत यदि असौ ग्रामं  
न गच्छेत् ततश्चौरो बलीवर्दान्न हरेत् ।

जे किमइ एयु [गहुं?] लेत, तु द्राम  
न पडत असौ गोधूमांश्वेद् गृह्णीयात्  
द्राम्मास्ततो न ।

अतीते स्मृत्युक्तौ अभिज्ञा भविष्यन्ती-

जाण अहो पुरुष आपणि लहुडा थ्या  
[.....] वच्च पहिरता स्मरसि  
पुरुष वयं लघुत्वे बहुमूल्यानि वासांसि  
परिधास्यामः ।

पुरअहे दीहाडे मिष्टान्न यमता

[....] मिष्टान्नं भोक्ष्यामः ।

ननु शब्दयोगे पृष्ठप्रतिवचनोत्तरे अद्यतनी  
पूर्वदेः उत्तरपदे वर्तमानाभावात् । हस्तलेख्यं  
अकार्षीत् । ननु करोमि भोः । कथं ब्राह्मणं  
शूद्रान्नं भोजयेत् । अन्यायमेव । क्रियासमभिहारे  
सर्वत्र हि-स्वौ भवतः ।

ब्राह्मण यमिसिं यमिसिं ब्राह्मणा मुंस्व मुंस्व ।  
तमिह कहउ कहउ आपणी वात यूयं  
कथय कथय निजां वार्त्ताम् ।

अमिह गामि जास्युं जास्युं वयं ग्रामं  
गच्छ गच्छ (?) ।

कालपुरुषत्रयेऽप्येवम् । क्रियासमुच्चयेऽ-  
प्येवम् । नाम्न आत्मेच्छायायां यन् काम्य च  
गृहीते । गृहकाम्यति ।

दासी वहवत् मानइ वधूयति दासीं नरः ।  
**एयु लहुडउ** लघीयान् लघिष्ठः । इत्यर्थे  
 गुणादिष्टे गुण्यसौ वा पृथ्वादिभ्यो भावेऽर्थे  
 इमनु वा ।  
**एयु अति पुहुलउ** असौ प्रथीयान्, प्रथिष्ठः,  
 प्रथिमा ।  
**एयु अति कूंअलउ** असौ मदीयान्, मदिष्ठः,  
 मदिमा । एवं लघिमा अणिमा महिमा वरिमा  
 गरिमा द्रदिमा कालिमा मलिनिमा ।  
 †इष्ट ईयत् ईमनु वा प्रत्यये प्रशस्यस्य श्रो<sup>१</sup>  
 भवति । वृद्धस्य च ज्य<sup>२</sup> । अन्तिकवाटयोर्नेद-  
 साधौ<sup>३</sup> । युवाल्पयोः कन्य[धौ]<sup>४</sup> । स्थूलदूरयुवक्षि-  
 प्रक्षुद्राणां अन्तस्थादर्लोपो गुणश्च<sup>५</sup> । बहोर्लोपि भू  
 च<sup>६</sup> । प्रियस्थिरस्फिरोरुगुरुवहुलत्प्रदीर्घह्रस्ववृद्ध-  
 वृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्गबंहत्रपद्मघह्रस्वर्षवृन्दाः ।  
 तद्ददिष्टेमेयस्य बहुलं प्रस्ययादिलोपश्च ।  
**एयु अति प्रशस्यु** असौ श्रेयान्, श्रेष्ठः,  
 श्रेमा ।  
**एयु अति वडउ** असौ ज्यायान्, ज्येष्ठः,  
 ज्यायिमा ।  
**एयु अति हूकडउ** असौ नेदीयान्,  
 नेदिष्ठः, नेदिमा ।  
**एउ अति गाढउ** साधीयान्, साधिष्ठः,  
 साधिमा ।  
**एउ अति लहुडउ अति थोडउ** असौ  
 कनीयान्, कनिष्ठः, कनिमा ।  
**एयु अति मोटउ** असौ स्थवीयान्,  
 स्थविष्ठः, स्थविमा ।

**एयु अति वेगलउ** असौ दवीयान्,  
 दविष्ठः, दविमा ।  
**एयु अति लहुडउ** असौ यवीयान्, यविष्ठः,  
 यविमा ।  
**एयु अति वहिलउ** असौ क्षेपीयान्, क्षेपिष्ठः,  
 क्षेपिमा ।  
**एयु अति भ्रुडु** असौ क्षोदियान्, क्षोदिष्ठः,  
 क्षोदिमा ।  
**एयु अति घणउ** असौ भूयान्, भूयिष्ठः,  
 भूयिमा ।  
**एयु अति प्रियु प्रेयनुं हुयिवुं** असौ  
 प्रेयान्, [प्रेष्ठः], प्रेमा ।  
**एयु अति स्थिरु** असौ स्त्रेयान्, स्त्रेष्ठः,  
 स्त्रेमा ।  
**एयु [अति] गरूउ** वरीयान्, वरिष्ठः, व  
 रिमा । गरीयान्, गरीष्ठः, गरिमा ।  
**एयु अति बहुलु** असौ बंधीयान्, बंहिष्ठः,  
 [ बंहिमा ] ।  
**एयु अति लज्जालु** असौ त्रपीयान्, त्रपिष्ठः,  
 [ त्रपिमा ] ।  
**एयु अति दीर्घु दीर्घनउं हुयिवउं** असौ  
 द्राधीयान्, द्राधिष्ठः, द्राधिमा ।  
**एयु ह्रस्वु** असौ हसीयान्, हसिष्ठः, हसिमा ।  
**अति वृद्धु** वर्षीयान्, वर्षिष्ठः ।  
 एकस्वराणामदन्तानां च आपागमः ।  
**एयु प्रशस्यु कहइ..... ।**  
 ..... असौ श्रापयति ।

† एतद्वाक्यसंवादकानि पाणिनिव्याकरण-  
 गतान्यमूनि सूत्राणि—

१ प्रशस्यस्य श्रः । ५-३-६०.

२ वृद्धस्य च । ५-३-६२.

३ ५-३-६३.

४ युवाल्पयोः कन्यन्तरस्यां ५-३-६४.

५ स्थूलदूरयुवह्रस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं  
 पूर्वस्य च गुणः । ६-४-१५६.

६ बहोर्लोपो भू च बहोः । ६-४-१५८.

७ प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धत्प्रदीर्घवृन्दा-  
 रकाणां प्रस्थस्फवर्गबंहिगर्वीषित्रपद्मघिवृन्दाः,

६-४-१५७.



एयु वडु कहइ असौ स्थापयति ।  
 एयु ठूकडउ कहइ असौ नेदयति ।  
 एयु गाढउ कहइ असौ साधयति ।  
 एयु तरुणउ कहइ असौ यवयति  
 कनयति ।  
 अतिहिं हुइ बोभूयते, बोभूवीति, बोभोति ।  
 अतिहिं जाइ, वली वली जाइ जङ्ग-  
 म्यते, जङ्गमीति, जङ्गन्ति ।  
 अतिहिं ज्वलइ जाज्वल्यते, जाज्वलीति,  
 जाज्वलति ।  
 अतिहिं जाहइ जाहस्यते, जाहसीति,  
 जाहस्ति ।  
 अतिहिं रहइ तेष्ठीयते, तास्थायते ।  
 अतिहिं देषइं दरीदश्यते, दरीदशीति,  
 दरीदष्टि ।  
 रीस्थाने लुकि रिरौ वा दरिदष्टि, दर्दष्टि ।  
 अतिहिं नाचइ नरीनृत्यते, नरीनृतीति,  
 नरीनर्त्ति, ननीर्त्ति ।  
 अतिहिं वरसइ धरीवृषीति, धरीवृष्टि,  
 वरिषष्टि, धर्वष्टि ।  
 अतिहिं पूछइ परीपृच्छयते, परीपृच्छीति  
 परिपष्टि, पर्पष्टि ।  
 अतिहिं जाइ सरीस्रियते, सरीस्रीति,  
 सरीसर्त्ति, ससर्त्ति ।  
 अतिहिं मरइ मरीम्रियते, मरीमरीति,  
 मरीमर्त्ति, ममीर्त्ति ।  
 अतिहिं लिइ नेनीयते, नेनेति ।  
 अतिहिं पचइ पापच्यते, पापचीति,  
 पापक्ति ।  
 अतिहिं पढइ पापठ्यते, पापठीति, पापठ्ठि ।  
 अतिहिं भणइ बंभण्यते, बंभणीति,  
 बंभण्टि ।

अतिहिं प्रेरइ चेश्चिप्यते, चेश्चिपीति,  
 चेश्चिप्ति ।  
 अतिहिं लिखइ वावश्यते, वावशीति,  
 वावष्टि ।  
 अतिहिं मूकइ मोमुच्यते, मोमुचीति,  
 मोमोक्ति ।  
 अतिहिं सींचइ सेसिच्यते, सेसिचीति,  
 सेसेक्ति ।  
 अतिहिं छांडइ ताल्यज्यते, ताल्यजीति,  
 ताल्यक्ति ।  
 अतिहिं दहइ दन्दह्यते, दन्दहीति,  
 दन्दग्धि ।  
 अतिहिं जपइ जङ्गप्यते, जङ्गपीति,  
 जङ्गप्ति ।  
 अतिहिं दोहइ दोदुह्यते, दोदुहीति,  
 दोदोग्धि ।  
 अतिहिं गात्रु नामइ जङ्गभ्यते, जङ्गभीति,  
 जङ्गब्धि ।  
 अतिहिं रमइ रंरम्यते, रंरमीति, रंरन्ति ।  
 अतिहिं नमइ नंनम्यते, नंनमीति, नंनन्ति ।  
 अतिहिं तरइ तेतीर्यते, तेतरीति, तेतर्त्ति ।  
 अतिहिं षिसइ शनीश्रस्यते, शनीश्रसीति,  
 शनीश्रस्ति ।  
 अतिहिं पडइ पनीपल्यते, पनीपतीति,  
 पनीपत्ति ।  
 अतिहिं लाइ पनीपद्यते, पनीपदीति,  
 पनीपत्ति ।  
 अतीहिं सूकइ चनीस्कद्यते, चनीस्कन्दीति,  
 चनीस्कन्ति ।  
 अतिहिं चूटइ, विणइ, चिणइ चेकीयते,  
 चेकीयाति, चेकेति ।

हुइवा वांछइ बुभूषति ।

रहिवा थाकिवा थाइवा [ वांछइ ]  
तिष्ठासति ।

जाइवा वांछइ जिगमिषति ।

देषिवा ,, दिदृक्षति ।

बलिवा ,, जिञ्जलिषति ।

हसिवा ,, जिहसिषति ।

लेवा ,, निनीषति ।

पचिवा ,, पिपक्षति ।

पढिवा ,, पिपठिषति ।

लाषिवा ,, चिक्षिप्सति ।

भणिवा ,, विभणिषति ।

पइसिवा ,, प्रविषिक्षति ।

मेल्हिवा ,, मुमुक्षति ।

सीचिवा ,, सिसिक्षति ।

छांडिवा ,, तिलक्षति ।

दहिवा ,, दिधक्षति ।

तरिवा ,, तितीर्षति ।

सांभलिवा ,, शुश्रूषति ।

चालिवा ,, चिचलिषति ।

फिरिवा ,, विभ्रमिषति ।

लिखिवा ,, लिखिषति ।

चरिवा ,, चुचूर्षति ।

पूछिवा ,, पिप्रच्छिषति ।

धरिवा ,, दिधरिषति ।

रमिवा ,, रिरंसति ।

मारिवा ,, जिघांसति ।

नाहिवा ,, सिष्णासति ।

कहिवा ,, चिख्यासति ।

बोलिवा ,, विवक्षति ।

उ० र० ११

वायिवा वांछइ विवासति ।

आश्रयिवा ,, आशिशीषति ।

सूयिवा ,, शिशयिषति ।

दोहिवा ,, दुधुक्षति ।

चाटिवा ,, लिलिक्षति ।

वीहिवा ,, विभीषति ।

लाजिवा ,, जिह्वीषति ।

जूझिवा ,, युयुत्सति ।

सुकिवा ,, शुशुक्षति ।

नमिवा ,, निनंसति ।

खाणिवा ,, चिखास(चिखनिष)ति ? ।

सूंघिवा ,, जिघ्रासति ।

पीवा ,, पिपासति ।

जीपिवा ,, जिगीषति ।

जीविवा ,, जिजीविषति ।

मरिवा ,, मुमूर्षति ।

देवा ,, दित्सति ।

धरिवा ,, धिर्त्सति ।

आरंभिवा ,, आरिप्सति ।

लहिवा ,, लिप्सति ।

सेकिवा ,, सिसिक्षति ।

पडिवा ,, पिपतिषति ।

पामिवा ,, ईप्सति ।

फाडिवा ,, विभिर्त्सति ।

जमिवा ,, बुभुक्षति ।

लेवा ,, जिघृक्षति ।

पूजिवा ,, अर्धचिषति ।

निकोलिवा वांछइ निश्रुकोषिषति ।

रोयिवा वांछइ रुरुदिषति ।  
 जाणिवा ,, विविदिषति ।  
 चोरिवा ,, मुमुषिषति ।  
 चिणिवा ,, विचीषति ।  
 चूटिवा ,, " ।  
 बीणिवा ,, " ।  
 तुणिवा वांछइ छद्वषति ।  
 पवित्रु करवा वांछइ पुप्रषति ।  
 स्तविवा वांछइ तुष्ट्रषति ।  
 सारिवा वांछइ सुस्पर्षति ।

करिवा वांछइ चिकीर्षति, चिकीर्षितवान्,  
 चिकीर्षन्, चिकीर्षमाणः, चिकीर्षिता,  
 चिकीर्षितुम्, चिकीर्षणाय, चिकीर्षितु-  
 कामः, चिकीर्षितुमनाः, चिकीर्षिता,  
 चिकीर्षकः, चिकीर्षितव्यम्, चिकीर्ष-  
 णीयम्, चिकीर्ष्यम् ।

अतिहि होउ बोभूयितः, बोभूयितवान्,  
 बोभूयमानम्, बोभूयते, बोभूयमानः,  
 बोभूयिता, बोभूयितुम्, बोभूयितुकामः,  
 बोभूयितुमनाः, बोभूयिषति, बोभूयित-  
 व्यम् । एवं सर्वत्र ।

॥ अविज्ञातविद्वत्संश्रुहीतानि औक्तिकपदानि समाप्तानि ॥

॥ शुभं भवतु ॥

## उत्तरत्वाकरादि अन्तर्गत शब्दानुक्रम ।



अ	अडसठि २९, २	अतिहिं लिइ ८०, १
अउ १५, २. ५५, २	अढार २८, १	अतिहिं लिखइ ८०, २
अउगनाइ ४२, १	अढारइ १८, १	अतिहिं वरसइ ८०, १
अउज १०, २	अढी २७, २	अतिहिं षिसइ ८०, २
अउधारिखुं ५३, २	अणगुक ६७, २	अतिहिं सिंचइ ८०, २
अउलवइ ४३, १	अणहारउ २४, १	अतिहिं सूकइ ८०, २
अउंगउ मुगउ ५६, २	अणाचइ ४८, २	अतिहिं हसइ ८०, १
अऊठ ३२, १	अणाव्यल ५०, २	अतिहिं हुइ ८०, १
अखत्र १६, १	अति ७९, १. ७९, २	अथाह ११, २
अखाडउ १६, २	अतिविस १९, २	अहेसउ १७, २
अखोड २२, १	अति वृद्धू ७९, २	अधिकरी ७५, १
अगर ९, १	अतिहि होउ ८२, २	अधूरउ २१, २
अगेवाण ३२, १	अतिहिं गात्रु नामइ ८०, २	अनाड २२, १
अगेवाणू (प्र०) ६६, २	अतिहिं चूटइ, } ८०, २	अनुमोदितुं ५४, २
अग्गिम की ३१, १	विणइ, च्चिणइ } ८०, २	अनेकवार ६३, १
अग्गेवाणु ६६, २	अतिहिं छांडइ ८०, २	अनेतइ २७, १
अग्यारसि ३१, २	अतिहिं जपइ ८०, २	अनेति ६३, १
अग्रेतनु ५६, १	अतिहिं जाइ, चली } ८०, १	अनेथि ५७, १. ६३, २
अचरिज ६, २	चली जाइ }	अनेरिसिउ ५५, २
अछइ ७४, २	अतिहिं ज्वलइ ८०, १	अनेरि परि ५६, २
अछतउ ६०, २	अतिहिं तरइ ८०, २	अनेरीवार २७, १
अछिवउं ६२, १	अतिहिं दहइ ८०, २	अनेरुं ५६, १
अछिवा ६१, २	अतिहिं देषइ ८०, १	अनेसउ २७, २. ६४, १
अछीउं ६०, २	अतिहिं दोहइ ८०, २	अन्नि ७२, १
अछूतउ १५, २	अतिहिं नमइ ८०, २	अन्यसरीपउ (प्र०) ६४, २
अजी ३१, २. ५६, १	अतिहिं नाचइ ८०, १	अन्धेरीवार ५५, २
अट्टावीस २८, २	अतिहिं पचइ ८०, १	अपछर ६, १
अठतालीस २९, १	अतिहिं पडइ ८०, २	अपराधइ ४८, २
अठत्रीस २८, २	अतिहिं पढइ ८०, १	अपराधितुं ५४, १
अठहत्तरि २९, २	अतिहिं प्रेरइ ८०, २	अपराध्यउ ५०, १
अठाणू ३०, १	अतिहिं भणइ ८०, १	अभाउ ७५, १
अठार ५७, २	अतिहिं मरइ ८०, १	अभोखउ २६, १
अठारमउ ३०, २	अतिहिं मूकइ ८०, २	अभोखणुं ६९, १
अठावन २९, १	अतिहिं रमइ ८०, २	अभ्यसइ ४१, २
अठाही ३३, २	अतिहिं रहइ ८०, १	अमावस ६, १
अठ्यासी २९, २	अतिहिं लाइ ८०, २	अमावसि ३१, २
अडइ ४३, २. ७०, १		अम्ह केरउ १५, २
अडवडइ ४२, २		अम्हनइ ५५, १

અમ્હસરીષટ ૨૭, ૨. ૬૪, ૩	અસવાર ૧, ૨	આખડંડલી ૬૧, ૧
અમ્હસરીષટ ૬૪, ૧	અસી ૨૧, ૨	આખલુ ૧૭, ૧
અમ્હારું ૬૩, ૨	અસુણિડ ૬૮, ૧	આખા ૨૩, ૨
અમ્હારું ૨૭, ૨. ૫૫, ૧	અસુદ્ધ ૨૪, ૧	આખાત્રીજ ૧૮, ૨
અમ્હારું ( પ્ર૦ ) ૬૩, ૩	અસોઈ ૬, ૨	આખુડદ્ ૪૩, ૨
અમ્હાસિત ૫૫, ૨	અહાંનડ ૭૮, ૧	આખુડિડ ૬૮, ૨
અમ્હિ ૫૫, ૧ ૭૮, ૨	અહિનાણિ ૭૩, ૨	આગદ્ ૧૫, ૧. ૧૫, ૨. ૫૬, ૧
અમ્હે ૩૫, ૨. ૫૫, ૧	અહિનાણુ ૬૧, ૨	આગર ૧૧, ૨
અરચ્છ ૩૭, ૨	અહિવા ૬૪, ૨	આગરડ ૧૧, ૧
અરડકમલુ ૬૧, ૨	અહીણું ૨૬, ૩	આગલ ૧૧, ૧. ૩૧, ૨
અરદ્દુસડ ૧૧, ૨	અદુણ ૨૭, ૧. ૨૭, ૨	આગલિ ( પ્ર૦ ) ૬૪, ૧
અરણદ્ ૫૭, ૧. ૬૭, ૨	અદુણ ૫૫, ૨	આગાસ ૬, ૧
અરત ૬૬, ૨	અહો ૭૮, ૨	આગિલુડ ( પ્ર૦ ) ૬૪, ૧
અરતપરત ૬૬, ૨	અહોરાત ૬, ૧	આગિલું ૫૫, ૧. ૬૪, ૧
અરતપરત ૨૬, ૨. ૬૬, ૨	અંકોડડ ૧૭, ૧	આગી ૧૮, ૨
અરથદ્ ૩૭, ૨	અંકોલ ૨૩, ૨	આઘડ ૫૬, ૧
અરહટ ૨૦, ૧	અંગ ૩૫, ૧	આચમદ્ ૪૩, ૧
અરહદુ ૬૮, ૨	અંગન ૭૬, ૧	આચરદ્ ૭૦, ૧
અરહુ ૬૪, ૧	અંગરચ્છી ૧, ૨	આચારિજ ૫, ૧
અરિમ ૬૨, ૨	અંગાર ૭૭, ૧	આચાર્યાસ ૩૪, ૧
અરિહંત ૫, ૧. ૧૫, ૧	અંગારસગડી ૧૧, ૧	આર્ચિલદ્દ ૪૦, ૨
અરીઠડ ૧૧, ૨	અંગીઠડ ૨૬, ૨	આછડ ૧૧, ૨
અરીમ ૨૭, ૧	અંગૂઠડ ૮, ૨	આછોટદ્ ૪૦, ૧
અરીમ ( પ્ર૦ ) ૬૨, ૨	અંતેડર ૧, ૨	આજ ૨૭, ૧. ૫૫, ૨. ૬૨, ૨
અર્થિ ૭૨, ૨	અંતેડરી ૧૧, ૧	આજિકાલ્હિ ૨૦, ૨
અલજુ ૫૬, ૧	અંધમૂંધપણદ્ ૨૬, ૧	આજુ ૬૨, ૨
અલતડ ૧, ૨	અંધારડ ૬, ૧	આજુ લગદ્ ૫૬, ૧
અલસિવેલ ૨૧, ૧	અંધારાનડ ૭૬, ૨	આજૂણડ ૨૭, ૧
અલસી ૩૪, ૧	અંબોડડ ૬૮, ૧	આજૂણડં ૬૨, ૨
અલંકરદ્ ૪૮, ૨	આ	આજૂતું ૫૬, ૧
અલંકરિડ ૫૧, ૧	આડવડ ૧૪, ૨	આજૂનું ( પ્ર૦ ) ૬૨, ૨
અલંકરિલું ૫૪, ૨	આક ૧૧, ૧	આટડ ૨૪, ૧
અવતરદ્ ૪૮, ૨	આકર્ષદ્ ૪૭, ૨	આઠ ૨૮, ૧. ૫૭, ૨
અવતરિલું ૫૪, ૧	આકલદ્ ૪૧, ૧	આઠડ ૨૭, ૨
અવધારિડ ૫૦, ૧	આકલિડ ૫૧, ૨	આઠમડ ૩૦, ૨. ૫૭, ૧
અવહથદ્ ૪૨, ૨	આક્રમદ્ ૩૧, ૧. ૪૮, ૧	આઠમિ ૩૧, ૨
અવાજ ૬, ૨	આક્રમિડ ૫, ૨	આડડ ૫૬, ૧. ૬૪, ૧
અવાઢુડ ૬૮, ૨	આક્રદ્દ ૩૮, ૧	આડળ ૩૨, ૧
અશ્વ ૭૭, ૧	આક્રુસિડ ૫૧, ૧	આડાવંગ ૬૧, ૨
અસલેસ ૫, ૨	આખદ્ ૪૧, ૨	આહિ ૧૪, ૧
	આખડ ૨૩, ૨	આહુ ( પ્ર૦ ) ૬૪, ૧

आढउ ३४, २  
 आढवइ ४०, २  
 आण ६, २  
 आणइ ४८, २  
 आणतउ ६०, १  
 आणतु (प्र०) ६०, २  
 आपनहार (प्र०) ६१, ३  
 आपनहार ६१, २  
 आणंद ३५, २  
 आणिवउं ६२, १  
 आणिवा ६१, १  
 आणिवुं ५४, १  
 आणिवूं (प्र०) ६२, १  
 आणी ६१, १. ७३, १  
 आणीतउं ६०, २  
 आणीतूं (प्र०) ६०, ४  
 आण्यउ ५०, २  
 आण्यउं ६०, १  
 आण्युं (प्र०) ६०, १  
 आथमइ ४१, २. ४६, १  
 आथम्यउ ५०, २  
 आथर ९, २  
 आदउ ३३, २  
 आदरइ ३७, १  
 आदरा ५, २  
 आदिशुं ५३, २  
 आदिस्यउ ५०, २  
 आद्रहणु ६९, २  
 आधरण ३३, १  
 आधासीसी २६, १  
 आधु ३१, २  
 आपइ १८, २. ३८, २. ४७, २  
 आपइणी ५६, १  
 आपइइ ३८, १. ४८, १  
 आपडिउ ५२, १  
 आपणउ ८, १  
 आपणी ७८, २  
 आपणी घायउ ७, २  
 आपणुं ५५, १  
 आपिउ ५२, १  
 आपिउं ५४, १

आफलइ ३९, १  
 आवू २३, २  
 आभउं ७३, २  
 आभरण ७७, १  
 आभिडइ ४०, २. ४४. १  
 आभूयानुं ६७, १  
 आमलवेतस ७, १  
 आमलसारउ २२, १  
 आयउ १८, २  
 आयती ७७, २  
 आयतुं ७७, २  
 आयसइ ४३, २  
 आयसिइ ७०, २  
 आर १०, २  
 आरति २३ १  
 आरती १६, १. ३३, १. ६८, २  
 आरतीयासरु ६८, १  
 आरंभइ ४१, १  
 आरंभिवा वांछइ ८१, २  
 आराधइ ३८, २  
 [ आराध्यउ ] ५१, २  
 आरीसउ ९, २  
 आरुह्यउ ४९, २  
 आरोपइ ४६, १  
 आरोपिवउं ५२, २  
 आरोप्यउ ४९, २  
 आरोहइ ४६, १  
 आरोहिवउं ५२, २  
 आलउ १५, १  
 आलजाल १९, १  
 आलस ६, २  
 आलाणथंभ ३४, २  
 आलावउ १७, २  
 आलिगइ ४२, २  
 आलीगारउ २६, २  
 आलूजइ ४२, २  
 आलोचइ ४६, २  
 आलोच्यउ ५०, १  
 आवइ ४१, २. ४६, २  
 आवणहार (प्र०) ६१, ३  
 आवणहार ६१, २

आवतउ ६०, १  
 आवतु (प्र०) ६०, २  
 आविउ ७८, १  
 आविवा ६१, १  
 आविवुं ६२, १  
 आविवूं (प्र०) ६२, १  
 आवी ६१, १  
 आवीतउं ६०, २  
 आवीतूं (प्र०) ६०, ४  
 आव्यउ ४९, २  
 आव्यउं ६०, १  
 आव्यु ७८, १  
 आव्युं (प्र०) ६०, १  
 आयुडइ ७०, २  
 आशंक ६, २  
 आश्रइ ४६, १  
 आश्रयिवा ८१, २  
 आश्रेषिउ ५२, १  
 आसाढ ६, १  
 आसू ६, १  
 आस्वादिक् ५२, २  
 आस्वासइ ४७, १  
 आहणइ ७७, २  
 आहर जाहर २६, १. ६९, १  
 आहार १८, २  
 आहीर १०, १  
 आहेडउ १०, २  
 आहेडी १०, २  
 आंक २४, १  
 आंकुस १३, १  
 आंखि ८, १  
 आंगडणु ६७, १  
 आंगणउ ३२, १  
 आंगुली ८, २  
 आंजइ ३७, २  
 आंउ ८, २  
 आंत्र ८, २  
 आंबइरा १८, २  
 आंबउ १२, १  
 आंवा १९, १  
 आंवाफाड २१, २

आंवासाहि ७३, २  
 आंविल ३१, १  
 आंविली १९, २ ६९, १  
 आंषिं ग्रहियि रूषु ७८, १  
 आंसू ६, २

इ

इ ५५, १. ५६, १  
 इकवीस २८, २  
 इकाणू ३०, १  
 इकावन २९, १  
 इक्यासी २९, २  
 इगतालीस २९, १  
 इगसठि २९, १  
 इगहत्तरि २९, २  
 इग्यु  
 इगुणचालीस २८, २  
 इगुणत्रीस २८, २  
 इगुणपचास २९, १  
 इगुणवीस २८, १  
 इगुणसठि २९, १  
 इगुणहत्तरि २९, २  
 इगुणीसमड ३०, १  
 इगुण्यासी २९, २  
 इग्यार ५७, २  
 इग्यारइ २८, १  
 इग्यारमड ३०, २  
 इग्यारमी ३१, १  
 इणि परि ५५, २. ६२, ४  
 इम ५५, २  
 इमै ६३, २  
 इसड २७. २. ६४, १  
 इसुं ६३, २  
 इस्यउं (प्र०) ६३, ४  
 इहां २७, १  
 इहांतणू ५५, १

ई

ईट्ट ७७, २  
 ईणपरि ६२, २  
 ईणं लाजीइ ७१, १  
 ईणं हु व्यारीड ७३, १

ईधण १०, १  
 ईमहइ (प्र०) ६३, ४  
 ईस २३, १  
 ईसड (प्र०) ६४, २  
 ईहां ६३, १. ६३, २  
 ईडड ३१, १

उ

उइलड ३२, १  
 उइसइ ४४, १  
 उकरडी (प्र०) ६४, ४  
 उखुडइ ४०, २  
 उखेलइ ४३, २  
 उगडमुगड ६४, २  
 उगणीस ५७, २  
 उगमुगड ३१, १  
 उग्रहणी २१, २  
 उघड दूघडड २६, २  
 उच्छव १४, २  
 उच्छाहिवउं ५४, २  
 उच्छुकपणड ६, २  
 उच्छंग ८, २  
 उछाह ३४, १  
 उजालइ ४२, १  
 उठिड ४९, २  
 उतावलड १८, २  
 उत्तर ६, १  
 उत्तराणउं (प्र०) ६४, ४  
 उदेगइ ४३, २  
 उदेगामणड ३२, १  
 उदेगामणुं ५७, १  
 उदेही १३, १  
 उद्यमइ ४९, १  
 उधार १०, १  
 उध्रकइ ४१, २  
 उन्मूलइ ४६, १  
 उन्मूल्यड ४९, २  
 उन्हालड २०, १  
 उपकरइ ४७, २  
 उपगरइ ४४, १  
 उपचईइ ४९, २

उपराठड ५६, १  
 उपरि २१, १. २४, २  
 उपरि ठाई २६, २  
 उपरियामणु ६४, २  
 उपवासी ६९, १  
 उपवासीड २६, १  
 उपाध्यायांस ३४, १  
 उपारजइ ३७, २  
 उमाड १२, १  
 उरलिउं (प्र०) ६४, ४  
 उरहु (प्र०) ६४, ३  
 उलपि(खि)वुं ५३, १  
 उलूरइ ४०, २  
 उल्लावइ ४१, २  
 उल्लीचइ ४१, २  
 उवाणड २१, १  
 उवेखइ ४१, २  
 उसीयालु २६, १  
 उसीसड ९, २  
 उसूर ३१, २  
 उहरउं ५६, १  
 उंघइ ४०, १  
 उंचउं ५६, १  
 उंचानीचुं ५६, २  
 उंजइ ४३, १  
 उंवर १२, १  
 ऊकइ (प्र०) २०, २  
 ऊकदइ ४३, २  
 ऊकरडड २२, १  
 ऊकरडी २०, १. ६४, २  
 ऊकुडड २०, २  
 ऊखलड ११, १  
 ऊखलि पांड्या ७८, १  
 ऊखेडइ ७०, १  
 ऊगइ ४१, २  
 ऊगतइ ४३, १  
 ऊगिड, ५०, २  
 ऊगिड वृक्षु ७४, २  
 ऊघडइ ४३, १  
 ऊघडदूघडड ६७, २

ऊघाडइ ४३, १  
ऊघाडिवउ २१, २  
ऊचाटइ ४८, २  
ऊचाटिउ ५१, १  
ऊछालियउ १९, २  
ऊछलइ ४१, १  
ऊछालइ ४१, १. ४६, १  
ऊछीनउ २१, १  
ऊजयणी १०, २  
ऊजलउ १४, २  
ऊजाइ ४२, २  
ऊजाणी २६, २  
ऊटंइ ७०, २  
ऊटाटीयु ६९, २  
ऊटइ ४३, १. ४६, १. ७०, १.  
ऊटाडइ ४६, १  
ऊठिवउ ३४, २  
ऊड २१, २  
ऊडइ ३७, १. ४६, १. ७०, १  
ऊडिउ ५१, २  
ऊतर ६, २  
ऊतरिण्यु ६४, २  
ऊतन्यउ ४९, २  
ऊतारणउ १९, १  
उत्तर ७४, १  
ऊदलइ ४०, २  
ऊदेगामणउ ६८, १  
ऊदेही ६९, २  
ऊधंधलु २६, १  
ऊधारइ १६, १  
ऊधंधलु ६४, २  
ऊधंधलु (प्र०) ६४, ३  
ऊन २३, १  
ऊपजइ ३८, २. ४९ १  
ऊपजावइ ४९, १  
ऊपजाविउ ५१, २  
ऊपडइ ३८, १  
[ऊपडिवु] ५२, २  
ऊपणइ ४३, १. ७०, १  
[ऊपनउ] ५२, १

ऊपरि १५, १. ५६, १, ६४, १  
ऊपरि ऊपरि ७३, २  
ऊपरिलुं ५६, १  
ऊपरुं ५६, १  
उपार्जइ ७३, १  
ऊफिरीयामणू (प्र०) ६४, ४  
ऊमउ १९, १  
ऊमटइ ४२, १  
ऊलडइ ४१, १  
ऊललइ ४६, १  
ऊललियइ ४१, १  
ऊलसइ ४९, १  
ऊलालइ ४६, १  
ऊलिपउ ६९, १  
ऊवट ३३, १  
ऊवटइ ४७, २  
ऊवटणउ ३४, २  
ऊवलतउ २५, २  
ऊवेढइ ४३, १  
ऊवेषि(खि)उ ५२, २  
ऊसलसीधुं (प्र०) ६६, ३  
ऊससइ ३९, २  
ऊसीसउं ६७, १  
ऊहाडउ १३, २  
ऊंचउ १९, २  
ऊंट १३, २  
ऊंटनउ ७६, १  
ऊंडहणुं ६९, २  
ऊंदिरउ १३, २  
ए  
ए ५६, १. ७१, २  
एउ अति गाढउ ७९, १  
एउ अति लहुडउ }  
अति थोडउ } ७९, १  
एक २७, २. ५७, १  
एकउडउ ६८, २  
एकत्रीस २८, २  
एकपरि २७, २. ५६, २.  
६३, १  
एकलउ १५, २. ७३, १

एकवार २७, १. ६३, १  
एकवीसमउ ३०, १  
एकासणउ ३१, १  
एकु ७३, २  
एकोत्तर सउ ३०, १  
एतलउं ६३, २  
एतला ऊपरुं ५६, १  
एतलुं २७, २. ५५, २  
एतलूं (प्र०) ६३, ३  
एमात्र के ३१, १  
एयु ७८, २  
एयु अति कूंअलउ ७९, २  
एयु अति धुद्रु ७९, २  
एयु [अति] गरूउ ७९, २  
एयु अति घणउ ७९, २  
एयु अति दूकडउ ७९, १  
एयु अति दीर्घु ७९, २  
एयु अति पुहुलउ ७९, १  
एयु अति प्रशस्यु ७९, १  
एयु अति प्रियु ७९, २  
एयु अति बहुलु ७९, २  
एयु अति मोटउ ७९, १  
एयु अति लज्जालु ७९, २  
एयु अति लहुडउ ७९, २  
एयु अति वडउ ७९, १  
एयु अति वहिलउ ७९, २  
एयु अति वेगलउ ७९, २  
एयु अति स्थिर ७९, २  
एयु अन्नि ध्रायु ७२, १  
एयु एकलउ ७३, १  
एयु गाढउ कहइ ८०, १  
एयु जीवइ ७१, १  
एयु जेतला ७५, २  
एयु दूकडउ ८०, १  
एयु तरुणउ ८०, १  
एयु तेलु ७३, १  
एयु दुःखि द्रव्यु ७३, १  
एयु देव तणइ ७२, २  
एयु देवदत्तु ७१, २  
एयु दोरी सापु ७३, १



एयु पोष्यवर्गरहिं ७२, १  
 एयु प्रधानरहि ७२, १  
 एयु प्रशंस्यु कहइ ७९, २  
 एयु बोल्या प्रयोग ७२, २  
 एयु ब्राह्मणप्रति ७३, २  
 एयु भुंडउ ७४, १  
 एयु लहुडउ ७९, १  
 एयु वडु कहइ ८०, १  
 एयु वाधइ ७१, १  
 एयु वेद पढणहार ७२, १  
 एयु व्याकरणु जाणइ ७७, १  
 एयु शास्त्र वाचणहार ७२, १  
 एयु श्राद्धतणउ ७२, २  
 एयु सुखिहिं ७३, १  
 एयु हस्वु ७९, २  
 एलियउ १७, २  
 एव ५७, १  
 एवडुं ६३, २  
 एवाल ३४, २  
 एह ३५, २  
 एह ठाम हुंतउ ५६, २  
 ओघउ २१, १  
 ओझउ ५, १  
 ओटइ ४८, १  
 ओठी १६, २  
 ओढणउं ६७, २  
 ओरस (प्र०) ६६, १  
 ओरसु ६६, २  
 ओलंडइ ३८, १  
 ओल्यउ ६४, २  
 ओवउ १९, १  
 ओस ११, २  
 ओसड २५, १  
 ओही २०, २  
 ओंगालइ ४०, १  
 ओंढंभइ ४४, १  
 ओंड २१, २  
 ओंडक ६७, २  
 ओंढइ ४२, २  
 ओंघाहूली ३५, २

औरहुं २७, २  
 ओंरीसउ ३२, १  
 ओंलउ २६, २  
 ओंलखइ ४४, १. ४८, १  
 ओंलखउ २६, १  
 ओंलखाणउ ३१, १  
 ओंलखिउ ५०, २  
 ओंलग १६, १  
 ओंलगइ ४८, २  
 ओंलगिउं ५४, २  
 ओंलग्यउ ५०, २  
 ओंलवइ ४८, २  
 ओंलविउ ५१, २  
 ओंलभइ ७०, २  
 ओंलभउ ६, २  
 ओंली ३४, १  
 ओंसरइ ४०, १

क

क ३१, १  
 कउछ १२, २  
 कउठ १२, २  
 कउडी १३, १  
 कउसीसउ २६, २  
 कचोलउ १८, १  
 कचोलउ १६, १  
 कच्छोटउ ९, १  
 कडउ ९, १  
 कडकडइ ४३, २  
 कडणि २२, २  
 कडव ३२, २. ६८, २  
 कडहटउ ३४, १  
 कडाहउ ११, १  
 कडि ८, २  
 कडिदोरउ ३२, २  
 कडि समा ७७, १  
 कडुछउ २१, १  
 कडुछी २१, १  
 कडू २१, १  
 कणउज ३५, १  
 कणनउ ७८, १

कणयर ३३, १  
 कणहतउ १६, १  
 कणि ७२, १  
 कणियार ३४, १  
 कणी २३, १  
 कथीर ११, २  
 कन्या ७७, २  
 कन्हइ ५६, २  
 कन्हलि ७३, २. ७४, १. ७५, १  
 कपास १२, १  
 कपीलउ २४, २  
 कपूर ९, १  
 कमलउ २३, १  
 कम(व)ली ३४, १  
 कयर १२, २  
 करइ १८, १. १८, २. ३७, १  
 करडइ ४२, १  
 करणहार ३६, पं० २२. ६१, ३  
 करणहार ६१, २. ६२, २  
 करणाहर ३६, पं० ३३  
 करत ७८, २  
 करतउ २६, १. ७०, १  
 करतु (प्र०) ६०, २  
 करतुं ६२, १  
 करमदउ २५, १  
 करवत १०, २  
 करवतरहिं हितूउं ७७, २  
 करवती ३५, १  
 करवा ८२, १  
 करसउ १०, १  
 करसणु ७३, १  
 करहउ १३, २  
 करंबउ २२, २  
 करा ६, १  
 करालियउ २०, १  
 कराअइ ४४, २  
 करावइ ४७, १. ७३, १  
 करि ३५  
 करिजे ३५  
 करिवउं ३६, पं० ३१. ५२, २

करिवा ३६, ६१, १. ६२, १	कंकोडउ १२, २	कापडइ १८, १
करिवा वांछइ ८२, १. ८२, २	कंपावइ ४०, १	कापडी १६, २
करिवा होउ ८२, २	कंसाल १७, २	कावरउ १४, २
करिखुं ६१, २. ६२, २	का ३१, १	काम १८, २
करिवूं (प्र०) ६१, ४	काउसग ३३, २	कामइ ३९, १
करिसिइ ३६	काकडासींगी २६, १	कामण १४, २
करी ६१, १. ६२, १	काकडी २३, १. २५, २	कामरू ३४, २
करीउ ३६	काकडीरउ १८, १	कायर ७, १
करी जाणउं ६२, २	काकरउ १८, २	कारटउ २२, २
करी जाणुं ३६, पं० २९	काकींडउ २५, १	कारटियउ २२, २
करीस १५, १	काख ८, २	कारू १०, १
कर्पासनां वख ७७, १	कागनउं टोलउं ७६, १	कारेलउ १२, २
कर्मनउ समूहु ७६, २	कागु ६७, १	कालाखरिउ ६७, १
कलइ ३७, १	काछउ ३४, २	कालि ६२, २
कलकलइ ४३, २	काछडी ९, १	कालिजउ ८, २
कलपइ ३८, २	काछवउ १४, १	कालियु ६७, १
कलाई ८, २	काज १५, १. २१, १	काली ७२, २
कलाल १०, १	काजल ९, २	कालूनुं (प्र०) ६२, ३
कली १२, १	काट ११, २	कालहनउं ५६, १
कलेवउ ७, २	काटइ ४२, १	काल्हि २७, १. ५५, २
कल्पइ ४९, १	काटी ११, २	काल्हणउ २७, १
कल्होडउ २६, २	काठ १२, २	काल्हणउं ६२, २
कवडउ १३, १	काठउ १५, २	कावजि (प्र०) ६६, २
कवाड ११, १	काठिया २०, १	कावडि १६, १. ३२, २
कविलउ १४, २	काठीहारउ २३, २	काष्टि ७२, १
कसइ ४२, २	काढइ ३९, २. ४७, २	काष्ठ ७७, १. ७७, २
कसमीर ३५, १	काढउ ३३, १	काष्ठा २४, १
कसी २५, २	काणि २३, २	कासुंदउ १७, २
कहइ ३७, १. ४७, १. ७९, २.	कातती २०, २	काई ३२, १
कहउ ७८, २	कातरणी १०, २	काई ५५, १
कहाणी १७, १	कातरि १०, २	कांकसी ९, २. २६, २
कहिउ ५१, २	कातली १९, १	कांग १२, २
कहियउ २१, १. २७, १. ५५, २	काती ६, १	कांगउ १८, १
कहिया वांछइ ८१, १	कादम १२, १	कांचली ९, १
[कहिउं] ५३, २	कान ८, १	कांजी ७, १
कहीई (प्र०) ६३, १	कानइ का ३१, १	कांठउ २६, १
कहीय ६३, १	कानमात को ३१, १	कांठलउ १६, १
कहूआलउ ६७, २	कानि सांभलीयि ७८, १	कांडी १७, २
कं ३१, २	कानी ३५, १	कांदउ २३, २
कंदोई १०, २	काप १८, २	कांध समुं पाणी ७७, १
उ० २० १२	कापइ ४७, २	

कांपइ ३८, २. ४६, १  
 कांपिउ ५२, १  
 कांबडी १६, २  
 कांबलउ ७६, १  
 कांबी २४, १  
 कांसउ ११, २  
 कांसउं ७७, २  
 कांसीवाजउ २४, २  
 कि ३१, १  
 किडउ ११, १  
 किम ५५, १. ६२, २  
 किमइ ७८, २  
 किमइइ ३१, २  
 कियउ २४, १. २५, २  
 किर ५७, १  
 किरगिरइ ७०, १  
 किरातउ १९, २  
 किरि ६७, २  
 किलकिलाट १६, १  
 किवाडी १६, २  
 किसउ २७, २. ५५, १. ६४, १  
 किहां २७, १. ६३, १. ५५, २  
 किहांतणू ५५, १  
 किहांनउ ७८, १  
 किहांहुंतउ ५६, २  
 की ३१, १  
 कीकी ८, १  
 कीजइ ३५. ५५, १  
 कीजउ ३५  
 कीजतउ ३६  
 कीजतउं ६०, २  
 कीजतुं ६२, १  
 कीजतूं ( प्र० ) ६०, ३  
 कीजिसिइ ३६  
 कीटी २१, १  
 कीडउ १३, १  
 कीघउ ३६, पं० २४  
 कीघउं ६२, १  
 कीघा ७४, २  
 कीघु ७८, १

कीधुं ५०, १. ६०, १  
 कीर्तइ ३८, १  
 कीगायइ ४२, २  
 कु ३१, १  
 कुघाट १६, १  
 कुचेल २५, २  
 कुच्छित ७, १  
 कु जि ६८, २  
 कुट्टि २३, २  
 कुडी ३५, १  
 कुडीरहिं हितूउं ७७, २  
 कुडुंबी ३४, २  
 कुट्टि २३, २  
 कुण ३५, २. ७५, २  
 कुणडी २४, २  
 कुतिगीउ ६७, २  
 कुपइ ३८, २. ७०, २  
 कुपिउ ५१, १  
 कुपियउ २१, २  
 कुरुखेत ३४, २  
 कुरुटतउ २५, २  
 कुलथ १२, २  
 कुलथी १२, २  
 कुसइ ४२, २  
 कुसणउ ४१, २  
 कुसि २५, २  
 कुहइ ३८, १  
 कुहणी ८, २  
 कुहिउ ५१, २  
 कुअर ७, १  
 कुअरि १९, १  
 कुअलउ १४, २  
 कुआरीरा २५, १  
 कुंकू ९, १  
 कुंची ११, १  
 कुंठसख २४, १  
 कुंड २४, २  
 कुंढ २४, १  
 कुंढगोठि २४, १  
 कुंपी १८, १

कुंभतणु ७१, २  
 कुंभार १९, २  
 कुंभाररउ २४, २  
 कुंभी १७, २  
 कुंमारउ २५, १  
 कू ३१, १  
 कूआकंठइ २४, १  
 कूउ ६७, १  
 कूकइ ४१, १  
 कूकडउ १४, १  
 कूकर १३, २  
 कूका ५६, २  
 कूचउ १६, १  
 कूजइ ३७, २  
 कूटइ ३८, १. ४, १  
 कूटणउ २१, २  
 कूटिउ ५१, १  
 कूड ६, २. २४, २  
 कूडछी ६७, २  
 कूदइ ३८, १  
 कूपइ ४९, १  
 कूल्ह १२, १  
 कूवडउ २५, १  
 कूअलउ ७९, १  
 कूढली ६६, २  
 कूंपल १५, १  
 कूंभट १७, २  
 कूंभी २४, २  
 के ३१, १  
 केत ६, १  
 केतलउ ५५, २  
 केतलउं ६३, २  
 केतलुं २७, २. ५५, २  
 केतलूं ( प्र० ) ६३, ४  
 केदार ७५, १  
 केला १८, १  
 केलि १८, १  
 केवडुं ६३, २  
 केवडूं ५७, १  
 केवलउ क ३१, १

केशनउ समूहु ७६, २  
 केसू १२, १  
 कै ३१, १  
 को ३१, १  
 कोइल १४, १  
 कोइलि ७३, २  
 कोइली १४, १  
 कोई ५५, १  
 कोट १०, २  
 कोटडउं ६९, २  
 कोटवाल २१, २  
 कोटीलउ ६९, २  
 कोठउ २०, २. २४, १. ६६, २  
 कोठउ कणि भरिउ ७२, १  
 कोठार २०, १  
 कोठीभडउ ३३, १  
 कोड १५, २  
 कोडि २४, १. ३०, २  
 कोडिमउ ३१, १  
 कोढ ७, २  
 कोथली (प्र०) ६६, २  
 कोदालउ १०, १  
 कोरियउ १८, १  
 कोरिवउ १८, १  
 कोस १०, १  
 कोसंवी ३५, १  
 कोसीटउ ६७, १  
 कोहलउ १२, २  
 कोहली १५, २  
 कौ ३१, २  
 कः ३१, २  
 क्यारउ २३, २  
 क्रमइ ७०, २  
 क्रयाणा २५, २  
 क्रीडउ ३८, १  
 क्षमिउ ५१, २  
 क्षरइ ७०, १  
 क्षुद्रु ७९, २  
 क्षेत्र ७३, २  
 क्षेत्रि ७४, २  
 क्षेत्रु ७७, २

ख  
 खजूअउ १३, १  
 खजूर २४, १  
 खजूरउ २४, १  
 खटमल १७, १  
 खड १३, १  
 खडखडइ ४४, १  
 खडगर २५, २  
 खडहडइ ४३, १  
 खडी ११, २  
 खडोखली ६७, १  
 खण २२, २. २४, २  
 खणइ ३८, २  
 खणिवा ८१, २  
 खणेत्रउ १०, १  
 खत २१, १  
 खप्पर २२, २  
 खमइ ३९, १  
 खमासण ३३, २  
 खयडउ ९, २  
 खयरवडी १७, १  
 खरहडी १८, २  
 खलउ १०, २  
 खलहाण १०, २  
 खली २३, १  
 खलीं (प्र०) २४, १  
 खसइ ३९, २  
 खंडइ ३८, १  
 खंडायितु ७६, १  
 खंडी २४, २  
 खंधार १०, २  
 खाई (प्र०) ६१, २  
 खाज ७, २  
 खाजइ ४४, २. ७०, २.  
 खाजलु ६९, १  
 खाजहलउ २६, २  
 खाजा २०, १  
 खाट ३३, १  
 खाटकी २५, १  
 खाटि ९, २  
 खाणि ११, २

खानु (प्र०) ६०, २  
 खात्र २०, २. २२, २  
 खापरउ २२, २  
 खामणउ ३३, २  
 खायइ ३८, १  
 खार २१, १  
 खारउ २२, २  
 खारिक ३३, १  
 खाली २३, १  
 खास ७, २  
 खासइ ३९, २  
 खांडउ २४, २  
 खांडां ७५, २  
 खांधउ ८, २  
 खिरइ ३९, १  
 खिसरहंडी ६६, २  
 खीच ३३, १  
 खीचडउ १६, १  
 खीचडी ३३, १  
 खीजइ ४३, १  
 खीरणी १७, २. २३, २  
 खीरि ७, १  
 खीलइ ४२, १. ४३, २  
 खीलउ १३, २  
 खीसउ (प्र०) ६६, २  
 खुभइ ३९, १  
 खुभिउ ५२, १  
 खुरउ २४, २  
 खूणउ ३२, १  
 खूपइ ४०, २  
 खूदइ ४३, १  
 खेड १०, २  
 खेडइ ३८, १  
 खेडउ २२, २  
 खेती १०, १  
 खेलणउ २५, २  
 खोडउ १५, १. ३३, २. ६९, २  
 खोडायइ ४२, २  
 खोभइ ३९, १  
 खोल २५, १

ग  
 गइंडु १३, २  
 गउख १९, २  
 गउखु ६९, २  
 गउर १५, १  
 गउछणउं ६९, २  
 गजथर २२, १  
 गड ७, २  
 गढु ६९, २  
 गणिकानु समूहु ७६, २  
 गणिवूं ५३, १  
 गणीस ३४, १  
 गदगद वचन २२, १  
 गदहिला १७, १  
 गहहउ १३, २  
 गमइ ७३, २  
 गमई ७४, १  
 गमा ७३, २  
 गमाणि ६८, २  
 गयउ ४९, २  
 गरढउ ३२, २. ६६, ३.  
 गरहइ ४०, १  
 गरुयउ १५, १  
 गरूउ ७९, २  
 गर्गनुं ७१, २  
 गलअलइ ४३, १  
 गलमांठी २४, २  
 गलणउ १६, १  
 गलहथउ २५, १  
 गलहथियउ २५, २  
 गलियार ३५, १  
 गवाणि २१, २  
 गहिलउ १८, २  
 [ गहुं ] ७८, २  
 गहूं ७७, १  
 गंगा ७४, २  
 गंगेटी २४, २  
 गंधाअइ ४४, १  
 गंभारउ ३३, १  
 गाइ १८, २. २१, १. ४८, १. ७२, २

गाइवुं ५३, २  
 गाईमाहि ७२, २  
 गाउ १०, १  
 गागरी ११, २  
 गाजइ ३७, २  
 गाजर १९, २  
 गाडरि ३३, २  
 गाडा योग्यु हितूउ ७७, २  
 गाडी १९, २  
 गाडुं ७८, १  
 गाढउ ७९, १. ८०, १  
 गाती ७५, १  
 गात्री २२, २  
 गावु ८०, २  
 गादी १८, १  
 गाबडि ८, २  
 गाभरू २४, २  
 गामढिउ २५, २  
 गाम दाहिण गमइ ७३, २  
 गामनइ पाषइ अधिकरि ७५, १  
 गाम विहुं विचि ७४, १  
 गामरउ २५, १  
 गाम विचि वडु ७५, २  
 गाम सविहुं गमा ७३, २  
 गामि ७१, २. ७२, १. ७४, २  
 गामु ७३, २. ७७, २  
 गामेचउ ७८, १  
 गायइ ३७, २. ७०, १  
 गायउ १५, २  
 गायवउ २५, १  
 गारवउ १५, १  
 गाल ८, १  
 गालउ ३९, १  
 गालिउं ५२, १  
 गाह २२, १  
 गाहइ ४४, १  
 गांठइ ४२, १  
 गांठि १२, १  
 गांधि १९, १  
 गिणइ ३७, १. ४८, १  
 गिर १८, १

गिरइ ३७, १  
 गिरठि २३, २  
 गिलइ ३९, १  
 गिलगिली १८, १  
 गिलो १९, १  
 गिलोई २०, २  
 गीत १५, २. ७५, १  
 गुड ७४, २  
 गुडिउ ६८, २  
 गुढउं ६६, १  
 गुणइ ३७, १. ४८, १  
 गुणणी २५, २  
 गुणनु समूहु ७६, २  
 गुणिउ ५१, १  
 [ गुणिवूं ] ५३, १  
 गुरु सामहु ७३, २  
 गुल १८, २  
 गुलगुलायइ ४१, १  
 गुलणी ९, २  
 गुलघाणी २२, १  
 गुलपापडी २२, १  
 गुलमंडा १४, २  
 गुलियउ १८, २  
 गुहिरउ १५, १  
 गुंजइ ३७, २  
 गुंथिवउ ९, १  
 गूगल ३५, १  
 गूजर १६, २  
 गूजरी १६, २  
 गूझ ९, २  
 गुंडा समी ७७, १  
 गूणि ९, १  
 गूह ९, १  
 गूथइ ४४, १. ४९, १. ७०, १  
 गूथ्यउ ५१, १  
 गुंद २४, १  
 गुंफइ ४९, १  
 [ गुंफिउ ] ५१, १  
 गूहली ६७, १  
 गेरू ११, २

गोआडहरउ २०, २  
 गोई गोलली ६४, २  
 गोउल १३, २  
 गोखरू १७, २  
 गोगीडउ २६, २  
 गोछउ १२, १, ३४, १  
 गोत्रु ७५, १  
 गोघउ २४, २  
 गोपिविउ ५१, २  
 गोफणि १६, २  
 गोमूत्री १६, २  
 गोयरउ २५, १  
 गोरी ६, २  
 गोलउ ७, २, २३, १  
 गोवाल १०, १  
 गोह १३, २  
 गोहीरउ १३, २  
 गोहू १२, २  
 गोहूरी २६, १  
 ग्यउं ६०, १  
 ग्रसइ ४१, २  
 ग्रहइ ४०, १  
 ग्रहियि ७८, १  
 ग्रामतणु समूह ७६, १  
 ग्रामि दीहाडी प्रति ७३, २  
 ग्रामु ७२, २  
 ग्वालर १८, १

घ

घटइ ३८, १  
 घडइ १९, २, ४८, २  
 घडउ ११, १  
 घडांमंची ३३, १  
 घडांमंची ६८, २  
 घडिउ ५०, २  
 घडियालउ २०, १  
 घडिबुं ५४, २  
 घडी २०, १  
 घण २०, २  
 घणउ ७९, २

घणउ गुड छह } ७४, २  
 जीण लाहू }  
 घणदीहुं ७८, १  
 घणां निर्मलां पाणी } ७४, २  
 जीणं नदी }  
 घणु ७२, २  
 घणुं १८, २  
 घणे दिहाडे आव्यु ७८, १  
 घर ११, १, १९, १  
 घर कन्हलि वृक्षु ७५, १  
 घरट २०, १  
 घरटी २०, १  
 घरट्टु ६६, २  
 घरघणियाणी २५, १  
 घरपापलि घाडि करइ ७३, २  
 घररा २५, १  
 घररी १९, २  
 घरि ७२, १, ७८, २  
 घरु ७२, २, ७५, १  
 घलावइ ४७, २  
 घसइ ३९, २, ४७, २  
 घसाइ ४४, २  
 घसावइ ४७, २  
 घाघरनदी २५, २  
 घाघरी २५, १  
 घाट १२, १  
 घातइ ४०, २  
 घातकू ७, १  
 घार्थिसउं ६८, १  
 घालइ ४७, २  
 घालिउ ५२, १  
 घांट ३५, १  
 घांटी ८, २  
 घिसि १८, १  
 घी ३१, १  
 घीउ भणी ७३, १  
 घीरी २०, २  
 घीवेली १३, १  
 घूघटिउ ६८, २  
 घूघुरउ २१, २

घूघुरी २५, १  
 घूघू १४, १  
 घूमइ ४४, २  
 घूघटउ २६, १  
 घूटउ २१, २  
 घूटी ८, २  
 घेवर ७, १  
 घोडउ १३, १  
 घोडारहिं हितूउ ७७, २  
 घोडाहडि ६८, २  
 घोडे वहीयि रथु ७८, १  
 घोरइ २०, १  
 घोलइ ४०, २  
 घोसइ ३९, २  
 घ्राइउ ४९, २

च

च ५७, १  
 चउकीवट ३२, १  
 चउकीवटा ( प्र० ) ६६, १  
 चउकीवट्टु ६६, १  
 चउगट्टि ३२, १  
 चउगुणउ ३२, २  
 चउगुणउं ६८, १  
 चउघडिउ ३१, २  
 चउडोत्तर सउ ३०, १  
 चउत्रीस २८, २  
 चउथउ ३०, २, ५७, १  
 चउथि ३१, २  
 चउद २८, १  
 चउदमउ ३०, २  
 चउदसि ३१, २  
 चउपउ २५, २  
 चउपन २९, १  
 चउमालीस २९, १  
 चउमासउ ३३, २  
 चउरसउ ३३, २  
 चउराणू ३०, १  
 चउरासी २९, २  
 चउरी ३३, १  
 चउवीस २८, २

चउससृष्टि २९, १  
 चउसालउ ३३, १  
 चउहत्तरि २९, २  
 चकरडी १६, २  
 चक्यउ ३४, २  
 चडइ ४०, २. ४३, १. ४८, २  
 चडिउ ५१, १  
 चणउ १२, २  
 चपलपणउं ७७, २  
 चमार २०, १  
 चरउ २५, १  
 चरचइ ३७, २  
 चरिवा वांछइ ८१, १  
 चरू २२, २  
 चर्म ७७, २  
 चर्मु ७७, २  
 चलणी ९, १  
 चलू ८, २  
 चवदइ ५७, २  
 चवलांरी १८, १  
 चहुंटी ३२, २  
 चंदन २५, २  
 चंदौउ ६९, १  
 चंद्रयउ ९, २  
 चाउंडा ६, २  
 चाक २४, २  
 चाकी १६, २  
 चाचर ३३, १  
 चाचरि २३, १  
 चाटिवा वांछइ ८१, २  
 चाटुकारिया वचन ६. २  
 चाथ ( प्र० वाघ ) रि १८, १  
 चाबण ७, २  
 चामाचेड १४, १  
 चारि २८, १  
 चारोली ३१, १  
 चान्यउ ५०, १  
 चालइ ४६, २  
 चालणी २०, १  
 चालिउ ५२, १  
 चालिवा वांछइ ८१, १

चालीस २८, २  
 चालीसमउ ५७, १  
 चावइ ३९, १  
 चास १४, १  
 चांच १४, १  
 चांदलउ १४, १  
 चांद्रिणानी लांप ६९, २  
 चांद्रिणु २६, १  
 चांप ३५, १  
 चांपइ ४१, १  
 चांपउ १२, २  
 चांबडउं ७७, १  
 चांमडी ९, १  
 चिडउ १४, १  
 चिडी १४, १  
 चिणइ ३७, १. ४९, २. ८०, २  
 चिणुउ ५१, १  
 चिणिवा वांछइ ८२, १  
 चिणिउं ५४, १  
 चिणोटी ६७, २  
 चित्रावेलि २२, १  
 चिहुं परि ( प्र० ) ६३, २  
 चीकणउ २२, १  
 चीखल २३, १  
 चीचूअइ ४४, २  
 चीठी १८, १  
 चीणउ १२, २  
 चीत्रइ ३७, १  
 चीत्रउ १३, २  
 चीपडीउ ६७, १  
 चीपिडउ २५, १  
 चीफाड २६, २  
 चीभडी १२, २  
 चील्ह १४, १  
 चील्हसाग १७, २  
 चीषलालुं ६८, १  
 चींतवइ ३८, १  
 चुहुटली ( प्र० ) ६६, २  
 चुंकलइ ४६, २  
 चुंटइ ४८, २

चुंटीउ ५१, १  
 चुंटीउं ५४, १  
 चुंबइ ३८, २  
 चूअइ ४२, १  
 चूक ७, १  
 चूकइ ४४, २  
 चूकउ १६, १  
 चूटिवा वांछइ ८२, १  
 चूण १६, २  
 चूति ८, २  
 चून २४, १  
 चूनउ २४, १  
 चूल्ही ११, १  
 चूसइ ३९, २  
 चूंटइ ३८, १. ८०, २  
 चेत ६, १  
 चेतितुं ५२, १  
 चेलउ २१, १  
 चोखउ १४, २  
 चोज ६, २  
 चोपडइ ४०, २  
 चोपड्यउ ५२, १  
 चोरइ २२, २. ३९, १. ४८, २  
 चोरडउ २२, १  
 चोरिवा वांछइ ८२, १  
 चोरिउं ५४, १  
 चोरी ७, १  
 चोरु ७८, २  
 चोलवटउ २१, १  
 चोषा ७२, २  
 चौदसिं दीसइ राक्षसु ७८, १  
 च्यहु परि ६३, १  
 च्यारइ ७३, १  
 च्यारि ५७, २  
 च्यारिवार ( प्र० ) ६३, १  
 च्युहु वहीयि गाहुं ७८, १  
 छ  
 छ २८, १  
 छइ २०, २. ४१, २. ४७, २.  
 छट्टउ ३०, २. ५७, १

छट्टीलिखित २४, २  
छठि ३१, २  
छतु (प्र०) ६०, ३  
छत्रीस २८, २  
छपन २९, १  
छप्पई १३, १  
छमकारिउ ५१, २  
छमकाव्यउं ६८, २  
छयकार ६७, २  
छयालीस २९, १  
छ रितु ६, १  
छहत्तरि २९, २  
छाजइ ४०, २  
छाजउ २२, १  
छाणउ १३, २  
छाणावलि ६९, २  
छात्र ७५, २  
छानउ १९, १  
छायइ ४२, २  
छार १०, १  
छालउ १३, २  
छालि १२, १  
छाली ७१, २  
छावडउ ६, २  
छावति ११, १  
छावीस २८, २  
छासठि २९, १  
छांडइ ४१, २. ८०, २. ४६, २  
छांडिवा वांछइ ८१, १  
छांडितुं ५३, १  
छांह १५, १  
छिछ (प?) इ ७०, १  
छिन्नु ३०, १  
छिवइ ४०, २. ४३, २  
छीकउ १९, १  
छीकणी २५, २  
छीडणि (प्र०) ६६, ४  
छीतर २२, २  
छीपउ ६७, २  
छींकइ ४४, २. ४७, २

छींउणि ६६, २  
छींडी २१, २  
छुरउ २४, २  
छूटइ ४३, २. ४८, २. ७०, १  
छेकइ ४४, २  
छेकडि ६६, २  
छेतरीयउ २६, २  
छेदइ ४२, २. ४८, ९  
छेदियउ १४, २  
छेहि ७५, २  
छेहिलुं ५५, १  
छोडिउ ५०, २  
छोति १५, २  
छोह ३२, १  
छः ५७, २  
छयासी २९, २  
ज  
जइ ५६, १  
जइ करत ३६  
जइ किमइ ६३, २  
जइ किमहइ ३१, २  
जइ कीजत ३६  
जइ दीजत ३६  
जइ देत ३६  
जइ लीजत ३६  
जइ लेत ३६  
जई (प्र०) ६१, १  
जईतउं ६०, २  
जईतूं (प्र०) ६०, ४  
जईयइ किमइ (प्र०) ६३, ४  
जउ ५५, २  
जउणा २२, १  
जउराणउ ६, १  
जगाडइ ४७, २  
जट्ट १५, १  
जड १२, १  
जडपणउ २७, २  
जडी १७, १  
जणउ ३४, १  
जणाइ ४४, २

जणावइ ४७, १  
जतियारउ २०, २  
जननउ समूह ७६, २  
जनम १४, १  
जनोई १०, १  
जपइ ३८, २. ८०, २  
जपमाली २१, १  
जमवारउ १८, १  
जमाई ६७, २  
जमिवा वांछइ ८१, २  
जयणा १८, १  
जरिउ ५०, १  
जल ७८, १  
जलो १३, १  
जव ३३, १  
जवखार १०, २  
जस ३४, २  
जहियइ २७, १. ५५, २  
जहीई (प्र०) ६२, ४  
जहीय ६२, २  
जं ६३, २  
जंभाआइ ४०, २  
जाइ १२, २. ७५, २. ८०, १  
जाइफल ९, १  
जाइवउं ६२, १. ७२, १  
जाइवा (प्र०) ६१, १  
जाइवा वांछइ ८१, १  
जाई ६१, १  
जागाइ ३७, १. ४७, २. ७०. १.  
जागीइ ७१, १  
जाग्यउ ४९, २  
जाजरउ २२, १  
जाडउ १७, १  
जाण अहो पुरुष  
आपणि लहुडा  
थ्या [ ... ] वस्त्र  
पहिरता } ७८, २  
जाणइ ४१, १. ४७, १. ७३, १.  
जाणउं ६२, २  
जाणतउ ६०, २  
जाणनहार ६१, २



जाणहार ( प्र० ) ६१, ३.  
 जाणहारु ६१, २  
 जाणिउं ६०, १  
 जाणिवउं ६२, १  
 जाणिवा ६१, २  
 जाणिवा वांछइ ८२, २  
 जाणिवु ५३, २  
 जाणिवूं ( प्र० ) ६२, १  
 जाणी ६१, १  
 जाणीतउं ६०, २  
 जाणीतूं ( प्र० ) ६०, ४  
 जाण्यउ ४९, २  
 जाण्युं ( प्र० ) ६०, १  
 जात ७८, २  
 जातउ ६०, १. ७३, १.  
 जानु ( प्र० ) ६०, २  
 जानावासउ ६८, २  
 जानी ७, २  
 जानीवासउ २६, १  
 जानुत्र ६८, २  
 जामइ ३८, २  
 जाम ( य? ) इ ७०, २  
 जायइ २१, २. ३७, १. ४६, २.  
 जायउ २४, २  
 जालउर ११, १  
 जाली १९, २  
 जावेल २१, १  
 जास्युं ७८, २  
 जाहउ १४, १  
 जां २७, १. ५६, १. ६३, २.  
 जांघ ८, २  
 जिणइ ४९, १  
 जिणचंद भट्टारक ६, २  
 जिणिसिइ ३६  
 जिण्यउ ५०, २  
 जिम २७, १. ५५, १.  
 जिमणउ ( प्र० ) ६४, १  
 जिमणुं ५६, २  
 जिमतउ ६०, २  
 जिमतु ( प्र० ) ६०, ३  
 जिमाडइ ४७, १

जिमिबुं ५३, १  
 जिमिबूं ( प्र० ) ६२, १  
 जिमी ( प्र० ) ६१, २  
 जिमीतूं ( प्र० ) ६०, ४  
 जिम्युं ( प्र० ) ६०, १  
 जिसउ २७, २. ५५, २  
 जिहां २७, १. ५५, २  
 जिहांतणू ५५, १  
 जीण ७४, २. ७४, २  
 जीणइ ७४, २  
 जीणं ७४, २. ७४, २.  
 जीपइ ४१, १  
 जीपिवा वांछइ ८१, २  
 जीम ८, १  
 जीमइ ३९, १. ४६, २.  
 जीमिउ ५०, १  
 जीरउ ७, २  
 जीवइ ३९, १. ४७, २. ७१, १.  
 जीवापोता १९, २  
 जीविवा वांछइ ८१, २  
 जीविसिइ ३६  
 जु ५६, १. ६३, २.  
 जुआ जुआ १५, २  
 जुआरि ३३, २  
 जु करत ७८, २  
 जु किमइ एयु गा-  
 मिन जात, चोर  
 बलद न लयेत } ७८, २  
 जु किमइ हुं घरि  
 जात, तु एयु मई  
 गामि न मोकलत } ७८, २  
 जु देत ७८, २  
 जु लेत ७८, २  
 जुवान २२, २  
 जुहार ६८, १  
 जू १३, १  
 जूआरउ ७, २  
 जूउ २७, १. ५७, १.  
 जूउं ६३, १  
 जूशिवा वांछइ ८१, २  
 जूपइ ४०, २

जूसरू ६९, २  
 जे किमइ एयु  
 [ गहुं ] लेत, } ७८, २  
 तु द्राम न पडत }  
 जेट ६, १  
 जेतला ७५, २  
 जेतला छात्र } ७५, २  
 तेतला पोथां }  
 जेतलां खांडां } ७५, २  
 तेतला राजपुत्र }  
 जेतलुं २७, २. ५५, २. ६३, २.  
 जेतलूं ( प्र० ) ६३, ३  
 जेवडउ १५, २  
 जेह ठाम हुंतउ ५६, २  
 जेहनउं ७४, २. ७५, १.  
 जेहि ७४, २  
 जो ३५, २  
 जोअण १०, १  
 जोइउ ४९, २  
 जोइवुं ५२, २  
 जोगवटउ २१, १  
 जोडइ ३८, १. ४९, १.  
 जोडउ २४, १  
 जोडिबुं ५३, २  
 जोड्यउ ५१, १  
 जोतिपी ३४, २  
 जोत्र १०, १  
 जोत्रु ६९, २  
 जोयइ ४७, १  
 जोवन ७, १  
 जोहार ५७, १  
 ज्यार ६३, १  
 ज्वलइ ८०, १  
 झ  
 झखइ ४०, २  
 झगडउ १५, २. ६७, १.  
 झटकइ २७, १  
 झटकई ६३, १  
 झणझणइ ४३, २  
 झलझांपसउ ६४, २

झंपावइ ४४, १  
 झाकइ ४४, २  
 झाड १९, २  
 झामलउ २५, २  
 झालरि २२, १  
 झांप १४, २  
 झीणउ १५, १  
 झूझइ ३८, २  
 झूरइ ४०, २

ट

टलइ ३९, १  
 टलवलइ ४३, २  
 टसर ३५, १  
 टंका २४, १  
 टार २४, २  
 टाली ७५, २  
 टांक १९, १  
 टांकुलउ १०, २  
 टीपणउ ३२, १  
 टीलउ ३२, १  
 टींटीहडी १४, १  
 टोपरउ ३३, १  
 टोलउं ७६, १

ठ

ठवणारी ५, १  
 ठवणी ३४, १  
 ठंभीजइ ४०, १  
 ठई २६, २  
 ठाण २१, १  
 ठाणउ २०, २. २४, २  
 ठाणांग ६, २  
 ठाम ५६, २  
 ठालउं ५६, २  
 [ ठिउ ] ४९, २

ड

डर २४, २  
 डरइ ४०, २  
 डस्यउ ३४, २  
 डसइ ३४, २  
 डहर १७, १  
 डहरउ २२, २

उ० र० १३

डाकर १७, १  
 डावउ ६३, २  
 डावउं ५६, २  
 डाम १३, १  
 डावउ ( प्र० ) ६३, ४  
 डांभइ ७०, १  
 डांस १९, २  
 डेहली ३२, १  
 डोइलउ १६, १  
 डोकरउ ३२, २  
 डोकर ६६, २  
 डोडी २३, २  
 डोहलउ ७, २

ढ

ढल २०, १  
 ढंढोलइ ४०, २  
 ढांकइ ४०, १. ४७, २.  
 ढांकणउं ६७, २  
 ढांकिउ ५२, १  
 ढीलउं ५६, २  
 ढूकइ ४१, १  
 ढूकडउ ७४, १. ७९, १.  
 ढूकडी ७३, २  
 ढूकडी गंगा जीणइं देशि ७४, २  
 ढोकइ ४१, १

त

तइसउं वात करइ ७३, २  
 तई ५५, १  
 तईं गामि जाइवउं ७२, १  
 तईं भलईं हुईइ ७१, १  
 तईं वयरी आणी  
 वांधीवउ ७३, १  
 तउ ५५, २. ५६, १.  
 तक १८, २  
 तका १८, २  
 तज २१, १  
 तडफडइ ४४, १  
 ततकाल ६, १  
 तन्नुअउ १४, १  
 तपइ ३८, २. ४९, १  
 तपिउ ५१, २

तपरी २४, १  
 तमक २२, १  
 तम्हंसरीपु ( प्र० ) ६४, २  
 तम्हंसरीपउ ६४, १  
 तम्हारउं ६३, १  
 तम्हारं ( प्र० ) ६३, ३  
 तम्हि कहउ कहउ } ७८, २  
 आपणी वात }  
 तरइ ३७, २. ४७, १. ८०, २  
 तरिया वांछइ ८१, १  
 तरिउं ५३, २  
 तरी २०, २. २४, २  
 तरुणउ ८०, १  
 तरुनउ समूहु ७६, २  
 तर्जइ ३७, २  
 तन्यउ ४९, २  
 तलाउ ३२, २  
 तलागु ६७, १  
 तलार १६, २  
 तलाव विचि देहरउं ७५, २  
 तस्करइ ४८, २  
 तहियइ २७, १. ५५, २  
 तहींय ६३, १  
 तें ६३, २  
 तंगोटी ३३, १  
 तंत्र ९, १  
 तंबोल वीडउ १९, १  
 तंबोलरी थई ९, २  
 तंबोली १९, १  
 ताकइ ४१, १  
 ताठउ ३४, २  
 ताड ३५, १  
 ताडइ ४९, १  
 ताडिउ ५०, २  
 ताण ( प्र० ) ६३, ३  
 तापसरी २४, २  
 तारइ ४७, १  
 ताल २३, १  
 तालउ ११, १  
 ताली ८, २. ३४, २  
 तालुयउ ८, २

ताहरउ ६३, २	तुलाई ३२, २. ६७, १	त्रासइ ३९, २. ४६, १
ताहरुं २७, २. ५५, १. ६३, १	तुहइ ५६, १	त्रासचइ ४६, १
ताहरुं (प्र०) ६३, ३	तुं ३५, २. ५५, १	त्रिगङ्ग ७, १
तां २७, १. ५६, १. ६३, २	तू कन्हलि ७४, १	त्रिगुणु ६८, १
तांइ ३१, २	तूठउ १८, २. ५१, १	त्रिणउ १३, १
तांगणी ६४, २	तूणियउ १८, १	त्रिणि ५७, २
तांबउ ११, २	तू पाषइ ७४, १	त्रिणि वार (प्र०) ६३, १
तिउणउ ३२, २	तूरी ११, २	त्रिणह २८, १
तिजह ३७, २	तूली २३, १	त्रिपणउ ३४, १
तिडकउ ७८, १	तूसइ ३९, २	त्रिपन २९, १
तिडोत्तर सउ ३०, १	तूंअरि १२, २	त्रिमणइ ७७, २
तिम २७, १. ५५, १. ६२, २	तूंसरीषउ २७, २. ६४, १	त्रिवायउ ३१, १
तिमइ ६३, १	तूंहइ ५५, १	त्रिसियउ ७, १
तिरछउ ५६, १. ६४, १	तृणानु समूहु ७६, २	त्रिहत्तरि २९, २
तिरिछउ (प्र०) ६४, १	तृहुपरि ६३, १	त्रिहुं परि ५६, २
तिर्येच १३, १	तेजिउं ५२, १	त्रीजउ ३०, २. ५६, २
तिल २५, १	तेडइ ४७, २	त्रीस २८, २
तिलउ ३४, २	तेतला ७५, २	त्रीसमउ ५७, १
तिली ८, २	तेतलुं २७, २. ५५, २. ६३, २	त्रुटी ६७, १
तिसउ २७, २. ६४, १	तेतलूं (प्र०) ६३, ३	त्रुटइ ३८, १
तिहां २७, १. ५५, २. ६३, १	ते ते ७५, १. ७५, २	त्रेगति (डि) २०, १
तिहांतणूं ५५, १	तेत्रीस २८, २	त्रेवीस २८, २
तिहांनउ ७८, १	तेर ५१, २	त्रेसठि २९, १
तीज ३१, २	तेरह २०, १. २९, १	त्रोडिउ ५१, २
तीतिर १४, १	तेरमउ ३०, २	त्र्याणू ३०, १
तीन्हउं ६९, २	तेरसि ३१, २	त्र्यासी २९, २
तीमइ ४२, २	तेली १९, १	थ
तीमण ७, १	तेलु ७३, १	थडउ २१, २
तीरथइ २४, २	तेवडउ १५, २	थण ३२, २
तीर्युं ७३, २	तेह ठाम हुंतउ ५६, २	थली २२, ३
तु ५६, १. ६३, २. ७८, २	तोडइ ३८, १	थवइ ४२, १
तुणिवा वांछइ ८२, १	तोलइ ४०, १. ७०, २	थाइवा ८१, १
तु पूठि ७३, २	त्यजिउ ५०, २	थाकइ ४०, २. ७०, २
तुम्हकेरउ १५, २	त्रउअउ ११, २	थाकउ ५१, १
तुम्हनई ५५, १	त्रडत्रडइ ४४, १	थाकिवा ८१, १
तुम्हसरीषउ २७, २	त्रतालीस २९, १	थापइ ४६, १
तुम्हारुं २७, २. ५५, १	त्राकडीवेलउ १७, २	थाल २०, २
तुम्हासित ५५, २	त्राकलउ १०, २	थाली २०, २. २४, २
तुम्हि ५५, १. ५५, १	त्राठउ ५०, २	थाहरइ ४३, २
तुम्हे ३५, २. ५५, १. ५५, १	त्रापउ २२, २	थांपणि १८, २

थांभइ ४१, १  
 थांभउ १९, २. २४, २  
 थिउं (प्र०) ६०, १  
 थीजइ ४२, १  
 थीणउ घी ३१, १  
 थुम ३१, १  
 थूकइ ४४, २  
 थूणी १९, १  
 थूथउ १९, २. ३५, १  
 थूम २१, २  
 थूली २६, १  
 थूकु ६७, १  
 थै ६१, १  
 थोडउ १४, २. ७९, १  
 थोडे दिहाडे आविउ ७८, १  
 थ्या ७८, २  
 थ्युउं ६०, १

द

दउठ २७, २  
 दक्खिण ६, १  
 दक्षिणदिशिउ ७८, १  
 दडउ ३२, २  
 दडवडाइउ २६, २  
 दमइ ३९, १  
 दयामणउ २०, २  
 दर २४, २  
 दश ५७, २  
 दस २८, १  
 दसमउ ३०, २. ५७, १  
 दसमि ३१, २  
 दसी ९, २  
 दसे आगलउ १८, १  
 दहइ ४०, १. ८०, २  
 दहिवा वांछइ ८१, १  
 दही ७, १  
 दंडइ ७१, २  
 दंडाउंछणउ २०, २  
 दंतसूकट १६, १  
 दंतूसल १७, १  
 दंभइ ४३, २

दाखवइ ४०, १  
 दाहइ ४४, २  
 दाडिमु नींकोलइ ७७, २  
 दाढ ८, १  
 दाढी ८, १  
 दाणउ १६, २  
 दाणमंडही १६, २  
 दात्रउ ३४, २  
 दादर २२, १  
 दादुर १४, १  
 दादुर वाजउ २५, १  
 दाधउ १४, २. ५०, १  
 दावडउं ६८, २  
 दाम १८, २  
 दामण १३, १  
 दारीवाडउ ३३, १  
 दासी वह वत् मानइ ७९, १  
 दाहिणउ १५, २  
 दाहिण गमइ ७३, २  
 दांडी ३४, १  
 दांतिलउ ३३, २  
 दि ७०, १. ७२, १. ७२, १  
 दिइ ४७, १. ७५, २  
 दियइ ३५  
 दिवरावइ ४७, १  
 दिषा (खा) डइ ४७, १  
 दिहाडउ ३१, १  
 दिहाडे ७८, १  
 दीख १०, १  
 दीखइ ४०, १  
 दीजइ ३५,  
 दीजउ ३५  
 दीजतउ ३६  
 दीजतउं ६०, २  
 दीजतुं ६२, १  
 दीजतूं (प्र०) ६०, ४  
 दीजिसिइ ३६  
 दीठउ ४९, २  
 दीठउं ६०, १  
 दीधउ २१, १ ३६, पं. २४  
 दीधउं ६०, १. ६२, १

दीधु ७८, १  
 दीधुं ५०, १  
 दीपइ ३८, २  
 दीरघइ कू ३१, १  
 दीर्घनउं ७९, २  
 दीर्घु ७९, २  
 दीवउ ९, २  
 दीवटीउ ६९, २  
 दीवडी १९, २  
 दीवमंदिर २३, २  
 दीवाकाणउ २१, २  
 दीवाली १८, २. ६७, १  
 दीवी २६, २  
 दीसइ ७३, २. ७७, २. ७८, १  
 दीसतउं ६०, २  
 दीह २०, २  
 दीहाडा ७३, १  
 दीहाडी ७३, २  
 दीहाडे ७८, २  
 दुक्खइ १०, १  
 दुगंखिं ७३, १  
 दुगुंछइ ४०, १  
 दुपमाभरउ ६, १  
 दुघडउ २६, २  
 दूध ७, १. ७५, २  
 दूधु ७२, २  
 दूवलउ ३२, १  
 दूमइ ४०, १. ४२, १  
 दूर्वानउ समूहु ७६, २  
 दूपइ ३७, १. ४९, १  
 दूहवइ ४६, १  
 देइ ३५  
 देई ६१, १. ६२, १  
 देउली ३३, १  
 देखइ ४०, २  
 देखतउ ६०, २  
 देखाविखि २७, १  
 देखी ६१, १  
 देजे ३५  
 देणहार ३६, पं० २२

देणहारु ६१, २. ६२, २

देणाहारु ३६, पं० ३३

दैत ७८, २

देतउ ३६. ६०, १

देतु (प्र०) ६०, २

देतुं ६२, १

देव आयतुं करइ ७७, २

देवउं ३६, पं० ३१

देवतणइ ७२, २

देवदत्त २१, २

देवदत्तु ७१, २

देवा ३६, पं० २८ ६१, १. ६२, १

देवालय कन्हलि } ७३, २  
तीर्थुं छइदेवालय विहुंगमे } ७३, १  
वड दीसइ

देवालयु ७५, २

देवालि १७, २

देवा वांछइ ८१, २

देवुं ६१, २. ६२, २

देवू ५२, २

देषइ ८०, १

देषतु (प्र०) ६०, ३

देषिवउं ६२, १

देषिवा ६१, २

देषिवा वांछइ ८१, १

देषिवूं (प्र०) ६२, १

देषिव्युं ५२, २

देषी (प्र०) ६१, २

देशांतरी ६९, १

देशि ७४, २

देशानी ६७, २

देशिइ ३६

देशउ ३६

देशरइ २२, १

देशरइरउ २५, २

देशरउं ७५, २

देशरासरु ६८, १

दैत्य ७२, २

दो [गुं] छइ ४६, १

दोटी ३२, २

दोतडि १५, २

दोरउ २२, २. ३२, २

दोरी ७३, १

दोसी ३३, २

दोहइ ४०, १. ९०, २

दोहडउ २५, १

दोहणी १६, २

दोहिलउं ६८, १

दोहिलुं ५७, १

दोहिवा वांछइ ८१, २

दोही ५१, १

दोहीत्रउ ७, १

द्रउडइ ४२, २

द्रमद्रमइ ४४, १

द्रम्मामु ६८, १

द्रम्मु ७३, २

द्रव्यु ७३, १

द्रहद्रहवार ६४, २

द्राख १२, २

द्राम ७८, २

द्वि ५७, २

## ध

धड २२, २

धडहडइ ४४, २

धणिउ ६७, १

धणिय १७, १. २५, १

धणीवउ २६, १

धत्तूरउ १२, २

धत्तूरियउ १६, १

धनागरउ १८, १

धनु ७६, १

धनुष ९, २

धमइ ३७, १

धमिउं ५२, १

धरइ ३७, १. ४९, १. ७० १

धरणइ १६, १

धरती १०, २

धरावइ ४१, १

धरिउ ५०, १

धरिवा वांछइ ८१, १. ८१, २

धरिवुं ५२, २. ५३, २

धवलइ ४०, १

धाई ८, १

धाईउ ५२, १

धाडि ९, २

धाणा ७, १

धाणी १९, २

धातइ १५, २

धातस्वायु ६९, २

धान २४, २

धान घीरी

धामण १७, २

धायउ ७, २. १८, २

धावइ ३९, १

धाहडी १२, २. ३१, १

धीया न पुत्ता १८, १

धीरवइ ४१, १

धींगउ २२, १

धुलहडी ६७, १

धूअउ १२, १

धूअरि १२, १

धूआ २३, १

धूणइ ३७, १

धूणियउ २५, २

धूपइ ३८, २. ७०, १

धूपघाणउ ६८, २

धूसइ ४४ १

धेणू २१, १

धेनुनउ समूहु ७६, २

धोअइ ४२, १

धोईउ ५१, २. ५२, १

धोयण ३३, २

धोरी १३, २

धोवणी १८, १

ध्यायइ ३७, २

ध्रायइ ३७, २

ध्रायु ७२, १

ध्रुवउ १६, २

ध्रू २३, १

ध्रैठउ ७, २

ध्रोव १३, १

न	नहीं तु ६२, २	निमिची ३४, २
न १८, १. ७२, १. ७८, २	नहुतरिउ ५२, १	नियोजिवुं ५३, २
नइ ७३, १	नाक ८, १	निरखइ ४१, २
नइमाहि माछा हींइई ७५, २	नागरवेलि १२, २	निरभरछइ ३९, २
नउद ९, १	नाचइ ३८, १. ४८, १. ८०, १	निराकरइ ४४, २
नउल १४, १	नाचिउ ५१, १	निरोध १८, १
नखारउ १८, १	नाचिवुं ५३, २	निर्घाटइ ४१, १
नगरनई उत्तर गमई } ७४, १	नाठउ ५०, १	निर्मलबुद्धि ७४, २
ढूकडउ पर्वतु }	नाणउ २३, २	निर्मलां ७४, २
नगरु ७३, २	नाणिद्रउ ६७, २	निर्वाप ७५, २
नचावइ ४८, १	नातणउ ९, १	निलखणउ २६, २
नणदोई ६७, २	नात्रा १८, १	निलाड ८, १. ६७, २
नणंद ८, १. ६७, २	नाथइ ४४, १	निवाडियउ २१, १
नदि ७४, २	नाथियउ १६, २	निवायउ २४, १
नदी २५, २. ७४, १	नान्हउ ६८, २	निवारइ ४३, २. ४६, २
नदीनउं जलु ७८, १	नामइ ८०, २	निवारिउ ४९, २
नमइ ३९, १. ८०, २	नामु ७४, १	निवी ३१, १
नमस्करइ ४१, २. ४६, २	नारिंग रूख २२, १	[ निवेदिवुं ] ५३, २
नमस्करिव्युं ५३, १	नालेर १२, २	निषेधइ ४६, २
नमिवा वांछइ ८१, २	नाव १०, १	निष्ठा २४, १
नमो १५, १	नावी १०, २	निसरावउ १७, १
नयडउ १४, २	नासइ ३९, २. ४८, २	निसूग २०, २
नरनरइ ४२, १	नासिवा २६, १	निसेजा २१, १
नव २८, १. ५७, २	नासिवुं ५४, २	निसोत २१, १
नवकारवाली २१, १	नास्तिक टाली } ७५, २	निस्तन्यउ ४९, २
नवकारसही ३३, २	कुण पापीउ }	निंदइ ३८, १. ४६, १
नवमउ ३०, २. ५७, १	नाहर १७, १	नीक २३, १. ६६, ३
नवमि ३१, २	नाहिवा वांछइ ८१, १	नीकउ २६, २
नवलउ १५, २	नाहिवुं ५४, १	नीकलइ ४६, २
नवाणू ३०, १	नांखइ ४२, १	नीकलयउ ४९, २
नवारसउ १७, २	नांगर २५, १	नीकोलइ ४६, २
नव्यासी २९, २	नांष ( ख ) इ ४७, २	नीखणियामउ २६, १
नस ९, १	नांषि ( खि ) उ ५२, १	नीचउं ५६, १
नसावइ ४०, १	निउंजइ ४२, २	नीठ २४, १
नहरणी १८, १	निऊ २९, २	नीठइ ४३, १. ७०, १
नहि तु ( प्र० ) ६२, ३	निकरउ २५, २	नीठि २३, १
नही ३३, २	निकोलिवा वांछइ ८१, २	नीठियउ २५, २
नही करइ ३६	निजंत्रइ ३९, १	नीठुर १४, २
नही दियइ ३६	निद्धंघस २०, २	नीद्रालखउ ६९, २
नही लियइ ३६	निद्रालखउ ३२, २	नीपजइ ३८, २
नहींत ५६, २	निवीजइ ७०, २	नीपजई ७५, २

नीमी १५, १  
 नीवडइ ४०, १  
 नीसरइ ४०, १  
 नीसरणी २०, १  
 नीसरिउ ४९, २  
 नीससइ ३९, २. ४६, २  
 नीसा २०, १  
 नीसाण १६, १  
 नीकोलइ ७७, २  
 नींगमइ ७३, १  
 नींद ६, २  
 नीपजावइ ७२, २  
 नीवू १९, १  
 नेउर ९, १  
 नेत्रउ २५, १  
 नोमाली ३४, १  
 नोहली ३१, १  
 न्युंछणउं ६९, २  
 न्युंजणउं ६९, २  
 न्हचारइ ४७, २  
 न्हाइ ४७, २  
 न्हाइउ ५०, १  
 न्हायइ ३७, १  
 प  
 पइठउ ४९, २  
 पइलउ (प्र०) ६४, ४  
 पइसइ ३९, २  
 पइसिवा वांछइ ८१, १  
 पइंत्रीस २८, २  
 पइंसठि २९, १  
 पउंजणी ३४, १  
 पखालइ ४२, १  
 पग ३२, २  
 पचइ ३७, २. ४९, १. ८०, १  
 पचखाण ३३, २  
 पचतालीस २९, १  
 पचारइ ४३, २  
 पचास २९, १  
 पचिवा वांछइ ८१, १  
 पच्छिम ६, १

पच्छिम कि ३१, १  
 पच्छोकडु ६९, १  
 पछइ १८, २. ३१, २. ५५, १  
 पछेवडइ ९, १  
 पछेवडी २१, १  
 पछोकडउ २६, १  
 पजूसण ३३, २  
 पटउ २३, १  
 पटांतरं ६६, २  
 पटांतरूं (प्र०) ६६, ४  
 पठणहार (प्र०) ६१, ४  
 पठणहार ६१, २  
 पठतु (प्र०) ६०, २  
 पठावियउ १४, २  
 पडइ ३८, १. ४८, १. ८०, २  
 पडखइ ४१, २  
 पडघउ २१, १  
 पडजीमी २०, २  
 पडत ७८, २  
 पडल २३, २  
 पडलउ ३४, १  
 पडली २५, २  
 पडवास ९, १  
 पडसाल ३२, १  
 पडहउ ६, २  
 पडहू १०, १  
 पडाई २६, २  
 पडिउ ५०, १  
 पडिकमणउ ३३, २  
 पडिगरिउ ५२, १  
 पडिलेहण ३३, २  
 पडिवा ३१, ३  
 पडिवा वांछइ ८१, २  
 पडिबुं ५३, १  
 पडीभार २५, २  
 पडीगइ ४१, २  
 पडीगरइ ४६, १  
 पडीसारउ ६८, २  
 पडूछइ ४४, १  
 पडूंचउ ३१, २  
 पडोसु ६९, १

पडइ ४२, १. ७७, १. ८०, १  
 पढणहार ७२, १  
 पढतउ ६०, २  
 पढमाली २०, १  
 पडिउं ६०, १. ६२, १  
 पडिवा ६१, १  
 पडिवा वांछइ ८१, १  
 पडिबुं ५३, १  
 पडिबू (प्र०) ६२, २  
 पढी ६१, १  
 पढीतउं ६०, २  
 पढीतूं (प्र०) ६०, ४  
 पढी सकउं ३६, पं० २९  
 पढी सकुं ६२, २  
 पडू ६४, २  
 पडूच ६४, २  
 पडूचूं (प्र०) ६४, ४  
 पढ्यउं (प्र०) ६०, १  
 पणीहारि ७, २  
 पतीजइ ४३, १ ७०, २  
 पतंग १७, २  
 पथरणउं ६७, २  
 पद ७७, १  
 पधारउ ४१, १  
 पनर २८, १  
 पनरइ ५७, २  
 पनरमउ ३०, २  
 पमार २१, २  
 पमावइ ४१, १  
 पमोडी १७, १  
 पयलु ६४, २  
 पयंतरउ ३२, २  
 परखइ ४१, २  
 परचूरणि २५, २  
 परत २६, २. ६६, २  
 परतइ ४४, १  
 परताति १९, १  
 परनालि १२, १  
 परम २७, १. ६२, २  
 परमइ ५५, २

- परमूणउं ६७, २  
 परलउ ३२, १  
 परव ११, १. ६८, २  
 परवारइ ४३, २  
 परवाली ११, २  
 परसु १८, १  
 परहउ २७, २. ५६, १  
 परहु ६४, २  
 पराणी १०, १  
 परायउ ३१, २. ५५, १  
 परालु ६९, २  
 परि ५५, २ ७७, २  
 परिचउ १५, १  
 परिणइ ४१, २. ४७, २  
 परिणउं ५४, १  
 परिणावइ ४८, २  
 परिणयउ ५१, १  
 परिधान २५, १  
 परिचारिउं ५७, १  
 परिवान्युं ६८, १  
 परिसीजइ ४६, १  
 परिसीनउ ५१, २  
 परीछइ ४१, १  
 परीयच्छि ६९, १  
 परीयट्टु ६७, २  
 परीषि (खि) उं ५३, १  
 परीसइ ४३, १  
 परीसिउ ५१, २  
 परीसिउं ५२, २  
 परूवइ ३७, १  
 पर्वतनइ अहिनाणि  
 गामु वसइ } ७३, २  
 पर्वतु ७४, १  
 पलवटि ६९, १  
 पलाण १३, २  
 पलाणइ ४१, १. ४४, १  
 पली ८, १  
 पलीवणउ २१, १. ३४, १  
 पलेवलउं ६९, २  
 पलोटइ ४०, २  
 पल्हालइ ४३, २. ७०, १  
 पवित्रइ ७०, १  
 पवित्री १७, २  
 पवित्रु करवा वांछइ ८२, १  
 पवीत्रइ ४३, १  
 पश्चिमीउ ७८, १  
 पसवइ ३२, १  
 पसीअइ ४२, २  
 पसीजइ ४२, २  
 पह २२, २  
 पहर २०, १  
 पहिरइ ४२, २, ४८, १  
 पहिरणउ ३२, १  
 पहिरता ७८, २  
 पहिरुं ५२, २  
 पहिरावइ ४८, १  
 पहिराविउ ५२, १  
 पहिरिउ ५२, १  
 पहिख्यउ २६, १  
 पहिलउ १८, २, ५६, २  
 पहिलुं ५५, १  
 पही ३९, १  
 पडुरइ १६, १  
 पडूआ १९, १  
 पहेली ६, २  
 पंखी १४, १  
 पंचवीस २८, २  
 पंचहत्तरि २९, २  
 पंचाणू ३०, १  
 पंचायन २९, १  
 पंचासी २९, २  
 पंड्यांस ३४, १  
 पाइक ३२, २  
 पाइणि १७, १  
 पाइली १७, २  
 पाउल ३३, १  
 पाउंछणउ २१, १  
 पाखइ ६२, २  
 पाखखमण ३३, २  
 पाखर १३, १  
 पाखलि ६४, २  
 पाचइ ४४, २  
 पाछइ १५, २  
 पाछलि ७५, १  
 पाछिलउ ३१, २, ६४, १  
 पाछिलु ६४, १  
 पाछिलुं ५५, १  
 पाछेवाणु ६६, २  
 पाछेवाणुं (प्र०) ६६, २  
 पाज २३, १  
 पाजणी २६, १  
 पाटउ २३, १. २४, १  
 पाटण टाली } ७५, २  
 किहां वसीइ }  
 पाटलउ ६८, १  
 पाटी ३२, १  
 पाटू २६, २  
 पाटूआली २६, २. ६७, २  
 पाठवइ ४४, १  
 [ पाडइ ] ४८, १  
 पाडउ २५, १  
 पाडिहारू ३१, १  
 पाड्यउ २२, २  
 पाढ ३५, १  
 पाण १७, १  
 पाणी १७, १. ७४, २. ७७, १  
 पाणीनइ छेहि वृक्षु ७५, २  
 पाणीनइ पारि देवाल्यु ७५, २  
 पाणी भरिउं सरोवर ७२, १  
 पातली १९, १  
 पात्र ७७, १  
 पात्रउ १८, १  
 पात्रारउ १८, २  
 पाथउ ३४, २  
 पाथर ११, २  
 पादइ ३८, १ ४९, १  
 पादरियउ २५, २  
 पाद्र २२, २  
 पाधरू ६४, १  
 पान १२, १  
 पान्हउ १७, २  
 पान्ही ८, २



पापड २२, २  
 पापीउ ७५, २  
 पामइ ४१, २  
 पामिउ ५०, १  
 पामिवा वांछइ ८१, २  
 पामिउं ५४, १  
 पामी विद्या जेहि पुरुषि ७४, २  
 पायइ ४१, १  
 पायकेसरी ३४, १  
 पायठवणउ ३४, १  
 पारउ ११, २  
 पारस पाहाण २२, १  
 पारि ७५, २  
 पारेवउ १४, १  
 पालइ ४१, १  
 पालउ १२, १ ५७, १  
 पालटइ ४३, १  
 पालटउ ६८, १  
 पालटिउ ५६, २. ६८, १  
 पालणउ २५, २  
 पालथी ९, १  
 पालवइ ४३, २  
 पालि २३, १  
 पालिउ ५०, २  
 पालिउं ५४, १  
 पालुइ ७०, १  
 पावइ ४१, २  
 पावटउ १७, १  
 पाव (ख?) रिउ ६८, २  
 पाषइ ६२, ४. ७४, १ ७५, १  
 पाषलि (प्र०) ६४, ३  
 पाष (ख) ह ५५, २  
 पासउ ७, २. ८, २. २५, १  
 पासानेवली २३, २  
 पासि ५६, २  
 पासी १०, २  
 पाहणि पीस्या सातू ७८, १  
 पाहरी ६९, २  
 पाहरी जागीइ ७१, १  
 पाहरू १६, १  
 पाहाण ११, २

पांख १४, १  
 पांगुरइ ४८, १  
 पांगुरणउ ३२, १  
 पांगुव्यउ ५२, १  
 पांगुरावइ ४८, १  
 पांगुरिउं ५२, २  
 पांच २८, १. ५७, २  
 पांचमउ ३०, २. ५७, १  
 पांचमि ३१, २  
 पांजरउ २२, २  
 पांडरउ १४, २  
 पांति १४, २  
 पांभडी ३४, २  
 पांसुली ९, १  
 पिण्डखजूर २४, २  
 पितर ८, १  
 पियइ ३७, १  
 पिराणउ ६९, १  
 पिहुलउ ३३, २  
 पिंगाणी २३, २  
 पीइं ७५, २  
 पीजहलउ २६, २  
 पीजहलु ६९, १  
 पीटणउ २१, २  
 पीठ १५, १  
 पीठी १६, १  
 पीडइ ३८, १  
 पीढी २२, १  
 पीतरियउ ७, २  
 पीतल ११, २  
 पीत्राणी ६९, १  
 पीत्रीयु ६९, १  
 पीधुं ५०, १  
 पीपल १२, १  
 पीपलरी २६, १  
 पीपलि ७, १  
 पीपलीमूल ३४, २  
 पीपी २६, १  
 पीयइ ४६, २  
 पीलउ १५, २  
 पीलू ३५, १

पील्या २५, १  
 पीवा वांछइ ८१, २  
 पीवूं ५२, २  
 पीसइ ४४, १. ४६, १  
 पीसती २०, २  
 पीस्या ७८, १  
 पीहर १५, १  
 पीगाणउ २३, २  
 पींछ १४, १  
 पींजइ ३७, २  
 पींजणउ १०, २  
 पींजती २०, २  
 पींडार २२, २  
 पींडी ८, २  
 पुकारइ ४४, २  
 पुडउ १६, २. २३, २  
 पुण पुण ५७, १  
 पुत्रसिउं यमइ ७५, २  
 पुत्रि २१, २  
 पुष्कपडली २५, २  
 पुरअहे दीहाडे } ७८, २  
 मिघान्न यमता }  
 पुरस ८, २  
 पुरु ५५, २  
 पुरुष ७८, २  
 पुरुषतणउ समूहु ७६, १  
 पुरुषतणुं समवायु ७६, १  
 पुरुषनउं वुंडु ७६, १  
 पुरुषभणी ७३, १  
 पुरुषि ७४, २  
 पुरुषु राजांनीं परि } ७७, २  
 दीसइ }  
 पुरोकउं ६७, २  
 पुहु ७३, १  
 पुहुलउ ७९, १  
 पुहुंक १९, १  
 पुंआड ३३, १  
 पुंखियउ २४, १  
 पुंजउ (प्र०) ६४, ४  
 पूअरअ ३३, २  
 पूगीफाड २१, २

पूछ १३, १  
 पूछइ ३७, २, ४८, १, ८०, १  
 पूछणहार (प्र०) ६१, ४  
 पूछणहार ६१, २  
 पूछतउ ६०, २  
 पूछतु (प्र०) ६०, ३  
 पूछिउ ४९, २  
 पूछिउं ६०, १  
 पूछिवउं ६२, १  
 पूछिवा ६१, २  
 पूछिवा वांछइ ८१, १  
 पूछिबुं ५३, २  
 पूछिबुं (प्र०) ६२, २  
 पूछी ६१, १  
 पूछीतउं ६०, २  
 पूछीतुं (प्र०) ६०, ४  
 पूछयुं (प्र०) ६०, २  
 पूजइ ४१, २, ४६, २  
 पूजिवा वांछइ ८१, २  
 पूजिबुं ५३, १  
 पूठउ ८, २  
 पूठि ६३, ४, ७३, २  
 पूठि ६३, २  
 पूडा २०, १  
 पूर्णी ६७, १  
 पूत ७, २, २४, २  
 पूतली ११, १  
 पूत्रलउ १६, २  
 पूनिम ३१, २, ७६, १  
 पूरइ ३९, १, ४१, २  
 पूरउ ३१, २  
 पूरव दिश ६, १  
 पूरिसइ २१, २  
 पूर्वीयु ७८, १  
 पूलउ १६, २  
 पूंजइ ४०, २  
 पूंजउ ६४, २  
 पूंद ८, २  
 पूलाबलि २६, २  
 पाईस्त १९, १  
 पाटलिया १६, १

उ० २० १४

पोटली १६, १  
 पोठीउ ६७, २  
 पोठीयउ १३, २  
 पोत्रउ ७, २  
 पोथउ २२, २  
 पोथउं ७३, १  
 पोथां ७५, २  
 पोथी ३२, १  
 पोरवाड २१, २  
 पोरसी ३३, २  
 पोली २०, १, ३३, १  
 पोषणु ७२, १  
 पोष्यवर्गरहिं ७२, १  
 पोस ६, १  
 पोसइ ३९, २  
 पोसहथउ २६, १  
 पोसाल १८, २  
 प्रकासइ ४०, १, ४७, १  
 प्रजूंजिउ ५१, १  
 प्रति ७३, २  
 प्रतीठ २३, १  
 प्रधान रहि ७२, १  
 प्रयाणउ ९, २  
 प्रयुंजइ ४८, २  
 प्रयोग ७२, २  
 प्रवर्तइ ७५, १  
 प्रवाली ११, २  
 प्रशास्यु १९, १, १९, २  
 प्रसवइ ४९, १  
 प्रसविउ ५१, २  
 प्रसंसइ ३९, २  
 प्रसाद रा २४, २  
 प्राणीया ७२, २  
 प्राणीयां तु मति- } ७२, २  
 जीवी भला }  
 प्रासाद योग्य } ७७, २  
 हितूई ईट }  
 प्राहुणउ ३३, २  
 प्रियु ७९, २  
 प्रीणइ ४७, २  
 प्रेयनुं ७९, २

प्रेरइ ४२, २, ४६, २, ८०, २  
 प्रेरिउ ५१, २  
 प्रोअइ ४२, २  
 लीह ८, २

फ

फडफडइ ४३, २, ७०, २  
 फरलउ २१, २  
 फरसइ ३९, २  
 फरिस्यउ ५०, १  
 फलइ ३९, १  
 फलहउ १९, २  
 फली १८, १  
 फंदइ ४०, २  
 फागुण ६, १  
 फागुणमास } ७६, १  
 तणी पूनिम }  
 फाटउ १६, २  
 फाडइ ४०, १, ४९, १  
 फाडियउ १४, २  
 फाडिवा वांछइ ८१, २, ८२, १  
 फाडी ६६, २  
 फाड्यउ ५१, २  
 फाल २५, १  
 फालरउ २५, १  
 फिरइ ४६, २  
 फिरक ६७, २  
 फिरिवा वांछइ ८१, १  
 फीटइ ४०, २, ४३, १  
 फीण १२, १  
 फुई ३२, २, ६९, १  
 फुईहाई २६, १, ६९, १  
 फूटइ ३८, १, ४८, २, ७०, २  
 फूटउ ५१, १  
 फूटरउ २६, १  
 फूटी २३, १  
 फूरइ ३९, १  
 फूलपत्री ७२, २  
 फुलिग ३५, १  
 फूकइ ४४, २  
 फेडइ ४२, २  
 फोडी २०, २

फोडइ ३८, १	वापडउ ५६, २. ६८, १	विहुं ७४, १
फोडउ ७, २	वापसरीषउ ६६, २	विहुं गमे ७३, २
फोफल ३४, १	वाफ ३३, १	विहुं परि २७, २. ५६, २
व	वाबीहउ १४, १	वीकानयर ११, १
वइठउ १९, २. ४९, २	वार ११, १. ५७, २	वीज ३१, २
वइरी ९, २	वारइ २८, १	वीजउ ५६, २
वइसइ ४४, १. ४७, २	वारमउ ३०, २	वीजउं ३०, २
वइसईं ७५, २	वारवट ३२, १	वीजली १२, १
वकोर १८, १	वारसि ३१, २	वीजावोल १७, २
वगलउ १४, १	वालइ ४२, १	वीजी भूमि २५, १
वगाई ६७, १	वालउ १२, २	वीजोरउ १२, २
वजरइ ४०, १	वालक ३९, १	वीयउ १७, १
वडवडइ ४०, २	वावन २९, १	वील १२, १
वत्रीस २८, २	वावनउ चंदन २५, २	वीह १६, २
वयालीस २९, १	वावीस २८, २	वीहइ ४१, २. ४६, २
बलइ ४१, २	वासठि २९, १	वीहावइ ४१, २. ४९, १
बलद १३, २. ७८, २	बाहिरल्युं ५५, १	वीहाविउ ५०, २
बलबलीउ ६९, १	बाहिरहुंतउ ५६, १	वीहिल ५०, २
बलहि ६८, २	बाहिरि २७, २	वीहिवा वांछइ ८१, २
बलिउ ५२, १	बांधइ ३८, २. ४८, २	बुद्धि ७४, २
बलिवा वांछइ ८१, १	बांधिउ ५०, २	बुहारी ११, १
बसवसइ ४३, १	बांधीवउ ७३, १	बूझइ ३८, २. ४८, २
बहिणि ८, १	बांभण ३४, २. ७४, २. ७५, २	बूझिउं ५३, २
बहिन ६९, १	बांभणनउ अभावु ७५, १	बूडइ ३८, १
बहिरउ २६, १	बांभणउं घरु ७२, २	बूढउ ७, १
बहुरखउ ३२, १	बांभणा ७२, २	बूव १६, १
बहुलु ७९, २	बांभण पाळलि शिष्य ७५, १	बूडी १०, १
बहेडउ १२, २. १७, २. ३२, २	बांभणायतुं ७७, २	बेल १७, २
बंग ३४, २	बांभणी १३, १	बेहडउं ६६, १
बंधुनउ समूह ७६, २	बांभणु ७४, २	बेहडूं (प्र०) ६६, १
बाउची १९, १	बि २७, २	बोर ३४, १
बाउल २२, २	बिउणउ ३२, २	बोरि १२, १
बाउलउ २६, २	बिडोत्तर सउ ३०, १	बोलइ १९, १. ४१, १. ७३, २
बाउलु ६९, १	बिमणइ ७७, २	बोलणहार (प्र०) ६१, ४
बाकरउ १३, २	बिमणउं ६७, २	बोलणहारु ६१, २
बाण १९, २	बिमातकाना कौ ३१, २	बोलतउ ६०, २
बाणरहिं हितुं शरकड ७७, १	विमात्र कै ३१, १	बोलतु (प्र०) ६०, २
बाणि ७७, २	बिलाडउ ३५, १	बोलिवउं ६२, १
बाणू ३०, १	बि वार (प्र०) ६३, १	बोलिवा ६१, २
बाप ८, १. २६, २. ६६, २	बिहत्तरि २९, २	बोलिवा वांछइ ८१, १
बापइ १८, २	बिहु परि (प्र०) ६३, २	बोलिखुं ५३, २

बोलिबू (प्र०) ६२, १  
 बोली ६१, १  
 बोलीतउं ६०, २  
 बोलीतू (प्र०) ६०, ४  
 बोल्याउं ६०, १  
 बोल्या ७२, २  
 बोल्यां (प्र०) ६०, १  
 व्यासणउ ३१, १  
 व्यासी २९, २  
 ब्राह्मण ७२, २  
 ब्राह्मण प्रति ७३, २  
 ब्राह्मणयमिसिं यमिसिं ७८, २  
 ब्राह्मणसिउं जाइ ७५, २  
 ब्राह्मणु शिष्यपाहिं } ७३, १  
 पोथउं सिखावइ }

भ

भइरव ६, २. ३३, २  
 भइसि ७२, १  
 भउजाई ३२, २  
 भक्ति ७३, २  
 भखइ ३९, २  
 भजइ ४९, १  
 भडह (भ) डइ ४४, २  
 भडिथ १७, १  
 भणइ ४२, १. ४८, १. ८०, १  
 भणावइ ४८, १  
 भणान्यउ ५०, २  
 भणिवा वांछइ ८१, १  
 भणिवुं ५३, १  
 भणी १५, १. ७३, १  
 भण्यउ ५०, २  
 भत्रीजउ ६७, २  
 भथायितु ६७, १  
 भमइ ३९, १  
 भमती ३३, १  
 भमरउ १३, १  
 भमरडउ १६, २  
 भमलि २३, १  
 भमाडइ ४०, १  
 भमिउ ५१, १  
 भमतउ ७३, १

भरइ ३७, १. ४९, १  
 भरणी २५, २  
 भरणु पोषणु ७२, १  
 भरिउ ५०, १. ७२, १  
 भरिउं ५६, २. ७२, १  
 भरिवुं ५३, २  
 भरुअच्छ ११, १  
 भस्यउ १४, २  
 भलई ७१, १  
 भला ७२, २  
 भलिसुं ४१, १  
 भली २४, १  
 भपइ ३९, २  
 भप्य (रुय) उ ५०, १  
 भसम १५, २  
 भसमृत २५, १  
 भंजवाड २६, २  
 भंडार २०, १  
 भंडारु ६८, २  
 भाई ७, २  
 भाउ व्रीज १८, २  
 भागउ ४९, २  
 भाजइ ३७, २  
 भाट २१, २  
 भाठ ११, १  
 भाडउ २४, १  
 भाणउ २०, २  
 भाणा योग्य हितूँ } ७७, २  
 कांसउं }

भाणेजउ ७, २  
 भात ७, १  
 भात्रीजउ ७, २  
 भाथडी ३३, १  
 भाद्रवउ ६, १  
 भारउट ३२, १  
 भारी ५६, २  
 भारु ७१, २  
 भालि २३, १  
 भाषइ ३९, २  
 भांखडी १७, २  
 भांगरउ १९, २

भांजइ ३७, २. ४८, १  
 भांजिवुं ५३, १  
 भांड २२, १  
 भांडइ ३७, २  
 भिउडी ८, १  
 भिंगार १५, १  
 भीखइ ३९, २  
 भीखारी ३३, २  
 भीतरउ ३२, १  
 भीति ३२, १  
 भील १०, २  
 भुइफोड ३५, २  
 भुजाई ६९, १  
 भुलइ ४०, २  
 भुवनि ७४, २  
 भुंजइ ४६, २  
 भुंडउ ७४, १  
 भूइ १०, २  
 भूख ७, १  
 भूखियउ ७, १  
 भूतंतउ प्राणीया भला ७२, २  
 भूहिरउ ३२, २  
 भेटिउ ५१, २  
 भेदइ ४३, १  
 भेदिउ ५१, २  
 भेदिव्युं ५३, १  
 भेलइ ४६, २  
 भोगल २७, १  
 भोलउ ६९, २

म

मइ घरि रहिवउं ७२, १  
 महलउ १५, २  
 मई ५५, १. ७८, २  
 मई रहीइ ७१, १  
 मई १०, १. २३, १  
 मउठ १२, २  
 मउड ९, १  
 मउडई ५७, १  
 मउणि ११, २  
 मउर १५, १  
 मउरा १८, २

मऊ (प्र०) ६६, ३	म लीधु ३६. ७८, १	माणी २३, १
मकनउ २५, १	म लेइ ३६.	मातउ ३३, २
म करि ३६	म लेसि ३६	मात्रा विना १८, १
म करिसि ३६	मवइ ४८, २	माथइ २५, १
म कीधु ३६. ७८, १	मविउ ५१, १	माथइ भमरउ ८, १
मकोडउ ३१, १	मसउ १९, २. ३४, २	मादल २२, २
मगसिर नषत्र ५, २	मसवाडा ७३, १	मान ७५, १
मजीठ २३, १	मसाण ११, १	मानइ ३८, २. ४२, २. ४८, २.
मजीठ राती खाडी ७६, १	मसाहणी ६९, १	मा नई ३९, १
मडउ ८, १	मसि ७, २	मामउ २६, २
मडि ६७, १	मसि [ भा ? ] जणउ ३४, १	मामी २६, २
मढ ११, १	मस्तक मीढइ के ३१, २	मायइ ४२, १
मढी १६, २	महतउ ९, २	मायउ २२, १
मणमणउ २२, १	महमहइ मालती ४०, १	मारइ ४४, १. ४८, १. ७२, २
मणसिल १५, १	महिषु बाणि आहणइ ७७, २	मारणहार (प्र०) ६१, ४
मणिआर १९, २	महुआल १७, १	मारणहार ६१, २
मणियउ १८, २	महुरउ १४, २	मारतउ ६०, २
मतवारणउ ११, १	महुलेठी १९, २	मारतु (प्र०) ६०, ३
मतिजीवी ७२, २	महुअउ १२, १	मारिउ ५१, १
मथइ ३८, १	मंगलेवउ १६, १	मारिउं ६०, १
मद १०, १	मंजार ३५, १	मारिवउं ६२, १
म दीधु ३६. ७८, १	मंजूस ११, १	मारिवा ६१, २
म देइ ३६	मंडइ ४७, २	मारिवा वांछइ ८१, १
म देसि ३६	मंभइ ३९, १	मारिवू (प्र०) ६२, १
मनावइ ४२, २. ४८, २	मंत्रासरु ६८, २	मारी ६१, १
मनाविवुं ५३, २. ५४, १	मंथाणउ ११, २	,, (प्र०) ,,
मनाव्यउ ५०, १	माइ ८, १	मारीतउं ६०, २
मनुष्यनउ समूहु ७६, १	माईय [ हायी ] ६९, १	मारीतू (प्र०) ६०, ४
मनुष्यमाहि ब्राह्मण श्रेष्ठ ७२, २	माउलउ ८, १. ६९, १	मारू ३५, १
मयगल ३४, १	मा [ उ ? ] लाही ६९, १	मालती ४०, १
मयण १३, १	माकण १३, १	मालवउ ३४, २
मयणहल २५, २	माखी १३, १	माली १०, १
मरइ ३७, १. ४७, १. ७०, २.	मागइ ३७, २. ४४, २	माषीनउ अभातु ७५, १
मरमर सबद २२, १	मागिउ ५२, १	मासउ १९, १
मरहठ ३४, २	माचइ ४२, १	मासतणी ७६, १
मरावइ ४८, १	माछलउ १४, १	मासमउ दिहाडउ ३१, १
मरिवा वांछइ ८१, २. ८२, १	माछा ७५, २	मासिहाई २६, २
मरीइ ७१, १	माजणउ २२, २	मासी ३२, २. ६९, १
मरूअउ १७, २	माझ १४, २	माखाही ६९, १
मर्दइ ३८, २. ७०, १	माटी ३४, १	माह ६, १
म लइ ४०, २	माणसामउ ५६, १	माहरउं ६३, २

माहरउं ३३, १	मुस्यउ ५०, २	मेरायीयुं ६९, १
माहखं २७, २. ५५, १. ६३, ३	मुहछण १७, २	मेलइ ७२, २
माहि ५६, २	मुहडउ ८, १	मेलउ १४, २
माहिल्युं ५५, १	मुहपती १८, २	मेलवइ ४०, १
मांकुण ६७, १	मुहपायी ६६, २	मेलिउ ५१, २
मांखण ७, १	मुहिया २७, १	मेहिवा वांछइ ८१, १
मांचउ ९, २	मुहिआं ( प्र० ) ६२, ४	मेह ६, १
मांचइ री २४, १	मुहीयां ६२, २	मेहरू २७, १
मांची ३३, २	मुहुखाई ( प्र० ) ६६, ४	मोकलउ ३३, २
मांजइ ३७, २. ७०, १	मुहरत ६, १	मोकलत ७८, २
मांजरि १२, १	मुंड ८, १	मोकलावइ ४४, १
मांड ७, १	मुंडउ २१, २	मोगर ९, २
मांडइ ३८, १	मुंदडी ३२, १	मोगरउ २३, २
मांडणउ ९, १	मूउ ५१, १	मोटउ ६८, १. ७९, १
मांडहिय ६८, १	मूकइ १३, १. ८०, २	मोडइ ३८, १
मांडा ३३, १	[ मूकइ ] ४८, १	मोती ११, २
मांडी १५, २	मूकिबुं ५३, १	मोथ १३, १
मांदउ २४, २	मूझइ ४०, १	मोर १४, १
मांसु ७७, १	मूठउ १८, २	मोरसिखा १९, २
मिठाई १९, १	मूठि ८, २	मोलइ ४२, १
मिन्नाई ९, २	मूत्रइ ३७, १	मोलीउं ६७, २
मिलइ ७०, १	मूल १०, १	मोसंधीयुं ६७, २
मिलायइ ४०, १	मूलउ १३, १	मौ ६६, २
मिष्टान्न ७८, २	मूली १६, २	
मीचइ ४२, २	मूस १९, २	य
मीठउ १४, २	मूसउ १३, २	यमइ ७५, २
मीठी १८, २	मूसल ११, १	यमणुं ६४, १
मीठी ( प्र० ) ६६, ३	मूकिउं ५०, २	यमता ७८, २
मीजी ९, १	मूंग १२, २	यमिउं ६०, १
मीढइ ३१, २	मूछ ८, १	यमिउं ६२, १
मीढउ १३, २	मूडिउ ५२, १	यमिवा ६१, २. ७५, २
मीढी ६६, २	मूवडी २०, २	यमिसिं ७८, २
मुखामुखि २६, २	मूं पाषइ ७४, १	यमी ६१, १
मुखास १७, १	मूं सरीषउ २७, २. ६४, १	यमीतउं ६०, २
मुग ७२, २. ७८, १	मूंइइ ५५, १	यसउ ६४, १
मुगउ ५६, २	मृगतणउं मांसु ७७, १	यहां ६३, १
मुजल १७, १	मृगु विंधइ ७७, २	यहांनउ ७८, १
मुडइ ६८, १	मेघु ७८, १	याचइ ४४, २
मु ( माउ ? ) लागि ६९, १	मेढी १०, १	याण ( प्र० ) ६३, ३
मुसइ ३९, २	मेथी रा लाइ २६, १	यावज्जीवु ७२, १
	मेराईउ २६, १	यिम ६२, २

ये ये लहुडा ते ते } ७५, २	राइणि १९, १	रांधइ ३८, २
यमिवा बससई } ७५, २	राइतउ ३१, १	रांधउ २४, २
ये ये बडा ते ते } ७५, १	राई ७, १. २४, १	रांधणउ २०, २
मान लहई } ७५, १	राउ ७२, २	रांधिवउं ५२, २
यो ५५, २	राउत ६८, १	रांधयउ ७, १
योग्य ७७, १. ७७, २	राउताई ६८, १	रांपी २२, २
योग्यु ७७, २	राउ बांभणना } ७२, २	रिजइ ४०, २
र	बयरि मारउ }	रिणउ १५, १
रखवालउ २०, २	राउलउ २३, २	रीछ १३, २
रचइ ३७, १	राउ लोकापाहिं } ७३, १	रीसालू ७, १
रतांजणी १७, २	करसणु करावइ }	रुचइ ४९, १
रती १७, १	राक्षसु ७८, १	रुलियउ २५, २
रत्न ७५, २	राख १०, १	रुलीयामणउं ६८, १
रथु ७८, १	राखइ ३९, २	रुलीयायित कीधा } ७४, २
रमइ ३९, १. ४६, २. ८०, २	राखडी १८, २	जीण बांभण }
रमिउ ४९, २	राचइ ४४, २	संधिउ ५१, २
रमिवा वांछइ ८१, १	राजगुल ६७, २	रुखउ २५, १
रमिबुं ५४, २	राजपुत्र ७५, २	रूतउ १८, २
रयताणउ ३४, १	राजभुवनि ७४, २	रूतउ २१, २
रलियामणुं ५७, १	राजवी २१, १	रूपउ ११, २
रलीयामणउ ३२, १	राजा गामु बांभ- } ७७, २	रूपानां पात्र ७७, १
रवऊ २६, १	णायतुं करइ }	रूपु ७८, १
रसोई १९, २	राजान २२, १	रुसइ ३९, २
रसोयि ६८, २	राजानी परि ७७, २	रूं ३२, २
रहइ ४४, २. ८०, १	राजा पाछलि सेना ७५, १	रूंख २१, २
रहतउ ६०, २	राजारउ २३, १	रूंथइ ३८, २. ४९, १
रहाविउ ४९, २	राठऊड २१, १	रोइ ४९, १
रहिउ ४९, २	राडि ९, २	रोइउ ५१, १
रहिउ ५२, २. ६०, १	रातउ २४, २. ७६, १	रोझ १७, १
रहितउं ६०, २	राति २०, २	रोयइ ३८, २
रहितु ( प्र० ) ६०, ३	राति ७३, १	रोयिवा वांछइ ८२, १
रहिवउं ६२, १. ७२, १	राती ७६, १	रोहीडउ २२, १
रहिवा थाकिवा, } ८१, १	रान ३३, १	रोहीस १३, १
थाइवा[वांछउ] }	राब १६, १	ल
रहिवूं ( प्र० ) ६२, १	रायतणउ समूहु ७६, १	लउडउ २२, १
रही ६१, १	रावटउ ११, २	लउंकडी १३, २
रहीइ ७१, १	राष ( ख ) इ ४८, २	लउंग ९, १
रहीतूं ( प्र० ) ६०, ४	राषि ( खि ) उ ५०, २	लखइ ३९, २
रहीवा ६१, २	राषि ( खि ) बुं ५४, १	लखमी ६, २
रंग्यउ ५०, २	राह ५, २	लगइ ५६, १. ६२, २
रंजइ ४३, २	रांक २४, १	लगाडइ ७८, १

लगाडिउ ६८, १	लांबउ ६४, १	लूणितुं ५४, २
लज्जालु ७९, २	लि ७०, १	लेइ ३५. ४७, १
लट्ट १७, १	लिइ ७१, २. ८०, १	लेइउ ३६
लयेत ७८, २	लिखइ ३७. २. ४७, २. ८०, २	लेई ६१, १. ६२, १
लहइ ३९, १. ७३, २	लिखावइ ७३, १	लेखउ २५, २
लहइं ७५, १	लिखिवा वांछइ ८१, १	लेखणि ३४, १
लहिवा वांछइ ८१, २	लिखितुं ५३, २	लेजे ३५
लहितुं ५४, १	लिधुं ६०, १	लेटइ ४४, १
लहुडइ कु ३१, १	लिपसणउं ६६, २	लेणहार ३६, पं० २२. ६१, ३
लहुडउ ७९, १. ७९, २	लिपसणूं ( प्र० ) ६६, ४	लेणहार ६१, २. ६२, २
लहुडा ७५, २. ७८, २	लियइ ३५. ३७, १	लेणाहर ३६
लहुडुं ५६, २	लियरावइ ४७, १	लेत ७८, २
लाइ ८०, २	लिपा ( खा ) वइ ४७, २	लेतउ ३६
लाई ५७, १	लिपि ( खि ) उ ५२, १	लेतु ६०, १
लाकडउं ७७, १	लीख १३, १	लेतुं ६२, १
लाख ९, २. ३०, २	लीजइ ३५	लेव २१, २
लाखमउ ३१, १	लीजउ ३५	लेवउं ३६. ६१, २
लागउ ५०, १	लीजतउ ३६	लेवा ३६. ६१, १. ६२, १
लागु ६८, १	लीजतउं ६०, २	लेवा वांछइ ८१, १. ८१, २
लाज ३३, २	लीजतुं ६२, १	लेवुं ६२, २
लाजइ ३८, १	लीजतूं ( प्र० ) ६०, ३	लेवूं ५२, २. ६१, ४
लाजिवा वांछइ ८१, २	लीजिसिइ ३६	लेसाल १८, २
लाजीइ ७१, १	लीधउ ३६. ७३, १. ३६, पं० २४	लेसिह ३६
लाज्यउ ४९, २	लीधउं ६२, १	लेसूडउ १७, २
लाठि ३४, १	लीधी ५१, १	लेहउ ७, २
लाडइ ४२, २	लीधु ७८, १	लोकपाहिं ७३, १
लाडू २०, १. २६, १. ७४, २	लीधुं ५०, १	लोक विक्रमादित्यु } ७२, २
लात १७, १	लीह ३२, २	राउ स्मरइ }
लाधउ १४, २. ५०, १	लीडी १७, १	लोकांरी २४, २
लापसी १५, २	लीपइ ३८, २	लोडइ ४०, २. ४४, १
लाभइ ४७, १	लुकइ ४०, १	लोढउ २०, १
लाल ९, १	लुडइ ३८, १	लोपइ ३८, २
लालइ ४१, १	लुणइ ४२, २. ४८, २	लोवडी १९, १
लालि १६, १	लुणाइ ४४, २	लोहडउं ७७, २
लाष रातउ कांबलउ ७६, १	लुणावइ ४८, २	लोहमूं ५७, १
लाषिवा वांछइ ८१, १	लुणितु ५०, २	लोहार १०, २
लाहउर ११, १	लुंकडि ६७, १	लोही ८, २
लाहणउ २५, २	लुंचइ ३७, २	ल्हसण १९, २
लांघइ ३७, २	लुंतिउ ५०, २	व
लांच ९, २. ७२, १	लूटइ ३८, १	वहरी ३६
लांप ६९, २	लूण कथरा ३१, १	वइसाख ६, १



बईगणु ३३, २  
 बखाण ३४, १  
 बखाणइ ४३, २  
 बखाणितुं ५३, १  
 बघारइ ४३, २  
 बच्छनाग १३, १  
 बछीयायित ( प्र० ) ६६, ३  
 बज २१, १  
 बटवालनुं ६६, १  
 बड १२, १. ७३, २  
 बडउ ५६, २. ७९, १  
 बडपण ७, १  
 बडा २०, १. ७५, १  
 बडां ७६, १  
 बडी १७, १. २०, १. २४, १. ३४, २  
 बडी वार लगाडइ ७८, १  
 बडु ७५, २. ८०, १  
 बणइ ४२, २  
 बणवउ २६, १  
 व ( च ? ) णहडीउ ६७, १  
 बण्णरिस ३४, १  
 वणिज १०, १  
 वणी २४, २  
 वणीमग ७, १  
 वत्सनु समूहु ७६, १  
 वत्सरहिं हितूउ ७७, २  
 वधूअउ १२, २  
 वधाअइ ४४, २  
 वधामणउ २१, २  
 वधारइ ४९, २  
 वधावइ ४४, २  
 वधूवर २४, १  
 वमइ ३९, १  
 वमिउ ५१, १  
 वयगरणु ६८, २  
 वयरि ७२, २  
 वयरी ७३, १  
 वयरी मरीइ ७१, १  
 वरइ ३७, १. ४७, १  
 वरगडु ६८, २  
 वरसर काटिवउ १५, २

वरता १०, २  
 वर पाछलि गीत } ७५, १  
 गाती खी }  
 वरस ६, १  
 वरसइ ३९, २. ४८, २. ८०, १  
 वरसवियारणि ( प्र० ) ६६, ४  
 वरसात २०, २  
 वरसालउ ६, १  
 वरसोला १८, २  
 वरहलि ( प्र० ) ६६, ४  
 वरसीयि ७०, २  
 वरांसउ ६८, २  
 वरांसिउ ६८, २  
 वरांसिवयउ २९, १  
 वरांसीयइ ४३, २  
 वरुआयती कन्या } ७७, २  
 संपजइ }  
 वर्णवइ ३७, १  
 वर्तइ ४५, १  
 वर्तिवउ ५१, २  
 वर्षशत ३६  
 वर्षाकालनउ मेघु ७८, १  
 वलइ ४२, २  
 वलउ २२, १  
 वलतउ २५, २  
 वला २५, १  
 वलि २३, २  
 वली ६३, १  
 वली वली ६८, १. ८०, १  
 वषा ( खा ) णइ ४८, १. ७०, १  
 वषा ( खा ) णिउ ५१, १  
 वसइ ७३, २  
 वसीइ ७५, २  
 वस्तु री २४, २  
 वख ७९, १. ७८, २  
 वखगांठि २४, २  
 वहइ ४०. १. ४८, १. ७३, १  
 वहलि ६६, २  
 वहिउ ५१, २  
 वहिलउ १५, २. ७९, २  
 वहिं ५२, २

वही १७, २  
 वहीयि ७८, १  
 वहू ७, २  
 वहूवत् ७९, १  
 वंचइ ३७, २. ४७, १  
 वंचितुं ५४, १  
 वंच्यउ ५०, १  
 वंछिउं ५०, २  
 वंदिउ ५१, २  
 वाअइ ४२, २  
 वाइ ४८, १  
 वाइलउ १८, २  
 वाइतुं ५३, २  
 वाउ १२, १  
 वाउल २३, १  
 वाउलि २१, १  
 वाग १३, २  
 वागुर १०, २  
 वागुरी १०, २  
 वागुलि १४, १  
 वाघ १३, २. १५, २  
 वाघ तणां पद ७७, १  
 वाचइ ३७, २  
 वाचणाहह ७२, १  
 वाचिषुं ५३, २  
 वाछडउ १८, २  
 वाछडा २४, २  
 वाछरू २४, २  
 वाजइ ४४, २. ४८, १  
 वाजउ ६, २. २५, १  
 वाजिउ ६, २  
 वाटइ ४४, १  
 वाटभोजन २४, १  
 वाटली २३, २  
 वाटवालणुं ( प्र० ) ६६, १  
 वाटि २३, २  
 वाडि २४, १. ७३, २  
 वाडी १२, १. २१, २. ७३, २  
 वाणही २०, १  
 वाणारसी १०, २

- वाणि २४, २  
वात ७३, २. ७८, २  
वातचीत ६, २  
वादलउ २६, १  
वाघइ ४२, १. ४३, २. ४९, २.  
७०, २. ७१, १  
वाघीउ ५१, २  
वान १५, १  
वानगी २१, १  
वानी २१, १  
वापरइ ४१, २ ४७, २.  
वापरिउ ४९, २  
वाम ८, २  
वायइ ३७, १  
वाथिवा वांछइ. ८१, २  
वायु ७८, १  
वार ७८, १  
वारइ ४३, २. ४६, २. ४८, १  
७०, १  
वारिखुं ५३, १  
वाल १२, २  
वालरकाकडी २५, २  
वालहली ३३, १  
वाली ९, १  
वावइ ४३, २. ७०, १  
वावइ ४७, २  
वावि ६७, १  
वाव्यां ७३, २  
वासइ ४२, २ ७३, २.  
वासउ २०, २  
[ वासिउ ] ५०, २  
वाहइ ४८, १  
वाहर २५, २  
वाहरू १६, १. २५, २  
वांकउ १५, १. ६४, १  
वांकु ( प्र० ) ६४, १  
वांछइ ३७, २. ४६, २. ८१, १.  
८१, २. ८२, १. ८२, २  
वांछिखुं ५४, २  
वांझ गाह १३, २  
उ० २० १५
- वांटइ ३७, १  
वांदइ ३८, २. ४६, २  
वांदणउ ३३, २  
वांदिखुं ५३, १  
वांस १२, २  
वांसोली १०, २  
विभारइ ४३, १  
विकस्यउ १२, १  
विकुर्वइ ४१, १  
विक्रमादित्यु ७२, २  
विगूयइ ४२, १  
विगोवइ ४२, १  
विघन १५, १  
विचारइ ३९, १. ४७, १  
विचारिउ ५०, १  
विचारिखुं ५४, १  
विचालउ १४, २  
विचि ७४, १. ७५, २  
विचालुं ५६, २  
विज्जाहरी ६६, २  
विङ्गलइ ४१, १  
विडलूण १०, २  
विढइ ४२, १  
विढवइ ४०, २  
विणइ ८०, २  
विणसइ ३९, २  
विणा ५५, २  
वीणिवा वांछइ ८२, २  
विदाणउ ६९, २  
विदारिउ ५२, १  
विदिस ६, १  
विदेशि ७३, १  
विद्या ७४, २  
विन्यानी ७, १  
विपराविखुं ५४, २  
विप्र ७४, २  
विमासइ ४१, २. ४७, १  
विमासउ ५०, १  
विमासिखउ ३४, २  
विमासिखुं ५३, २
- वियारियउ २६, २  
विरचइ ३७, १  
विरतउ २४, २  
विराध्यउ ५१, २  
विरासिउ ५२, १  
विरूयउ १८, २  
विरोलइ ४०, २  
विलखउ ७, २. ५७, १. ६४, २  
विलचइ ४९, १  
विलंबइ ३९, १  
विलोइउ ५१, १  
विषे ( खे ) रिउ ५२, १  
विस् १३, १  
विसनररहिं हितुं } ७७, २  
काष्ठ }  
विसनरु ७२, १  
विसनरु काष्ठि न ध्रायु ७२, २  
विसहर १४, १  
विसंटुल ३४, १  
विसाहइ ४७, १  
विसाहिउ ५०, १  
विसाहिखुं ५४, १  
विसिमिसि ५६, १  
विस्त्रइ ४०, २  
विसोआ १६, २  
विहडइ ४२, २  
विहथि ८, २  
विहरइ ४८, २  
विहरउ ६८, १  
विहसइ ४६, २  
विहसिउ ५१, १  
विहाइ ४४, १  
विहाणउ २६, १  
विहूणउ १५, १  
विघइ ७७, २  
विहचइ ४३, १  
वीकइ ४३, १. ७०, १  
वीखरइ ४१, २  
वीच १५, २  
वीहू १३, १

वीक्षणउ ९, २  
 वीझाई १८, २  
 वीझायइ ४२, १  
 वीझावइ ४२, १  
 वीठ ९, १  
 वीणि ६८, १  
 वीधइ ३८, २  
 वीध्यउ १४, २  
 वीनति १५, २  
 वीनवइ ४१, २. ४८, १.  
 वीनविउं ५३, २  
 वीनव्यउ ५०, २  
 वीवाहइ ४१, २  
 वीवाहपगरण २०, १  
 वीस २८, २  
 वीसमइ ४३, १  
 वीसमउ ३०, २. ५७, १  
 वीसमी ३१, १  
 वीसरइ ४०, १  
 वीसरिउं ५१, २  
 वीससइ ४४, १. ४६, २  
 वीट १५, १. २०, २  
 वीटइ ४३, १  
 वीटणउ २१, १  
 वीळउ १४, २  
 वुहरउ ३२, २  
 वृठउ ५१, १  
 वृसट (प्र०) ६६, २  
 वृक्ष कन्हलि घर ७५, १  
 वृक्ष सामहुं आमउं ७३, २  
 वृक्षु ७४, २. ७५, १  
 वृद्धु ७९, २  
 वृषभनउ समूहु ७६, १  
 वृंदु ७६, १  
 वेउल ३३, १  
 वेगउ १६, १  
 वेगड ३२, २.  
 वेगडि ६६, २  
 वेगडी (प्र०) ६६, ३  
 वेगलउ ७९, २

वेचइ ४७, १  
 वेचावइ ४७, १  
 वेचिउं ५४, १  
 वेच्यउ ५०, १  
 वेझ ९, २  
 वेठि २३, २  
 वेडिमी २२, २  
 वेद ७२, १  
 वेयइ ३८, २  
 वेरा १२, १  
 वेलि १२, १  
 वेल् ३५, १  
 वेस ९, १  
 वेसर (प्र०) ६६, १  
 वेसरु ६६, २  
 वेसवार ७, १  
 वेसावाडउ २०, २  
 वेहणउ ३४, १  
 वैय ७४, २  
 वैणवु रातिं च्यारइ } ७३, १  
 पुहुर जागइ }  
 व्यहु परि ६३, १  
 व्याऊ ७, २  
 व्याकरणु ७७, १  
 व्यारीउ ७३, १  
 व्यासनउं ग्रामु ७२, २  
 वणरउ २४, १  
 श  
 शपइ ७०, २  
 शब्दु ७८, १  
 शमिउ ५१, २  
 शरकड ७७, १  
 शरत्कालनउ तिडकउ ७८, १  
 शलाटु ६७, १  
 शापइ ४८, २  
 शास्त्र ७२, १  
 शिष्य ७५, १  
 शिष्यपार्हिं ७३, १  
 शोचइ ४९, १

शोभइ ४९, १  
 शोभिउ ५१, २  
 श्राद्धतणइ ७२, २  
 श्रीगरणु ६८, २  
 श्रीवच्छ ६, २  
 श्रीवासुदेव दैत्य मारइ ७२, २  
 श्रेष्ठ ७२, २  
 श्वाघइ ४७, १  
 [ श्वाघिउ ] ५२, १  
 श्वाघिउं ५३, १  
 श्शोक ७२, २

ष

प (ख) ईइ ४९, १  
 प (ख) मइ ४६, १  
 पा (खा) इ ७७, १  
 पा (खा) गीकणउं ६७, २  
 पा (खा) युं ५०, १  
 पा (खा) वउं १२, २  
 पा (खा) सइ ४६, १  
 पां (खां) ड योग्य } ७७, २  
 हितूई सेलडी }  
 पां (खां) ड्या ७८, १  
 पि (खि) सइ ८०, २  
 पि (खि) सरहिडी (प्र०) ६६, १  
 पी (खी) लउ ७३, १  
 पी (खी) ला योग्य } ७७, १  
 हितूउं लाकडउं }  
 पीं (खीं) ष नही (प्र०) ६४, ३  
 पूं (खूं) दइ ४६, १  
 पे (खे) डइ ४७, २  
 स  
 सहतालीस २९, १  
 सईत्रीस २८, २  
 सड ३०, १. ७१, २  
 सडगडउ ११, १  
 सडडि ३२, २. ६६, २  
 सडण १४, १  
 सडणी १६, २  
 सडमउ ३१, १  
 सड वार (प्र०) ६३, १

सकइ ४३, २  
 सकुं ६२, २  
 सगउ ८, १  
 सगलइ २७, १  
 सघलइ (प्र०) ६३, २  
 सघले ६३, १  
 सज्झाय ६, २  
 सज्जउ १५, २  
 स (सु) णउं ६८, १  
 सतर २८, १. २७, २  
 सतरमउ ३०, २  
 सतसठि २९, २  
 सतहत्तरि २९, २  
 सताणू ३०, १  
 सत्तरि २९, २  
 सत्तावन २९, १  
 सत्तावीस २८, २  
 सत्यासी २९, २  
 सदा ५६, १  
 सदाचार बांभणु } ७४, २  
 जीणइं गामि }  
 सहइइ ४०, १  
 सहहियउ १५, १  
 सनीचर ५, २  
 सन्यासी ३४, २  
 सपइ ४३, २  
 सभा ७६, १  
 समचात १५, २  
 समरइ ४१, २  
 समवायु ७६, १  
 समा ७७, १  
 समाणइ ४०, २  
 समारइ ४०, १  
 समारिवउ १८, १  
 समि कियउ २५, २  
 समी ७७, १  
 समीपि ७५, १  
 समुद्रमाहि रत्न० ७५, २  
 समुं ७७, १  
 समूइ ७६, १. ७७, १

समेटइ ४३, १  
 सयणाचार ८, १  
 सयर ८, १  
 सयरइ २३, २  
 सरइ ४४, २  
 सरजइ ३८, १  
 सरतकाल ६, १  
 सरलउ ६७, २  
 सरवइ ४३, १  
 सरसउ पाटण ११, १  
 सरसती ६, २  
 सरसवेल २०, २  
 सरस्वती ७५, १  
 सराध ९, २  
 सरिसव १२, २  
 सरीखउ २६, २  
 सरीषउ ६४, १. ६६, २.  
 सरीषउं गोत्र जेहनउं ७५, १  
 सरीषउं नामु जेहनउं ७४, १  
 सरीषु (प्र०) ६४, १  
 सरोवर ७२, १  
 सर्जइ ४७, १  
 सर्व परि ५६, २  
 सर्वोसर ६८, १  
 सलाह १५, २  
 सवइवार २७, १  
 सवईवार ६३, १  
 सवाइउ ६८, २  
 सवार ६७, १  
 सविहुं गमा ७३, २  
 ससइ ४४, १. ४६, २.  
 ससूग २०, २  
 सहइ ४३, २. ७०, २.  
 सहस ३०, २  
 सहसमउ ३१, १  
 सहायीयांनउ समूहु ७६, २  
 सहिउ ५१, २  
 संकइ ३७, २  
 संकुचइ ३७, २  
 संक्षेपइ ४७, २

संखाहोली ३५, २  
 संचकार १०, १  
 संचकारु ७८, १  
 संतोषिउ ५१, १  
 संथारउ १८, २  
 संद १७, २  
 संदिसइ ४८, १  
 संदिसवुं ५३, २  
 संदेसउ १८, २  
 संधियउ १९, २  
 संधूखइ ४२, १  
 संधूखण २३, २  
 संधूख्यउ १६, १  
 संपजइ ३८, २. ७७, २  
 संपन्नउ ५०, १  
 संवाहइ ४१, १  
 संभलावइ ४७, १  
 संभारतउ ७२, २  
 संभालइ ४१, १  
 संवरइ ४०, १  
 साइणि ३५, २  
 साकर १८, २  
 साकर सिउं दूध पीइं ७५, २  
 साकुली ३३, १  
 साखी १०, १  
 साग २४, १  
 सागडी ३२, २  
 साच ६, २  
 साचउर ११, १  
 साजउ ५०, १  
 साजी १०, २  
 साठि २९, १  
 साठी १२, २  
 साडी ९, १. ७६, १  
 साढापांच ३२, १  
 सात २८, १. ५७, २  
 सातपरिया १७, २  
 सातमउ ३०, २. ५७, १  
 सात मसवाडानइ० ७३, १  
 सातमि ३१, २

सातू १९, २. ७८, १	सांकली २०, २	सीघउ ७, १
साथ २२, २	सांखडि २०, १	सीप १५, २
साथरउ ३३, १	सांचइ ४२, १	सीयालउ २०, १
साथलि ८, २	सांजउ १८, १	सीर २२, २
साथियउ २५, १	सांझ ३१, २	सीरख ३२, २
सादूल १३, २	सांझणउं ७८, १	सीरवी १७, १
साध ५, १	सांड १३, २	सीरप ६७, १
साध (थ?) ६९, २	सांडसउ १९, २. ३२, २	सीरामण ३२, २
साधइ ३८, २	सांधइ ४१, १	सीरामणु ६६, २
साधुपणू ५७, १	सान २४, १	सीलउ १८, २
साधुसंघाडउ २०, १	सांप्रत १५, १	सिली ३२, १
सापरउ २४, २	सांबलउ ३३, २	सीवइ ३९, २. ४९, १
सापु भणी ७३, १	सांभरइ ४१, १	सीविवउ १९, २
साभरमती २२, १	सांभलइ ४७, १	सीव्यउ ५१, १
सामउ १२, २	सांभलिवा वांछइ ८१, १	सीह १३, २
सामलउ १४, २	सांभलीयि ७८, १	सीहदार ११, १
सामहु ६३, २	सांभलेव्युं ५२, २	सीहरी २५, १
सामहुं ७३, २	सांभल्यउ ५०, १	सींग १३, २
सामाई ३१, १	सिघ २४, १	सींगउ १६, २
सामुहु ५६, १	सिदिल १५, १	सींगडी १६, २
साम्हउ ३१, २	सिणमिणइ ४२, २	सींचइ ३७, २. ४८, २
साम्ह ७३, २	सिमकियउ २५, २	सींचव १०, २
सार १६, १	सिमथउ ८, १	सींभ ३४, २
सारद ६, २	सिलापट २४, १	सु ३५, २. ५६, १
सारी १४, १	सिलावटउ १७, १	सुभासणी ७, २
सारीखउ १४, २	सिरघू १९, १	सुई १०, १
साल १६, २	सिरीस २६, १	सुईउ १०, १
सालउ ८, १	सिसलउ १३, २	सुकिवा वांछइ ८१, २
सालणउ ३२, १	सिंगार १५, १	सुखिहिं ७३, १
सालवाहन ३४, १	सिंघाण ११, २	सुण ६८, १
सालवी २३, २	सिंचइ ८०, २	सुणइ ४२, १
साली ८, १	सीअल १७, १	सुभट ७४, २
सावण ६, १	सीकारा १९, १	सुमिणउ १५, १
सास १४, २	सीख २४, २. ३४, २	सुरंग ११, १
सासतउ १४, २	सीखइ ३९, २	सुवर्णनां आभरण ७७, १
सासू ८, १. ६९, १	सीख्यउ ७, १	सुपमाअरउ ६, १
साहइ ४१, १. ७८, १	सीचिवा वांछइ ८१, १	सुसइ ३९, २
सांकडउ १४, २	सीझइ ३८, २	सुसरउ ८, १
साहरइ ४०, १	सीथ २२, २	सुहगुरु ५, १
सांकलउ १५, १	सीदाअइ ४३, १	सुहायइ ४२, १

सुक ९, २	सेकिवा वांछइ ८१, २	ह
सुंघिवा वांछइ ८१, २	सेजगंडूआ २५, १	हकारिउ ५०, २
सुंचल ३४, २	सेठि ७, २	हगइ ३८, २. ४९, १
सूअइ ४२, २	सेजुंजउ ११, २	हडहडइ ४३, १
सूअर १३, २	सेरी १७, १	हणइ ३८, २
सूआ २५, १	सेना ७५, १	हणिउ ५२, १
सूआडि ६९, २	सेल १६, २	हणिवुं ५३, १
सूआर १९, २	सेलडी ७१, २	हथसाल ६८, २
सूइ ४५, २	सेवइ ३९, २	हथिणाउर ११, १
सूकइ ४३, १. ४९, १. ८०, २	सेवंती ३३, १	हथीयार २६, २
सूकउ ५१, २	सेस २३, १	हरइ ३७, १. ७२, २
सूग २४, १	सेहरउ ९, १	हरडइ १२, २
सूगडांग ६, २	सोई २४, २	हरषइ ३९, २
सूगामणउ ३१, २	सोचइ ३७, २	हरपी(ष)इ ४९, १
सूगामणउं ६४, २	सोनउ २५, १	हराविउ ६९, २
सूजइ ४४, १	सोनागेरू ११, २	हरिणनउं चांबडउं ७७, १
सूजवइ ४४, १	सोनारउ १८, २	हरियाल ११, २
सूसइ ३८, २. ४६, १	सोनाररी १९, २	हरी २४, १
सूसवइ ४६, १	सोभइ ३९, १	हलद ३३, २
सूडउ १४, १	सोरटी ११, २	हर्ष्यउ ५०, १
सूणहर ३३, १	सोल २८, १. ५७, २	हलद्रूआं वडां ७६, १
सूणहरउं ६७, २	सोलमउ ३०, २	हलरी ईस १०, १
सूतउ २०, १. ४९, २	सोलंकी २१, २	हलुअउ १५, २
सूत्रहार (सूथार) १०, २	सोवनगिरि ११, २	हवइ १८, २. ३५. ३७, १
सूत्रु पढइ जाणइ ७७, १	सोवा ३५, २	हवडां ६२, २
सूपडउ २०, १	सोहामणउ ३२, १	हवडांनुं ६२, २
सूयिवा वांछइ ८१, २	सोहिलउं ६८, १	हडवडांनुं (प्र०) ६२, ३
सूली १६, २	सोहिलुं ५७, १	हवं ६३, २
सूहव ६४, २	स्तवइ ४७, १	हसइ ४३, २. ४८, २. ८०, १
सूरिज ५, २	स्तविउ ५०, २	हसावइ ४८, २
सुंआलउ १४, २	स्तविवा वांछइ ८२, १	हसिउ ५१, १
सूखडी १९, १	स्त्री ७५, १	हसिवा वांछइ ८१, १
सूंघइ ४१, २. ४७, १	स्त्रीतणउ समूहु ७६, १	हा (प्र०) ६३, ४
सूंघवुं ५२, २	स्त्रीनी सभा ७६, १	हाक १७, २
सूंघ्यउ ५०, १	स्त्रीनुं घनु ७६, १	हाकइ ४०, २. ४४, २
सूंड १३, १	स्थिर ७९, २	हाटडी २५, १
सूंबरी वडी ३४, २	स्पर्द्धइ ४६, १	हाड ९, १
सूंहाली १८, १	स्मरइ ७२, २	हाडफूटि २५, २
सेई २१, २	स्मारिवा वांछइ ८२, २	हाथ ८, २. ३४, २
	स्याल १३, २	
	स्वस्थपणउ ६, २	

हाथी १३, १. २५, १  
 हाथी गुलगुलायइ ४१, १  
 हाथीयांनउ समूहु ७६, २  
 हालइ ३९, १  
 हा वलि ६३, २  
 हासी १७, २  
 हांडी १९, २  
 हिडकी ७, २  
 हित्ई ७७, २  
 हित्उ ७७, १. ७७, २  
 हित्उं ७७, १. ७७, २  
 हिमालउ ११, २  
 हियाविउं २६, १  
 हिवडां २७, १  
 हिवडांनुं २७, १  
 हिविडां ५५, २  
 हीअउ ३२, २  
 हीकइ ३७, २  
 हीम १२, १  
 हीरउ ३५, १

हीलइ ३९, १  
 हीसइ ३९, २  
 हींग ७, २  
 हींगलू ११, २  
 हींगवणि २३, १  
 हीडइ ४३, २  
 हीडइं ७५, २  
 हीडि २२, २  
 हीडिया २३, २  
 हीडोलइ ३७, १  
 हु ७३, १  
 हुइ ४७, २. १७, २. ८०, १  
 हुइवा वांछइ ८१, १  
 हुईइ ७१, १  
 हुडुक २३, २  
 हुयिवउं ७९, २  
 हुयिउं ७९, २  
 हुं ३५, २. ५५, १. ७८, २  
 हुं छउ ३४, २  
 हुंतउ ५६, २

हुउ ४९, २  
 हेजु करइ ४८, १  
 हेउइ १५, २  
 हेठलि हेठलि नगर ७३, २  
 हेठि ६४, १  
 हेठिलुं ५६, १  
 हेडाऊ १६, १  
 हेरइ ४१, १  
 हेरू ९, २  
 हेवउ १९, १  
 हैमंतनु वायु ७८, १  
 होउ ६३, २. ८२, २  
 होठ ८, १  
 होमइ ७०, १  
 होमिउ ५०, २  
 [होमिउ] ५१, २  
 होमिउं ५४, २  
 होली १८, २  
 हस्वु ७९, २

\* \*  
\*

# राजस्थान पुरातत्व मन्दिर

की

कार्य प्रवृत्ति

\*  
\* \*

१. राजस्थानमें और राजस्थानसे संलग्न प्रदेशोंमें प्राचीन साहित्यकी, अर्थात् संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और राजस्थानी आदि भाषाओंमें ग्रथित वाङ्मयकी शोध करना और उसको प्रकाशमें लाना ।

\*

२. राजस्थानकी प्राचीन संस्कृतिकी आधारभूत स्थापत्य, चित्र, शिल्प, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, दस्तावेज आदि साधन-सामग्रीका संग्रह, संरक्षण, संकलन एवं पर्यवेक्षण आदि करना ।

\*

३. प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोंका संग्रह करना, उनकी प्रतिलिपियां करवाना, फोटो, माइक्रोफिल्म आदि बनवाना ।

\*

४. राजस्थानकी प्राचीन संस्कृतिके अध्ययन, अन्वेषण, संशोधन आदि कार्यमें अत्यावश्यक उत्तम प्रकारका पुस्तक-भण्डार (ग्रन्थालय) स्थापित करना और उसमें देश-विदेशमें मुद्रित अलभ्य-दुर्लभ ग्रन्थोंका संग्रह करना ।

\*

५. राजस्थानके लोकजीवन पर प्रकाश डालने वाले विविध विषयक लोकगीत, सांप्रदायिक भजन-पदादि स्वरूप भक्ति-साहित्य एवं सामाजिक संस्कार, धार्मिक व्यवहार और लौकिक आचार-विचार आदि से संबन्धित सर्व प्रकारकी सामग्रीकी खोज करना और उस पर प्रकाश डालना ।

\*

प्रकाशक - देवराज उपाध्याय, उपसंचालक - राजस्थानपुरातत्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर (राजस्थान)

मुद्रक - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६।२८, कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई नं. २